



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, फरवरी 3, 1977 माघ 14, 1898  
No 51] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 3, 1977/MAGHA 14, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate pagting is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st February 1977

**S.O. 75 (E)**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/AP/75(1) dated 23 April 1975, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Andhra Pradesh, the officer of Government specified in column 2 of the Table below as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Andhra Pradesh as contained in Part A of Schedule III to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and specified in Column 1 of the said Table against such officer of Government:—

TABLE

Sl. No. and name of the Parliamentary Constituency	Returning Officer
1	2
1. Srikakulam . . . . .	Collector, Srikakulam.
2. Parvathipuram (ST) . . . . .	Collector, Srikakulam.
3. Bobbili . . . . .	District Revenue Officer, Srikakulam.
4. Visakhapatnam . . . . .	Collector, Visakhapatnam.
5. Bhadrachalam (ST) . . . . .	District Revenue Officer, Khammam.

I

2

6.	Anakapalli . . . . .	District Revenue Officer, Visakhapatnam.
7.	Kakinada . . . . .	District Revenue Officer, East Godavari.
8.	Rajahmundry . . . . .	Collector, East Godavari.
9.	Amalapuram (SC) . . . . .	Collector, East Godavari.
10.	Narasapur . . . . .	District Revenue Officer, West Godavari.
11.	Eluru . . . . .	Collector, West Godavari.
12.	Machilipatnam . . . . .	Collector, Krishna.
13.	Vijayawada . . . . .	District Revenue Officer, Krishna.
14.	Tenali . . . . .	District Revenue Officer, Guntur.
15.	Guntur . . . . .	District Revenue Officer, Guntur.
16.	Bapatla . . . . .	Collector, Prakasam.
17.	Narasaraopet . . . . .	Deputy Commissioner of Commercial Taxes, Guntur.
18.	Ongole . . . . .	Collector, Prakasam.
19.	Nellore (SC) . . . . .	Collector, Nellore.
20.	Tirupathi (SC) . . . . .	Collector, Chittoor.
21.	Chittoor . . . . .	Collector, Chittoor.
22.	Rajampet . . . . .	Collector, Cuddapah.
23.	Cuddapah . . . . .	Collector, Cuddapah.
24.	Hindupur . . . . .	District Revenue Officer, Anantapur.
25.	Anantapur . . . . .	Collector, Anantapur.
26.	Kurnool . . . . .	Collector, Kurnool.
27.	Nandyal . . . . .	Collector, Kurnool.
28.	Nagarkurnool (SC) . . . . .	District Revenue Officer, Mahbubnagar.
29.	Mahbubnagar . . . . .	Collector, Mahbubnagar.
30.	Hyderabad . . . . .	Collector, Hyderabad.
31.	Secunderabad . . . . .	Special Officer, Municipal Corporation of Hyderabad, Hyderabad.
32.	Siddipet (SC) . . . . .	District Revenue Officer, Medak.
33.	Medak . . . . .	Collector, Medak.
34.	Nizamabad . . . . .	Collector, Nizamabad.
35.	Adilabad . . . . .	Collector, Adilabad.
36.	Peddapalli (SC) . . . . .	District Revenue Officer, Karimnagar.
37.	Karimnagar . . . . .	Collector, Karimnagar.
38.	Hanamkonda . . . . .	Collector, Warangal.
39.	Warangal . . . . .	District Revenue Officer, Warangal.
40.	Khammam . . . . .	Collector, Khammam.
41.	Nalgonda . . . . .	Collector, Nalgonda.
42.	Miryalguda . . . . .	District Revenue Officer, Nalgonda.

[No 434/AP/77(I).]

### भारत निर्वाचन आयोग

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1977

का० आ० 75(अ) —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में और तारीख 23 अप्रैल, 1975 की अपनी अधिसूचना सं० 434 आ० प्र०/75(1) को अधिष्ठात करके हुए, निर्वाचन आयोग, आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से, नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर को, ऐसे सरकारी आफिसर के मामले आन्ध्र प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों, जैसा कि वे संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन

आदेश 1976 की अनुसूची 3 के भाग क में अन्तर्बिष्ट है और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है —

## सारणी

निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या तथा नाम	रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)
1. श्री काकुलम . . . . .	कलक्टर, श्रीकाकुलम ।
2. पार्वथीपुरम (अ० ज० जा०) . . . . .	कलक्टर, श्रीकाकुलम ।
3. बोबिली . . . . .	जिला राजस्व आफिसर, श्रीकाकुलम ।
4. विशाखापटनम . . . . .	कलक्टर, विशाखापटनम ।
5. भद्राचलम (अ० ज० जा०) . . . . .	जिला राजस्व आफिसर, खम्माम ।
6. अनकापल्ली . . . . .	जिला राजस्व आफिसर, विशाखापटनम ।
7. ककिनाडा . . . . .	जिला राजस्व आफिसर, पूर्वी गोदावरी ।
8. राजामुन्दरी . . . . .	कलक्टर, पूर्वी गोदावरी ।
9. अमालापुरम (अ० जा०) . . . . .	कलक्टर, पूर्वी गोदावरी ।
10. नारमपुर . . . . .	जिला राजस्व आफिसर, पश्चिमी गोदावरी ।
11. इलुरु . . . . .	कलक्टर, पश्चिमी गोदावरी ।
12. मछलीपटनम . . . . .	कलक्टर, कृष्णा ।
13. विजयवाडा . . . . .	जिला राजस्व आफिसर, कृष्णा ।
14. तनाली . . . . .	जिला राजस्व आफिसर, गुंटुर ।
15. गुंटुर . . . . .	जिला राजस्व आफिसर, गुंटुर ।
16. बापतला . . . . .	कलक्टर, प्रकासम ।
17. नरसाराओपेट . . . . .	वाणिज्यिक करो के उपायुक्त, गुंटुर ।
18. ओंगोले . . . . .	कलक्टर, प्रकासम ।
19. नेल्लोर (अ० जा०) . . . . .	कलक्टर, नेल्लोर ।
20. तिरुपथी (अ० जा०) . . . . .	कलक्टर, चित्तूर ।
21. चित्तूर . . . . .	कलक्टर, चित्तूर ।
22. राजमपेट . . . . .	कलक्टर, कुड्डापाह ।
23. कुड्डापाह . . . . .	कलक्टर, कुड्डापाह ।
24. हिन्दुपुर . . . . .	जिला राजस्व आफिसर, अनन्तपुर ।
25. अनन्तपुर . . . . .	कलक्टर, अनन्तपुर ।
26. कुरनूल . . . . .	कलक्टर, कुरनूल ।
27. नन्दयाल . . . . .	कलक्टर, कुरनूल ।
28. नगर कुरनूल (अ० जा०) . . . . .	जिला राजस्व आफिसर, महबूबनगर ।
29. महबूबनगर . . . . .	कलक्टर, महबूबनगर ।
30. हैदराबाद . . . . .	कलक्टर, हैदराबाद ।

(1)

(2)

31. सिकन्द्राबाद	विशेष आफिसर, हैदराबाद, म्युनिसिपल कोर-पोरेशन, हैदराबाद।
32. सिद्दीपेट (अ०जा०)	जिला राजस्व आफिसर, मेडक।
33. मेडक	कलक्टर, मेडक।
34. निजामाबाद	कलक्टर, निजामाबाद।
35. आदिलाबाद	कलक्टर, आदिलाबाद।
36. पेड्डापल्ली (अ०जा०)	जिला राजस्व आफिसर, करीमनगर।
37. करीमनगर	कलक्टर, करीमनगर।
38. हनमकोण्डा	कलक्टर, वारगल।
39. वारगल	जिला राजस्व आफिसर, वारगल।
40. खम्माम	कलक्टर, खम्माम।
41. नालगोडा	कलक्टर, नालगोडा।
42. मरयालगुडा	जिला राजस्व आफिसर, नालगोडा।

[स० 434 आ० प्र० 77(1)]

**S.O. 76 (E)**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No 434/AP/75(2) dated 23 April, 1975, the Election Commission hereby appoints each of the officer(s) of Government as specified in column 2 of the Table below as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Andhra Pradesh as contained in Part A of Schedule III of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and specified in column 1 of the Table against such officer of Government in the performance of the functions of such Returning Officer.—

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
1. Returning Officer of 1-Srikakulam Parliamentary Constituency.	Personal Assistant to Collector, Srikakulam.
2. Returning Officer of 2-Parvathipuram (ST) Parliamentary Constituency	Personal Assistant to Collector, Srikakulam
3. Returning Officer of 3-Bobbili Parliamentary Constituency.	Personal Assistant to Collector, Srikakulam.
4. Returning Officer of 4-Visakhapatnam Parliamentary Constituency.	1. Personal Assistant to Collector, Visakhapatnam 2. Commissioner and Special Officer, Municipality, Visakhapatnam.
5. Returning Officer of 5-Bhadrachalam (ST) Parliamentary Constituency.	1. Personal Assistant to Collector, Khammam. 2. District Land Reforms Officer, Khammam.
6. Returning Officer of 6-Anakapalli Parliamentary Constituency.	1. Personal Assistant to Collector, Visakhapatnam 2. District Supply Officer, Visakhapatnam.



1

2

7. Returning Officer of 7-Kakinada Parliamentary Constituency.
  1. Personal Assistant to Collector, Kakinada.
  2. Municipal Commissioner and Special Officer, Kakinada.
  - Personal Assistant to Collector, Kakinada.
8. Returning Officer of 8-Rajahmundry Parliamentary Constituency.
9. Returning Officer of 9-Amalapuram (SC) Parliamentary Constituency.
  1. Personal Assistant to Collector, Kakinada.
  2. Revenue Divisional Officer, Kakinada.
  - Personal Assistant to Collector, Eluru.
10. Returning Officer of 10-Narasapur Parliamentary Constituency.
11. Returning Officer of 11-Eluru Parliamentary Constituency.
  1. Personal Assistant to Collector, Eluru.
  2. Revenue Divisional Officer, Eluru.
12. Returning Officer of 12-Machilipatnam Parliamentary Constituency.
  1. Personal Assistant to Collector, Krishna.
  2. Revenue Divisional Officer, Bandar.
13. Returning Officer of 13-Vijayawada Parliamentary Constituency.
  1. Personal Assistant to Collector, Krishna.
  2. Commissioner and Special Officer, Vijayawada Municipality.
14. Returning Officer of 14-Tenali Parliamentary Constituency.
  - Personal Assistant to Collector, Guntur.
15. Returning Officer of 15-Guntur Parliamentary Constituency.
  - Personal Assistant to Collector, Guntur.
16. Returning Officer of 16-Bapatla Parliamentary Constituency.
  1. District Revenue Officer, Ongole.
  2. Personal Assistant to Collector, Ongole.
17. Returning Officer of 17-Narasaraopet Parliamentary Constituency.
  - Special Officer, Urban Circle, Ceiling, Guntur.
18. Returning Officer of 18-Ongole Parliamentary Constituency.
  1. District Revenue Officer, Ongole.
  2. Personal Assistant to Collector, Ongole.
19. Returning Officer of 19-Nellore (SC) Parliamentary Constituency.
  1. District Revenue Officer, Nellore.
  2. Personal Assistant to Collector, Nellore.
20. Returning Officer of 20-Tirupathi (SC) Parliamentary Constituency.
  - Personal Assistant to Collector, Chittoor.
21. Returning Officer of 21-Chittoor Parliamentary Constituency.
  - Personal Assistant to Collector, Chittoor.
22. Returning Officer of 22-Rajampet Parliamentary Constituency.
  - Personal Assistant to Collector, Cuddapah.
23. Returning Officer of 23-Cuddapah Parliamentary Constituency.
  - Personal Assistant to Collector, Cuddapah.
24. Returning Officer of 24-Hindupur Parliamentary Constituency.
  - Personal Assistant to Collector, Anantapur.
25. Returning Officer of 25-Anantapur Parliamentary Constituency.
  1. Personal Assistant to Collector, Anantapur.
  2. Revenue Divisional Officer, Anantapur.
26. Returning Officer of 26-Kurnool Parliamentary Constituency.
  1. District Revenue Officer, Kurnool.
  2. Personal Assistant to Collector, Kurnool.
27. Returning Officer of 27-Nandyal Parliamentary Constituency.
  1. District Revenue Officer, Kurnool.
  2. Personal Assistant to Collector, Kurnool.
28. Returning Officer of 28-Nagar-Kurnool (SC) Parliamentary Constituency.
  1. Personal Assistant to Collector, Mahbub-nagar.
  2. Revenue Divisional Officer, Mahbub-nagar.
29. Returning Officer of 29-Mahbubnagar Parliamentary Constituency.
  1. Personal Assistant to Collector, Mahbub-nagar.
  2. Revenue Divisional Officer, Mahbub-nagar.
30. Returning Officer of 30-Hyderabad Parliamentary Constituency.
  - Personal Assistant to Collector, Hyderabad.
31. Returning Officer of 31-Secunderabad Parliamentary Constituency.
  - Additional Commissioner (Revenue), Municipal Corporation of Hyderabad.
32. Returning Officer of 32-Siddipet (SC) Parliamentary Constituency.
  - Personal Assistant to Collector, Medak.
33. Returning Officer of 33-Medak Parliamentary Constituency.
  1. Personal Assistant to Collector, Medak.
  2. Revenue Divisional Officer, Sangareddy.

1	2
34. Returning Officer of 34-Nizamabad Parliamentary Constituency.	1. District Revenue Officer, Nizamabad. 2. Personal Assistant to Collector, Nizamabad.
35. Returning Officer of 35-Adilabad Parliamentary Constituency.	Personal Assistant to Collector, Adilabad.
36. Returning Officer of 36-Peddapalli (SC) Parliamentary Constituency.	1. Excise Superintendent, Karimnagar.
37. Returning Officer of 37-Karimnagar Parliamentary Constituency.	2. Revenue Divisional Officer, Karimnagar. Personal Assistant to Collector, Karimnagar.
38. Returning Officer of 38-Hanamkonda Parliamentary Constituency.	Special Officer, Urban Land Ceiling, Warangal.
39. Returning Officer of 39-Warangal Parliamentary Constituency.	Commissioner and Special Officer Warangal Municipality, Warangal.
40. Returning Officer of 40-Khammam Parliamentary Constituency.	1. Personal Assistant to Collector, Khammam. 2. Revenue Divisional Officer, Khammam.
41. Returning Officer of 41-Nalgonda Parliamentary Constituency.	1. Personal Assistant to Collector, Nalgonda. 2. Revenue Divisional Officer, Nalgonda.
42. Returning Officer of 42-Miryalguda Parliamentary Constituency.	1. Personal Assistant to Collector, Nalgonda. 2. District Supply Officer, Nalgonda.

[No. 434/AP/77(2) ]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

का० आ० 76(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43), की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 23 अप्रैल, 1975 की अपनी अधिसूचना सं० 434/आ०प्र०/75(2) को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग की चेष्टा की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट सरकार के प्रत्येक आफिसर को, ऐसे सरकारी आफिसर के सामने आन्ध्र प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जैसा कि वे संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची-3 के भाग क में अन्तर्निहित हैं और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के लिए रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करी के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

### सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)
1. 1—श्री काकुलम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, श्रीकाकुलम। रिटर्निंग आफिसर।	
2. 2—पार्वथीपुरम (अ०ज०जा०) संसदीय कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, श्रीकाकुलम। निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	
3. 3—बोम्बिली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिट- कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, श्रीकाकुलम। निंग आफिसर।	

(1)

(2)

- |   |  |
|---|--|
| 4. 4-विशाखापटनम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।          | 1. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, विशाखा-पटनम ।<br>2. आयुक्त और विशेष आफिसर, नगर पालिका, विशाखापटनम । |
| 5. 5-भद्राचलम (अ०जा०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर । | 1. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, खम्माम ।<br>2. जिला भूमि सुधार आफिसर, खम्माम ।                      |
| 6. 6-अनकापल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।           | 1. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, विशाखापटनम ।<br>2. जिला आपूर्ति आफिसर, विशाखापटनम ।                 |
| 7. 7-ककिनाडा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।             | 1. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, ककिनाडा ।<br>2. नगरपालिका आयुक्त और विशेष आफिसर, ककिनाडा ।          |
| 8. 8-राजामुन्दरी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।         | कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, ककिनाडा ।  |
| 9. 9-अमालापुरम (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।   | 1. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, ककिनाडा ।<br>2. राजस्व खण्ड अधिकारी, ककिनाडा ।                      |
| 10. 10-नारसपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।           | कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, इलुरु ।  |
| 11. 11-इलुरु संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।             | 1. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, इलुरु ।<br>2. राजस्व खण्ड अधिकारी, इलुरु ।                          |
| 12. 12-मछलीपटनम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।          | 1. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, कुण्णा ।<br>2. राजस्व खण्ड आफिसर, बान्वर ।                          |
| 13. 13-विजयवाड़ा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।         | 1. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, कुण्णा ।<br>2. आयुक्त और विशेष आफिसर, विजयवाड़ा नगरपालिका ।         |
| 14. 14-तेनाली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।            | 1. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, गुन्दुर ।   |
| 15. 15-गुन्दुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।           | कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, गुन्दुर ।  |
| 16. 16-बापतला संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।            | 1. जिला राजस्व आफिसर, ओंगोले ।<br>2. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, ओंगोले ।                          |
| 17. 17-नरसाराओपेट संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।        | विशेष आफिसर शहरी सर्किल, अधिकतम सीमा, गुन्दुर ।  |
| 18. 18 ओंगोले संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।            | 1. जिला राजस्व आफिसर, ओंगोले ।<br>2. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, ओंगोले ।                          |

(1)	(2)
19. 19-नेल्लोर (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. जिला राजस्व आफिसर, नेल्लोर । 2. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, नेल्लोर ।
20. 20-तिरुपथी (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, चित्तूर ।
21. 21-चित्तूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, चित्तूर ।
22. 22-राजमपेट संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, कुड्डापाह ।
23. 23-कुड्डापाह संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, कुड्डापाह ।
24. 24-हिन्दुपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, अनन्तपुर ।
25. 25-अनन्तपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, अनन्तपुर । 2. राजस्व खण्ड आफिसर, अनन्तपुर ।
26. 26-कुरनूल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. जिले राजस्व आफिसर, कुरनूल । 2. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, कुरनूल ।
27. 27-नन्दयाल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. जिला राजस्व आफिसर, कुरनूल । 2. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, कुरनूल ।
28. 28-नगरकुरनूल (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, महबूबनगर । 2. राजस्व खण्ड आफिसर, महबूबनगर ।
29. 29-महबूबनगर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, महबूबनगर । 2. राजस्व खण्ड आफिसर, महबूबनगर ।
30. 30-हैदराबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, हैदराबाद ।
31. 31-सिकन्द्राबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	अपर आयुक्त (रेवेन्यू) म्युनिसिपल कारपोरेशन, हैदराबाद ।
32. 32-सिद्दीपेट (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, मेडक ।
33. 33-मेडक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, मेडक । 2. राजस्व खण्ड आफिसर, संगारेड्डी ।
34. 34-निजामाबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. जिला राजस्व आफिसर, निजामाबाद । 2. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, निजामाबाद ।

(1)	(2)
35 35—आदिलाबाद ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, आदिलाबाद ।
36 36—पेड़डापल्ली (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. शुल्क अधीक्षक, करीमनगर । 2. राजस्व खण्ड आफिसर, करीमनगर ।
37 37—करीमनगर ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, करीमनगर ।
38 38—हनुमकोण्डा ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	विशेष आफिसर, गहरी भूमि अधिकतम सीमा, बारगल ।
39 39—बारगल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	आयुक्त और विशेष आफिसर, बारगल नगर-पालिका, बारगल ।
40 40—खम्माम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, खम्माम । 2. राजस्व खण्ड आफिसर, खम्माम ।
41 41—नालगोडा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, नालगोडा । 2. राजस्व खण्ड आफिसर, नालगोडा ।
42 42—मिरयालगुडा ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. कलक्टर का वैयक्तिक सहायक, नालगोडा । 2. जिला आपूर्ति आफिसर, नालगोडा ।

[म० 434/आ०प्र०/77(2)]

। आदेश से,

बी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

New Delhi, the 25th January 1977

**S. O. 77 (B).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of Commissioner's Notification No. 434/AS/75(1), dated 15 July, 1975, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Assam, the Officer of Government specified in column 2 of the Table below as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Assam, specified in column 1 of the said Table against such Officer of Government :—

TABLE

Serial No. and name of the Parliamentary Constituency	Returning Officer
1	2
1. Karimganj (SC)	Sub-divisional Officer, Karimganj.
2. Silchar	Deputy Commissioner, Cachar, Silchar

I

2

3. Autonomous District (ST)	Deputy Commissioner, Karbi Anglong District, Diphu.
4. Dhubri	Deputy Commissioner, Goalpara, Dhubri.
5. Kokrajhar (ST)	Sub-divisional Officer, Kokrajhar.
6. Barpeta	Sub-divisional Officer, Barpeta.
7. Gauhati	Deputy Commissioner, Kamrup, Gauhati.
8. Mangaldol	Sub-divisional Officer, Mangaldol.
9. Tezpur	Deputy Commissioner, Darrang, Tezpur.
10. Nowgong	Deputy Commissioner, Nowgong.
11. Kaliabor	Deputy Commissioner, Nowgong.
12. Jorhat	Deputy Commissioner, Sibsagar, Jorhat.
13. Dibrugarh	Deputy Commissioner, Dibrugarh.
14. Lakhimpur	Deputy Commissioner, Lakhimpur, North Lakhimpur.

[No. 434/A.S./77(I)]

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1977

क्र०आ० 77(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा अपनी अधिसूचना सं० 434, आसाम, 75(1), तारीख 15 जुलाई, 1975 को अतिष्ठित करते हुए निर्वाचन आयोग, आसाम राज्य सरकार के परामर्श से नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर को ऐसे सरकारी आफिसर के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है।—

## सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का क्रम संख्या तथा नाम	रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)
1. करीमगंज (अ०जा०)	उप-खण्ड आफिसर, करीमगंज।
2. सिलचर	उपायुक्त, कछार, सिलचर।
3. स्वशासी जिले (अ०ज०जा०)	उपायुक्त, कारबीआंग लोंग जिला, डिफु।
4. धुवी	उपायुक्त, गोलपाड़ा, धुवी।
5. कोक्राझाड़ (अ०ज०जा०)	उप-खण्ड आफिसर, कोक्राझाड़।
6. बारपेटा	उप-खण्ड आफिसर, बारपेटा।

(1)	(2)
7. गौहाटी . . . . .	उपायुक्त, कामरूप, गौहाटी ।
8. मंगलदाई . . . . .	उप-खण्ड आफिसर, मंगलदाई ।
9. तेजपुर . . . . .	उपायुक्त, दारग, तेजपुर ।
10. नौगोग . . . . .	उपायुक्त, नौगोग ।
11. कलियाबोर . . . . .	उपायुक्त, नौगोग ।
12. जोरहाट . . . . .	उपायुक्त, सिवसागर जोरहाट ।
13. डिब्रुगढ . . . . .	उपायुक्त, डिब्रुगढ ।
14. लखिमपुर . . . . .	उपायुक्त, लखिमपुर, नार्थ लखिमपुर ।

[स० 434/आसाम/77(1)]

**No. S.O.78(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of the Commission's notification No. 434/AS/75(2) dated 15 July, 1975, the Election Commission hereby appoints each of the Officers of Government of Assam as specified in column 2 of the Table below to assist the Returning Officer of the Parliamentary constituency in the State of Assam specified in column 1 of the said Table against such Officer or Officers of Government in the performance of the functions of such Returning Officer :—

TABLE

Returning Officer of Parliamentary constituency	Assistant Returning Officers
1	2
1. Returning Officer of Karimganj (SC) Parliamentary Constituency.	1. Senior Extra Assistant Commissioner, Karimganj. 2. Sub-divisional Officer, Hailakandi.
2. Returning Officer of Silchar Parliamentary Constituency.	Additional Deputy Commissioner, Cachar Silchar.
3. Returning Officer of Autonomous District (ST) Parliamentary Constituency.	1. Senior Extra Assistant Commissioner Diphu. 2. Deputy Commissioner, North Cachar Hills District, Haflong.
4. Returning Officer of Dhubri Parliamentary Constituency.	1. Additional Deputy Commissioner, Goalpara, Dhubri. 2. Sub-divisional Officer, Goalpara.
5. Returning Officer of Kokrajhar (ST) Parliamentary Constituency	1. Senior Extra Assistant Commissioner, Kokrajhar. 2. Sub-divisional Officer, Barpeta. 3. Sub-divisional Officer, Nalbari.

1	2
6. Returning Officer of Barpeta Parliamentary Constituency.	1. Senior Extra Assistant Commissioner, Barpeta. 2. Sub-divisional Officer, Goalpara. 3. Sub-divisional Officer, Nalbari.
7. Returning Officer of Gauthai Parliamentary Constituency.	1. Additional Deputy Commissioner, Gauthai. 2. Sub-divisional Officer, Goalpara. 3. Sub-divisional Officer, Nalbari.
8. Returning Officer of Mangaldai Parliamentary Constituency.	1. Senior Extra Assistant Commissioner, Mangaldai. 2. Sub-divisional Officer, Nalbari. 2. Additional Deputy Commissioner, Gauhati.
9. Returning Officer of Tezpur Parliamentary Constituency.	1. Additional Deputy Commissioner, Darrang, Tezpur. 2. Deputy Commissioner, Lakhimpur, North Lakhimpur.
10. Returning Officer of Nowgong Parliamentary Constituency.	1. Additional Deputy Commissioner, Nowgong. 2. Sub-divisional Officer, Marigaon.
11. Returning Officer of Kharibari Parliamentary Constituency.	1. Additional Deputy Commissioner, Nowgong. 2. Deputy Commissioner, Sibsagar, Jorhat. 3. Sub-divisional Officer, Golaghat.
12. Returning Officer of Jorhat Parliamentary Constituency.	1. Additional Deputy Commissioner, Jorhat. 2. Sub-divisional Officer, Sibsagar.
13. Returning Officer of Dibrugarh Parliamentary Constituency.	1. Additional Deputy Commissioner, Dibrugarh. 2. Sub-divisional Officer, Tinsukia.
14. Returning Officer of Lakhimpur Parliamentary Constituency.	1. Additional Deputy Commissioner, Lakhimpur, North Lakhimpur. 2. Deputy Commissioner, Sibsagar, Jorhat. 3. Deputy Commissioner, Dibrugarh. 4. Sub-divisional Officer, Tinsukia. 5. Sub-divisional Officer, Dhemajhi. 6. Senior Extra Assistant Commissioner, Lakhimpur, North Lakhimpur.

[No 434/AS 77 (2)]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

का०अ० 78 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22<sup>1</sup> की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचन सं० 434/आसाम/75(2) तारीख 15 जुलाई 1975 को अतिष्ठित करते हुए नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट आसाम सरकार के प्रत्येक आफिसर को, ऐसे सरकारी आफिसर के सामने



उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट आसाम राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में, सहायता करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करता है :—

### सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
1. करीमगंज (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	1. वरिष्ठ अतिरिक्त सहायक आयुक्त, करीमगंज । 2. उपखंड आफिसर, हेलाकाडी ।
2. सिल्चर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	अपर उपायुक्त, कछार, सिल्चर ।
3. स्वशासी जिला (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. वरिष्ठ अतिरिक्त सहायक आयुक्त, डिफू, डिफू । 2. उपायुक्त, उत्तर कछार, पहाडी जिला, हाफलौग ।
4. दुबरी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. अपर उपायुक्त, गोलपाडा, दुबरी । 2. उपखंड आफिसर, गोलपाडा ।
5. कोक्राझाड (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. वरिष्ठ अतिरिक्त सहायक आयुक्त, कोक्राझाड । 2. उपखंड आफिसर, बारपेटा । 3. उपखंड आफिसर, नल्बाडी ।
6. बारपेटा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. वरिष्ठ अतिरिक्त सहायक आयुक्त, बारपेटा । 2. उपखंड आफिसर, गोलपाडा । 3. उपखंड आफिसर, नल्बाडी ।
7. गौहाटी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. अपर उपायुक्त, गौहाटी । 2. उपखंड आफिसर, गोलपाडा । 3. उपखंड आफिसर, नल्बाडी ।
8. मंगलदाई संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. वरिष्ठ अतिरिक्त सहायक आयुक्त, मंगल-दाई । 2. उपखंड आफिसर, नल्बाडी । 3. अपर उपायुक्त, गौहाटी ।
9. तेजपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. अपर उपायुक्त, दारंग, तेजपुर । 2. उपायुक्त, लखीमपुर, उत्तर लखीमपुर ।
10. नौगों संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. अपर उपायुक्त, नौगोंग । 2. उपखंड आफिसर, मारीगाव ।

1

2

- |   |  |
|---|--|
| 11. कलियाबोर ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।  | 1 अपर उपायुक्त, मीरगँग ।<br>2 उपायुक्त, शिवसागर, जोरहाट ।<br>3. उपखंड आफिसर, गोलावाट ।   |
| 12. जोरहाट ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।    | 1 अपर उपायुक्त, जोरहाट ।<br>2. उपखंड आफिसर, शिवसागर ।  |
| 13. डिब्रूगढ़ ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर । | 1 अपर उपायुक्त, डिब्रूगढ़ ।<br>2. उपखंड आफिसर, तिनसुकिया ।   |
| 14. लखीमपुर ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।   | 1. अपर उपायुक्त, लखीमपुर, उत्तर लखीमपुर ।<br>2. उपायुक्त, शिवसागर, जोरहाट ।<br>3 उपायुक्त डिब्रूगढ़ ।<br>4 उपखंड आफिसर, तिनसुकिया ।<br>5 उपखंड आफिसर धेमाजी ।<br>6. वरिष्ठ अतिरिक्त सहायक आयुक्त, लखीमपुर, उत्तर लखीमपुर । |

[ स 434/आ.एम/77(2) ]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव ।

New Delhi, the 29th January 1977

**S.O. 79 (B).**—In exercise of the powers conferred by section 21 and sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/BR 76(1), dated 27 January, 1976, as amended, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Bihar, in respect of the Parliamentary Constituencies in the State of Bihar, as contained in Part A of Schedule V of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, namely —

For each of the constituencies specified in column 1 of the table below,

- (a) the officer specified in the corresponding entry in column 2 of the said table to be the returning officer,
- (b) the officers specified in the corresponding entries in column 3 of the said table to be the assistant returning officers.—

TABLE

Sl. No. and name of Constituency	Returning Officer	Assistant Returning Officers
1	2	3
1. Bagaha (SC)	District Magistrate, West Champaran, Bettiah	1. Additional District Magistrate, West Champaran, Bettiah. 2. Additional Collector, West Champaran, Bettiah.

1	2	3
		3. District Development Officer, West Champaran, Bettiah. 4. Sadar Subdivisional Officer, Bettiah. 5. Subdivisional Officer, Bagaha at Bettiah.
2. Bettiah	• District Magistrate, East Champaran, Motihari.	1. Additional District Magistrate (Supply), East Champaran, Motihari. 2. Additional District Magistrate, West Champaran, Bettiah. 3. Additional Collector, East Champaran, Motihari. 4. Additional Collector, West Champaran, Bettiah. 5. District Development Officer, East Champaran, Motihari. 6. District Development Officer, West Champaran, Bettiah. 7. Sadar Subdivisional Officer, Bettiah. 8. Sadar Subdivisional Officer, Motihari. 9. Subdivisional Officer, Sikarhana at Motihari.
3. Motihari	• District Magistrate, East Champaran, Motihari.	1. Additional District Magistrate (Supply), East Champaran, Motihari. 2. Additional Collector, East Champaran, Motihari. 3. District Development Officer, East Champaran, Motihari. 4. Sadar Subdivisional Officer, Motihari. 5. Subdivisional Officer, Sikarhana at Motihari.
4. Gopalganj	• District Magistrate, Gopalganj.	1. Additional District Magistrate, Gopalganj. 2. Additional Collector, Gopalganj. 3. Sadar Subdivisional Officer, Gopalganj.
5. Siwan	• District Magistrate, Siwan	1. Additional District Magistrate, Siwan. 2. Additional Collector, Siwan. 3. District Development Officer, Siwan. 4. Sadar Subdivisional Officer, Siwan.
6. Maharajganj	• District Magistrate, Saran	1. Additional District Magistrate, Saran. 2. Additional District Magistrate, Siwan. 3. Additional Collector, Saran. 4. District Development Officer, Saran. 5. Sadar Subdivisional Officer, Siwan. 6. Sadar Subdivisional Officer, Chapra.
7. Chapra	• District Magistrate, Saran.	1. Additional District Magistrate, Saran. 2. Additional Collector, Siwan. 3. District Development Officer, Saran. 4. Sadar Subdivisional Officer, Chapra.
8. Hajipur (SC)	• District Magistrate, Vaishali, Hajipur.	1. Additional District Magistrate, Vaishali, Hajipur. 2. Additional Collector, Vaishali Hajipur. 3. Sadar Subdivisional Officer, Hajipur.

1	2	3
9. Valshali	District Magistrate, Muzaffarpur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Collector, Muzaffarpur.</li> <li>2. District Development Officer, Muzaffarpur.</li> <li>3. Additional District Magistrate, Valshali, Hajipur.</li> <li>4. Additional Collector, Valshali, Hajipur.</li> <li>5. Sadar Subdivisional Officer, Hajipur.</li> <li>6. Subdivisional Officer, West Muzaffarpur, Muzaffarpur.</li> </ol>
10. Muzaffarpur	District Magistrate, Muzaffarpur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Collector, Muzaffarpur.</li> <li>2. District Development Officer, Muzaffarpur.</li> <li>3. Subdivisional Officer, West Muzaffarpur, Muzaffarpur.</li> <li>4. Subdivisional Officer, East Muzaffarpur, Muzaffarpur.</li> </ol>
11. Sitamarhi	District Magistrate, Sitamarhi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional District Magistrate, Sitamarhi.</li> <li>2. Additional Collector, Sitamarhi.</li> <li>3. District Development Officer, Sitamarhi.</li> <li>4. Additional District Magistrate, Muzaffarpur.</li> <li>5. Additional Collector, Muzaffarpur.</li> <li>6. Subdivisional Officer, East Muzaffarpur, Muzaffarpur.</li> <li>7. Subdivisional Officer, East Sitamarhi Sitamarhi.</li> <li>8. Subdivisional Officer, West Sitamarhi.</li> </ol>
12. Sheohar	District Magistrate, Sitamarhi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional District Magistrate, Sitamarhi.</li> <li>2. Additional Collector, Sitamarhi.</li> <li>3. District Development Officer, Sitamarhi.</li> <li>4. Additional District Magistrate, East Champaran, Motihari.</li> <li>5. Additional Collector, East Champaran, Motihari.</li> <li>6. Sub-divisional Officer, Sikarhena at Motihari.</li> <li>7. Sub-divisional Officer, West Sitamarhi, Sitamarhi.</li> <li>8. Sub-divisional Officer, East Sitamarhi.</li> </ol>
13. Madhubani	District Magistrate, Madhubani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional District Magistrate, Madhubani.</li> <li>2. Additional Collector, Madhubani.</li> <li>3. District Development Officer, Madhubani.</li> <li>4. Additional District Magistrate, Darbhanga.</li> <li>5. Additional Collector, Darbhanga.</li> <li>6. Sadar Subdivisional Officer, Laheriasarai.</li> <li>7. Sadar Subdivisional Officer, Madhubani.</li> </ol>

1	2	3
14. Jhanjharpur	• District Magistrate, Madhubani.	1. Additional District Magistrate, Madhubani. 2. Additional Collector, Madhubani. 3. District Development Officer, Madhubani. 4. Sadar Subdivisional Officer, Madhubani. 5. Subdivisional Officer, Jhanjharpur at Madhubani.
15. Darbhanga	• District Magistrate, Darbhanga.	1. Additional Collector, Darbhanga. 2. District Development Officer, Darbhanga. 3. Sadar Subdivisional Officer, Laheriasarai.
16. Rosera (SC)	• District Magistrate, Samastipur.	1. Additional District Magistrate, Samastipur. 2. Additional Collector, Samastipur. 3. District Development Officer, Samastipur. 4. Additional District Magistrate, Darbhanga. 5. Additional Collector, Darbhanga. 6. Sadar Sub-divisional Officer, Laheriasarai. 7. Sadar Subdivisional Officer, Samastipur.
17. Samastipur	• District Magistrate, Samastipur.	1. Additional District Magistrate, Samastipur. 2. Additional Collector, Samastipur. 3. District Development Officer, Samastipur. 4. Sadar Sub-divisional Officer, Samastipur.
18. Barh	• District Magistrate, Patna.	1. Additional District Magistrate, Patna. 2. Additional Collector, Patna. 3. District Development Officer, Patna. 4. Additional District Magistrate, Nalanda. 5. Additional Collector, Nalanda. 6. Subdivisional Officer, Hilsa. 7. Sadar Subdivisional Officer, Biharsharif. 8. Subdivisional Officer, Barh.
19. Belia	• District Magistrate, Begusarai.	1. Additional District Magistrate, Begusarai. 2. Additional Collector, Begusarai. 3. District Development Officer, Begusarai. 4. Additional District Magistrate, Monghyr. 5. Additional Collector, Monghyr. 6. Sadar Subdivisional Officer, Begusarai. 7. Subdivisional Officer, Khagaria.

1	2	3
20. Saharsa	District Magistrate, Saharsa.	1. Additional District Magistrate, Saharsa. 2. Additional Collector, Saharsa. 3. District Development Officer, Saharsa. 4. Sadar Subdivisional Officer, Saharsa. 5. Subdivisional Officer, Supaul. 6. Subdivisional Officer, Birpur.
21. Madhepura	District Magistrate, Saharsa.	1. Additional District Magistrate, Saharsa. 2. Additional Collector, Saharsa. 3. District Development Officer, Saharsa. 4. Sadar Subdivisional Officer, Saharsa. 5. Subdivisional Officer, Madhepura
22. Araria (SC)	District Magistrate, Purnea.	1. Additional District Magistrate, Purnea. 2. Additional Collector, Purnea. 3. District Development Officer Purnea. 4. Additional Collector, Saharsa. 5. Subdivisional Officer, Araria. 6. Subdivisional Officer, Supaul. 7. Subdivisional Officer, Birpur.
23. Kishanganj	District Magistrate, Purnea.	1. Additional District Magistrate, Purnea. 2. Additional Collector, Purnea. 3. District Development Officer, Purnea. 4. Charge Officer I. Survey and Settlement, Purnea. 5. Deputy Director, Consolidation, Purnea. 6. Sadar Subdivisional Officer, Purnea. 7. Subdivisional Officer, Araria. 8. Subdivisional Officer, Kishanganj.
24. Purnea	District Magistrate, Purnea.	1. Additional District Magistrate, Purnea. 2. Additional Collector, Purnea. 3. District Development Officer, Purnea. 4. Charge Officer, I, Survey and Settlement, Purnea. 5. Deputy Director, Consolidation, Purnea. 6. Sadar Subdivisional Officer, Purnea.
25. Katihar	District Magistrate, Katihar.	1. Additional District Magistrate, Katihar. 2. Additional Collector, Katihar. 3. District Development Officer, Katihar. 4. Sadar Subdivisional Officer, Katihar. 5. Additional Collector, Land Ceiling, Katihar.

1	2	3
26. Rajmahal (ST)	Deputy Commissioner, Santhal Parganas, Dumka.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Deputy Commissioner, Santhal Parganas, Dumka.</li> <li>2. Additional Collector, Santhal Parganas, Dumka.</li> <li>3. District Development Officer, Santhal Parganas, Dumka.</li> <li>4. Sadar Subdivisional Officer, Dumka.</li> <li>5. Subdivisional Officer, Rajmahal at Sahebganj.</li> <li>6. Subdivisional Officer, Pakaur.</li> </ol>
27. Dumka (ST)	Deputy Commissioner, Santhal Parganas, Dumka.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Deputy Commissioner, Santhal Parganas, Dumka.</li> <li>2. Additional Collector, Santhal Parganas, Dumka.</li> <li>3. District Development Officer, Santhal Parganas, Dumka.</li> <li>4. Sadar Subdivisional Officer, Dumka.</li> <li>5. Subdivisional Officer, Jamtara.</li> <li>6. Subdivisional Officer, Deoghar.</li> </ol>
28. Godda	Deputy Commissioner, Santhal Parganas, Dumka.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Deputy Commissioner, Santhal Parganas, Dumka.</li> <li>2. Additional Collector, Santhal Parganas, Dumka.</li> <li>3. District Development Officer, Santhal Parganas, Dumka.</li> <li>4. Additional Collector, Bhagalpur.</li> <li>5. Additional Collector, Monghyr.</li> <li>6. Subdivisional Officer, Banka.</li> <li>7. Subdivisional Officer, Jamui.</li> <li>8. Subdivisional Officer, Deoghar.</li> <li>9. Subdivisional Officer, Godda.</li> </ol>
29. Banka	District Magistrate, Bhagalpur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional District Magistrate, Bhagalpur.</li> <li>2. Additional Collector, Bhagalpur.</li> <li>3. District Development Officer, Bhagalpur.</li> <li>4. Additional Deputy Commissioner, Santhal Parganas, Dumka.</li> <li>5. Additional Collector, Monghyr.</li> <li>6. Subdivisional Officer, Deoghar.</li> <li>7. Subdivisional Officer, Banka.</li> <li>8. Subdivisional Officer, Jamui.</li> <li>9. District Welfare Officer, Bhagalpur.</li> </ol>
30. Bhagalpur	District Magistrate, Bhagalpur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional District Magistrate, Bhagalpur.</li> <li>2. Additional Collector, Bhagalpur.</li> <li>3. District Development Officer, Bhagalpur.</li> <li>4. Additional Deputy Commissioner, Santhal Parganas, Dumka.</li> <li>5. Additional Collector, Santhal Parganas, Dumka.</li> <li>6. Subdivisional Officer, Godda.</li> <li>7. Sadar Subdivisional Officer, Bhagalpur.</li> <li>8. District Panchayat Raj Officer, Bhagalpur.</li> </ol>
31. Khagaria	District Magistrate, Monghyr.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional District Magistrate, Monghyr.</li> <li>2. Additional Collector, Monghyr.</li> <li>3. District Development Officer, Monghyr.</li> </ol>

1	2	3
		4. Additional Collector, Katihar. 5. Additional Collector, Bhagalpur. 6. Subdivisional Officer, Khagaria. 7. Subdivisional Officer, Naugachhia. 8. Subdivisional Officer, Katihar.
32. Monghyr	District Magistrate, Monghyr.	1. Additional Collector, Monghyr. 2. Additional District Magistrate, Monghyr. 3. District Development Officer, Monghyr. 4. Sadar Subdivisional Officer, Mon- ghyr. 5. Subdivisional Officer, Jamui. 6. Subdivisional Officer, Lakhisarai.
33. Begusarai	District Magistrate, Monghyr.	1. Additional District Magistrate, Monghyr. 2. Additional Collector, Monghyr. 3. District Development Officer Monghyr. 4. Additional Collector, Begusarai. 5. Sadar Subdivisional Officer, Begu- sarai. 6. Subdivisional Officer, Jamui. 7. Subdivisional Officer, Lakhisarai.
34. Nalanda	District Magistrate, Nalanda.	1. Additional District Magistrate, Nalanda. 2. Additional Collector Nalanda. 3. District Development Officer, Nalanda. 4. Sadar Subdivisional Officer, Bihar- sharif. 5. Subdivisional Officer, Hilsa.
35. Patna	District Magistrate, Patna.	1. Additional District Magistrate, Patna. 2. Additional Collector, Patna. 3. District Development Officer, Patna. 4. Sadar Subdivisional Officer, Patna. 5. Subdivisional Officer, Patna City. 6. Subdivisional Officer, Dinapur. 7. Special Officer, Rationing, Patna.
36. Arrah	District Magistrate, Bhojpur, Arrah.	1. Additional District Magistrate, Bhojpur, Arrah. 2. Additional Collector, Bhojpur, Arrah. 3. District Development Officer, Bhoj- pur, Arrah. 4. Additional Collector, Patna. 5. Sadar Subdivisional Officer, Arrah. 6. Subdivisional Officer, Dinapur.
37. Buxar	District Magistrate, Bhojpur, Arrah.	1. Additional District Magistrate, Bhojpur, Arrah. 2. Additional Collector, Bhojpur, Arrah. 3. District Development Officer, Bhojpur, Arrah. 4. Sadar Subdivisional Officer, Arrah. 5. Subdivisional Officer, Buxar.



1	2	3
38. Sasaram (SC)	District Magistrate, Rohtas, Sasaram	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional District Magistrate, Rohtas, Sasaram.</li> <li>2. Additional Collector, Rohtas, Sasaram.</li> <li>3. District Development Officer, Rohtas, Sasaram.</li> <li>4. Sadar Subdivisional Officer, Sasaram.</li> <li>5. Subdivisional Officer, Bhabhua.</li> </ol>
39. Bikanernagar	District Magistrate, Rohtas, Sasaram.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional District Magistrate, Rohtas, Sasaram.</li> <li>2. Additional Collector, Rohtas, Sasaram.</li> <li>3. District Development Officer, Rohtas, Sasaram.</li> <li>4. Additional District Magistrate, Bhojpur, Arrah.</li> <li>5. Sadar Subdivisional Officer, Arrah.</li> <li>6. Sadar Subdivisional Officer, Sasaram.</li> </ol>
40. Aurangabad	District Magistrate, Aurangabad.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional District Magistrate, Aurangabad.</li> <li>2. Additional Collector, Aurangabad.</li> <li>3. District Development Officer, Aurangabad.</li> <li>4. Subdivisional Officer, Aurangabad.</li> </ol>
41. Jahanabad	District Magistrate, Gaya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Collector, Gaya.</li> <li>2. District Development Officer, Gaya.</li> <li>3. District Development Officer, Patna.</li> <li>4. Subdivisional Officer, Jahanabad.</li> <li>5. Charge Officer, Survey and Settlement, Gaya.</li> <li>6. Sadar Subdivisional Officer, Patna.</li> <li>7. Charge Officer II, Survey Settlement, Gaya.</li> <li>8. Deputy Director, Consolidation of holding, Gaya.</li> <li>9. Managing Director, Small Farmer's Development Agencies, Gaya.</li> <li>10. Subdivisional Officer, Gaya, Sadar.</li> </ol>
42. Nawada (SC)	District Magistrate, Nawada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional District Magistrate, Nawada.</li> <li>2. Additional Collector, Nawada.</li> <li>3. District Development Officer, Nawada.</li> <li>4. Additional District Magistrate, Gaya.</li> <li>5. Subdivisional Officer, Nawada.</li> <li>6. Sadar Subdivisional Officer, Gaya.</li> </ol>
43. Gaya SC	District Magistrate, Gaya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Collector, Gaya.</li> <li>2. District Development Officer, Gaya.</li> <li>3. Sadar Subdivisional Officer, Gaya.</li> <li>4. Chairman, Improvement Trust, Gaya.</li> <li>5. Charge Officer II, Survey Settlement, Gaya.</li> <li>6. Deputy Director, Consolidation of Holding, Gaya.</li> <li>7. Managing Director, Small Farmer's Development Agencies, Gaya.</li> </ol>

1	2	3
44.	Chatra . . . District Magistrate, Gaya	1. Additional Collector Gaya. 2. District Development Officer, Gaya. 3. Additional District Collector, Palamau. 4. Sadar Subdivisional Officer, Gaya. 5. Subdivisional Officer, Latchar. 6. Sadar Subdivisional Officer, Palamau, Daltonganj. 7. Subdivisional Officer, Chatra 8. Charge Officer II, Survey Settlement, Gaya 9. Deputy Director, Consolidation of Holding, Gaya. 10. Managing Director, Small Farmer's Development Agencies, Gaya.
45.	Koderma . . . Deputy Commissioner, Giridih	1. Additional Deputy Commissioner, Giridih. 2. Additional Collector, Giridih 3. District Development Officer, Giridih. 4. Additional Deputy Commissioner, Hazaribagh. 5. Additional Collector, Hazaribagh. 6. District Development Officer, Hazaribagh. 7. Subdivisional Officer, Koderma. 8. Subdivisional Officer, Giridih.
46.	Giridih . . . Deputy Commissioner, Giridih.	1. Additional Deputy Commissioner, Giridih. 2. Additional Collector, Giridih. 3. District Development Officer, Giridih. 4. Additional Deputy Commissioner, Dhanbad. 5. Additional Collector, Dhanbad. 6. District Development Officer, Dhanbad. 7. Sadar Subdivisional Officer, Giridih. 8. Subdivisional Officer, Bermo. 9. Sadar Subdivisional Officer, Dhanbad 10. Subdivisional Officer, Baghmara at Dhanbad. 11. Additional District Magistrate-cum-Special Officer, Rationing, Dhanbad.
47.	Dhanbad . . . Deputy Commissioner, Dhanbad.	1. Additional Deputy Commissioner, Dhanbad. 2. Additional Collector, Dhanbad. 3. District Development Officer, Dhanbad 4. Sadar Subdivisional Officer, Dhanbad. 5. Subdivisional Officer, Baghmara at Dhanbad. 6. Additional District Magistrate cum-Special Officer, Rationing, Dhanbad.
48.	Hazaribagh . . . Deputy Commissioner, Hazaribagh.	1. Additional Deputy Commissioner Hazaribagh. 2. Additional Collector, Hazaribagh. 3. District Development Officer, Hazaribagh. 4. Sadar Subdivisional Officer, Hazaribagh. 5. Subdivisional Officer, Chatra.

1	2	3
49. Ranchi . . .	Deputy Commissioner, Ranchi.	1. Additional District Magistrate, Ranchi. 2. Additional Collector, Ranchi 3. District Development Officer, Ranchi. 4. Additional Deputy Commissioner, Singhbhum, Chaibasa. 5. Subdivisional Officer, Saraikella 6. Sadar Subdivisional Officer, Ranchi 7. Subdivisional Officer, Khunti.
50. Jamshedpur . . .	Deputy Commissioner, Singhbhum, Chaibasa	1. Additional Deputy Commissioner, Singhbhum, Chaibasa 2. Additional Collector, Singhbhum, Chaibasa. 3. District Development Officer, Singhbhum, Chaibasa. 4. Subdivisional Officer, Dhalbhum at Jamshedpur.
51. Singhbhum (ST) . . .	Deputy Commissioner, Singhbhum, Chaibasa.	1. Additional Deputy Commissioner, Singhbhum, Chaibasa. 2. Additional Collector, Singhbhum, Chaibasa. 3. District Development Officer, Singhbhum, Chaibasa. 4. Subdivisional Officer, Saraikella. 5. Sadar Subdivisional Officer, Chaibasa.
52. Khunti (ST) . . .	Deputy Commissioner, Ranchi.	1. Additional District Magistrate, Ranchi 2. Additional Collector, Ranchi 3. District Development Officer, Ranchi 4. Additional Collector, Singhbhum, Chaibasa 5. Additional Deputy Commissioner, Singhbhum, Chaibasa 6. Subdivisional Officer, Khunti. 7. Subdivisional Officer, Simdega. 8. Subdivisional Officer, Gumla 9. Subdivisional Officer, Saraikella, Kharsawan.
53. Lohardaga (ST) . . .	Deputy Commissioner, Ranchi.	1. Additional District Magistrate, Ranchi 2. Additional Collector, Ranchi 3. District Development Officer, Ranchi 4. Additional Deputy Commissioner, Palamau. 5. Additional Collector, Palamau. 6. Subdivisional Officer, Gumla. 7. Subdivisional Officer, Lohardaga. 8. Subdivisional Officer, Latehar 9. Sadar Subdivisional Officer, Ranchi.
54. Palamau (SC) . . .	Deputy Commissioner Palamau.	1. Additional Collector, Palamau 2. District Development Officer, Palamau. 3. Sadar Subdivisional Officer, Daltonganj 4. Subdivisional Officer, Garhwa.

[No 434/BR/77 (1)]

By Order,

P. K. MISRA, Secy.

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1977

का० प्रा० 79 (घ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 और धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 434/बिहार/76, तारीख 27 जनवरी, 1976 को अधिकांश करने हुए, निर्वाचन आयोग बिहार सरकार के परामर्श से, बिहार राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों, जैसा कि वे समदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची V के भाग क में अन्तर्निहित है तथा निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के सम्बन्ध में—

(क) उस सारणी के स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आफिसर को रिटनिंग आफिसर, तथा

(ख) उस सारणी के स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आफिसरों को सहायक रिटनिंग आफिसर

पदाभिहित करता है.—

### सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं० तथा नाम	रिटनिंग आफिसर	सहायक रिटनिंग आफिसर
1	2	3
1. बगाहा (अ० जा०) जिलाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया ।		1. अपर जिला दंडाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया । 2. अपर समाहर्ता, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया । 3. जिला विकास अधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया । 4. अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर 5. अनुमंडल पदाधिकारी, बगाहा स्थान बेतिया ।
2. बेतिया जिलाधिकारी, पूर्वी, चम्पारण मोतीहारी ।		1. अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्वी); पूर्व चम्पारण, मोतिहारी । 2. अपर जिला दंडाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया । 3. अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी । 4. अपर समाहर्ता, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया ।

1	2	3
		5 जिला विकास पदाधिकारी; पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी । 6 जिला विकास पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेनिया । 7 अनुमंडल पदाधिकारी, बेनिया सदर । 8 अनुमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी सदर । 9 अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहता स्थान-मोतिहारी ।
3. मोतिहारी	जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी ।	1 अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति) पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी । 2 अपर समाहर्ता, पूर्वीचम्पारण, मोतिहारी । 3 जिला विकास पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी । 4 अनुमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी सदर । 5 अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहता, स्थान-मोतिहारी ।
4. गोपालगंज	जिलाधिकारी, गोपालगंज ।	1 अपर जिला दंडाधिकारी, गोपालगंज । 2 अपर समाहर्ता, गोपालगंज । 3 अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज सदर ।
5. सिवान	जिलाधिकारी, सिवान ।	1 अपर जिला दंडाधिकारी, सिवान । 2 अपरसमाहर्ता, सिवान । 3 जिला विकास पदाधिकारी, सिवान । 4 अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर ।
6. महाराजगंज	जिलाधिकारी, सारण ।	1 अपर जिला दंडाधिकारी, सारण । 2 अपर जिला दंडाधिकारी, सिवान । 3 अपर समाहर्ता, सारण । 4 जिला विकास पदाधिकारी, सारण । 5 अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर । 6 अनुमंडल पदाधिकारी, छपरा सदर ।
7. छपरा	जिलाधिकारी, सारण ।	1 अपर जिला दंडाधिकारी, सारण । 2 अपर समाहर्ता, सारण । 3 जिला विकास पदाधिकारी, सारण । 4 अनुमंडल पदाधिकारी, छपरा सदर ।

1	2	3
8. हाजीपुर (अ० जा०)	जिलाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर ।	1. अपर जिला दंडाधिकारी, वैशाली हाजीपुर । 2. अपर समाहर्ता, वैशाली, हाजीपुर । 3. अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर सदर ।
9. वैशाली	जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर	1. अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर । 2. जिला विकास पदाधिकारी, मुजफ्फर- पुर । 3. अपर जिला दंडाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर । 4. अपर समाहर्ता, वैशाली, हाजीपुर । 5. अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर सदर । 6. अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर ।
10. मुजफ्फरपुर	जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर ।	1. अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर । 2. जिला विकास पदाधिकारी, मुजफ्फर पुर । 3. अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर । 4. अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर ।
11. सीतामढ़ी	जिलाधिकारी, सीतामढ़ी ।	1. अपर जिला दंडाधिकारी, सीतामढ़ी । 2. अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी । 3. जिला विकास पदाधिकारी, सीतामढ़ी । 4. अपर जिला दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर । 5. अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर । 6. अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फर- पुर, मुजफ्फरपुर । 7. अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी सीतामढ़ी, सीतामढ़ी । 8. अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी सीता- मढ़ी ।
12. शिवहर	जिलाधिकारी, सीतामढ़ी ।	1. अपर जिलादंडाधिकारी, सीतामढ़ी । 2. अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी । 3. जिला विकास पदाधिकारी, सीतामढ़ी ।

1	2	3
		4. अपर जिलादंडाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी । 5. अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी 6. अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना स्थान-मोतीहारी । 7. अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी सीतामढ़ी, सीतामढ़ी । 8. अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी सीतामढ़ी, सीतामढ़ी ।
13. मधुबनी	जिलाधिकारी, मधुबनी ।	1. अपर जिला दंडाधिकारी, मधुबनी । 2. अपर समाहर्ता, मधुबनी । 3. जिला विकास पदाधिकारी, मधुबनी । 4. अपर जिला वंडाधिकारी, दरभंगा । 5. अपर समाहर्ता, दरभंगा । 6. अनुमंडल पदाधिकारी, लहेरियासराय सदर । 7. अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी सदर ।
14. झंझारपुर	जिलाधिकारी, मधुबनी ।	1. अपर जिला दंडाधिकारी, मधुबनी । 2. अपर समाहर्ता, मधुबनी । 3. जिला विकास पदाधिकारी, मधुबनी । 4. अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी सदर । 5. अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर स्थान-मधुबनी ।
15. दरभंगा	जिलाधिकारी, दरभंगा ।	1. अपर समाहर्ता, दरभंगा । 2. जिला विकास पदाधिकारी, दरभंगा । 3. अनुमंडल पदाधिकारी, लहेरियासराय सदर ।
16. रोसड़ा (अ०जा०)	जिलाधिकारी, समस्तीपुर ।	1. अपर जिलादंडाधिकारी, समस्तीपुर । 2. अपर समाहर्ता, समस्तीपुर । 3. जिला विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर । 4. अपर जिलादंडाधिकारी, दरभंगा । 5. अपर समाहर्ता, दरभंगा । 6. अनुमंडल पदाधिकारी, लहेरियासराय सदर । 7. अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर सदर ।

1	2	3
17. समस्तीपुर	जिलाधिकारी, समस्तीपुर	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर जिला दंडाधिकारी, समस्तीपुर ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, समस्तीपुर ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर ।</li> <li>4. अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर सदर ।</li> </ol>
18. बाढ़	जिलाधिकारी, पटना ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर जिला दंडाधिकारी, पटना ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, पटना ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, पटना ।</li> <li>4. अपर जिला दंडाधिकारी, नालन्दा ।</li> <li>5. अपर समाहर्ता, नालन्दा ।</li> <li>6. अनुमंडल पदाधिकारी, हिलासा ।</li> <li>7. अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफसदर ।</li> <li>8. अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ ।</li> </ol>
19. बेलिया	जिलाधिकारी, बेगुसराय ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर जिला दंडाधिकारी, बेगुसराय ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, बेगुसराय ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, बेगुसराय ।</li> <li>4. अपर जिला दंडाधिकारी, मुंगेर ।</li> <li>5. अपर समाहर्ता, मुंगेर ।</li> <li>6. अनुमंडल पदाधिकारी, बेगुसराय सदर ।</li> <li>7. अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया ।</li> </ol>
20. सहरसा	जिलाधिकारी, सहरसा ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर जिला दंडाधिकारी, सहरसा ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, सहरसा ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, सहरसा ।</li> <li>4. अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा सदर ।</li> <li>5. अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल ।</li> <li>6. अनुमंडल पदाधिकारी, बीरपुर ।</li> </ol>
21. मधेपुरा	जिलाधिकारी, सहरसा ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर जिला दंडाधिकारी, सहरसा ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, सहरसा ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, सहरसा ।</li> <li>4. अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा ।</li> <li>5. अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा ।</li> </ol>
22. अररिया (अ० जा०)	जिलाधिकारी, पूर्णिया ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर जिला दंडाधिकारी, पूर्णिया ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, पूर्णिया ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, पूर्णिया ।</li> <li>4. अपर समाहर्ता, सहरसा ।</li> <li>5. अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया ।</li> <li>6. अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल ।</li> <li>7. अनुमंडल पदाधिकारी, बिरभार ।</li> </ol>



1	2	3
23	किशनगंज जिलाधिकारी, पूर्णियां ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर जिला बंडाधिकारी, पूर्णिया ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, पूर्णियां ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, पूर्णियां ।</li> <li>4. चार्ज आफिमर I, भूमाप एवं बन्दोबस्ती, पूर्णियां ।</li> <li>5. उप निदेशक, समेकन, पूर्णियां ।</li> <li>6. अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियां सदर ।</li> <li>7. अनुमंडल पदाधिकारी, अग्रिया ।</li> <li>8. अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज ।</li> </ol>
24	पूर्णिया जिलाधिकारी, पूर्णियां ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर जिला बंडाधिकारी, पूर्णिया ।</li> <li>2. अधर समाहर्ता, पूर्णियां ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, पूर्णिया ।</li> <li>4. चार्ज आफिमर I, भू-माप एवं बन्दोबस्ती पूर्णियां ।</li> <li>5. उप-निदेशक, समेकन, पूर्णियां ।</li> <li>6. अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियां सदर ।</li> </ol>
25	कटिहार जिलाधिकारी, कटिहार ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर जिला बंडाधिकारी, कटिहार ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, कटिहार ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, कटिहार ।</li> <li>4. अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार सदर ।</li> <li>5. अपर समाहर्ता, चकबंदी, कटिहार ।</li> </ol>
26.	राजमहल . उपायुक्त, संतालपरगना, (अ० ज० जा०) दुमका ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर उपायुक्त, संतालपरगना, दुमका ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, संतालपरगना, दुमका ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, संताल-परगना, दुमका ।</li> <li>4. अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका सदर ।</li> <li>5. अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल स्थान-साहेबगंज ।</li> <li>6. अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ ।</li> </ol>
27.	दुमका उपायुक्त, संतालपरगना, (अ० ज० जा०) दुमका ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर उपायुक्त, संतालपरगना, दुमका ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, संतालपरगना, दुमका ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, संताल-परगना, दुमका ।</li> <li>4. अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका सदर ।</li> <li>5. अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा ।</li> <li>6. अनुमंडल पदाधिकारी देवघर ।</li> </ol>

1	2	3
28 गोड्डा	उपायुक्त, सतालपरगना, दुमका ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर उपायुक्त, सतालपरगना, दुमका ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, सतालपरगना, दुमका ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, सतालपरगना, दुमका ।</li> <li>4. अपर समाहर्ता, भागलपुर ।</li> <li>5. अपर समाहर्ता, मुंगेर ।</li> <li>6. अनुमंडल पदाधिकारी, बांका ।</li> <li>7. अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई ।</li> <li>8. अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर ।</li> <li>9. अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ।</li> </ol>
29 बांका	जिलाधिकारी, भागलपुर ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर जिला दंडाधिकारी, भागलपुर ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, भागलपुर ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, भागलपुर ।</li> <li>4. अपर उपायुक्त, सतालपरगना, दुमका ।</li> <li>5. अपर समाहर्ता, मुंगेर ।</li> <li>6. अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर ।</li> <li>7. अनुमंडल पदाधिकारी, बांका ।</li> <li>8. अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई ।</li> <li>9. जिला कल्याणपदाधिकारी, भागलपुर ।</li> </ol>
30 भागलपुर	जिलाधिकारी, भागलपुर ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर जिला दंडाधिकारी, भागलपुर ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, भागलपुर ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, भागलपुर ।</li> <li>4. अपर उपायुक्त, सतालपरगना, दुमका ।</li> <li>5. अपर समाहर्ता, सतालपरगना, दुमका ।</li> <li>6. अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ।</li> <li>7. अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर सदर ।</li> <li>8. जिला वंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर ।</li> </ol>
31 खगड़िया	जिलाधिकारी, मुंगेर ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर जिला दंडाधिकारी, मुंगेर ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, मुंगेर ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, मुंगेर ।</li> <li>4. अपर समाहर्ता, कटिहार ।</li> </ol>

1	2	3
		5. अपर समाहर्ता, भागलपुर । 6. अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया । 7. अनुमंडल पदाधिकारी, नौगछिया । 8. अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार ।
32. मुंगेर	जिलाधिकारी, मुंगेर ।	1. अपर समाहर्ता, मुंगेर । 2. अपर जिला दंडाधिकारी, मुंगेर । 3. जिला विकास पदाधिकारी, मुंगेर । 4. अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर सदर । 5. अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई । 6. अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय ।
33. बेगुसराय	जिलाधिकारी, मुंगेर ।	1. अपर जिला दंडाधिकारी, मुंगेर । 2. अपर समाहर्ता, मुंगेर । 3. जिला विकास पदाधिकारी, मुंगेर । 4. अपर समाहर्ता, बेगुसराय । 5. अनुमंडल पदाधिकारी, बेगुसराय सदर । 6. अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई । 7. अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय ।
34. नालन्दा	जिलाधिकारी, नालन्दा ।	1. अपर जिला दंडाधिकारी, नालन्दा । 2. अपर समाहर्ता, नालन्दा । 3. जिला विकास पदाधिकारी, नालन्दा । 4. अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ, सदर । 5. अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा ।
35. पटना	जिलाधिकारी, पटना ।	1. अपर जिला दंडाधिकारी, पटना । 2. अपर समाहर्ता, पटना । 3. जिला विकास पदाधिकारी, पटना । 4. अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर । 5. अनुमंडल पदाधिकारी, पटना मिटी । 6. अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर । 7. विशेष पदाधिकारी, राशनिंग, पटना ।
36. आरा	जिलाधिकारी, भोजपुर, आरा ।	1. अपर जिला दंडाधिकारी, भोजपुर, आरा । 2. अपर समाहर्ता, भोजपुर, आरा । 3. जिला विकास पदाधिकारी, भोजपुर, आरा ।

1	2	3
		4 अपर समाहर्ता, पटना ।
		5. अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर ।
		6. अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर ।
37 बक्सर	जिलाधिकारी, भोजपुर, आरा ।	1. अपर जिला दंडाधिकारी, भोजपुर, आरा ।
		2. अपर समाहर्ता, भोजपुर, आरा ।
		3. जिला विकास पदाधिकारी, भोजपुर, आरा ।
		4. अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर ।
		5. अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर ।
38. सासाराम (अ० जा०)	जिलाधिकारी, रोहतास सासाराम ।	1 अपर जिला दंडाधिकारी, रोहतास, सासाराम ।
		2. अपर समाहर्ता, रोहतास, सासाराम ।
		3 जिला विकास पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम ।
		4 अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम, सदर ।
		5 अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ ।
39. बिक्रमगंज	जिलाधिकारी, रोहतास, सासाराम ।	1. अपर जिला दंडाधिकारी, रोहतास, सासाराम ।
		2. अपर समाहर्ता, रोहतास, सासाराम ।
		3. जिला विकास पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम ।
		4. अपर जिला दंडाधिकारी, भोजपुर, आरा ।
		5. अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर ।
		6. अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम सदर ।
40. औरंगाबाद	जिलाधिकारी, औरंगाबाद ।	1. अपर जिला दंडाधिकारी, औरंगाबाद ।
		2. अपर समाहर्ता, औरंगाबाद ।
		3. जिला विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद ।
		4. अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद ।

1	2	3
41. जहानाबाद	जिलाधिकारी, गया ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर समाहर्ता, गया ।</li> <li>2. जिला विकास पदाधिकारी, गया ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, पटना ।</li> <li>4. अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद ।</li> <li>5. चार्ज आफिसर, भु-माप एवं बन्दोबस्ती, गया ।</li> <li>6. अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर ।</li> <li>7. चार्ज आफिसर II, भु-माप एवं बन्दोबस्ती, गया ।</li> <li>8. उप-निदेशक चकबन्दी, गया ।</li> <li>9. प्रबंध निदेशक, लघु कृषक विकास अभिकरण, गया ।</li> <li>10. अनुमंडल पदाधिकारी, गया सदर ।</li> </ol>
42. नवादा (अ०जा०)	जिलाधिकारी, नवादा ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर जिला दंडाधिकारी, नवादा ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, नवादा ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, नवादा ।</li> <li>4. अपर जिला दंडाधिकारी, गया ।</li> <li>5. अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा ।</li> <li>6. अनुमंडल पदाधिकारी, गया सदर ।</li> </ol>
43. गया (अ०जा०)	जिलाधिकारी, गया ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर समाहर्ता, गया ।</li> <li>2. जिला विकास पदाधिकारी, गया ।</li> <li>3. अनुमंडल पदाधिकारी, गया सदर ।</li> <li>4. अध्यक्ष विकास न्यास, गया ।</li> <li>5. चार्ज आफिसर II भू-माप एवं बन्दोबस्त, गया ।</li> <li>6. उप-निदेशक चकबन्दी, गया ।</li> <li>7. प्रबंध निदेशक, लघु कृषक विकास अभिकरण, गया ।</li> </ol>
44. चतरा	जिलाधिकारी, गया ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर समाहर्ता, गया ।</li> <li>2. जिला विकास पदाधिकारी, गया ।</li> <li>3. अपर जिला समाहर्ता, पलामू ।</li> <li>4. अनुमंडल पदाधिकारी, गया सदर ।</li> <li>5. अनुमंडल पदाधिकारी, लतेहर ।</li> <li>6. अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू सदर, डाल्टेनगंज ।</li> <li>7. अनुमंडल पदाधिकारी, चतरा ।</li> </ol>

1	2	3
		8. चार्ज आफिसर II भुसाप एव बबोबस्त, गया ।
		9. उप-निदेशक, चकबन्दी, गया ।
		10. प्रबन्ध निदेशक, लघु कृषक विकास अभिकरण, गया :
45. कोडरमा	उपायुक्त, गिरिडीह ।	1. अपर उपायुक्त, गिरिडीह । 2. अपर समाहर्ता, गिरिडीह । 3. जिला विकास पदाधिकारी, गिरिडीह । 4. अपर समाहर्ता, हजारीबाग । 5. अपर समाहर्ता, हजारीबाग । 6. जिला विकास पदाधिकारी, हजारीबाग । 7. अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा । 8. अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह ।
46. गिरिडीह	उपायुक्त, गिरिडीह ।	1. अपर उपायुक्त, गिरिडीह । 2. अपर समाहर्ता, गिरिडीह । 3. जिला विकास पदाधिकारी, गिरिडीह । 4. अपर उपायुक्त, धनबाद । 5. अपर समाहर्ता, धनबाद । 6. जिला विकास पदाधिकारी, धनबाद । 7. अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह सदर । 8. अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो । 9. अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद सदर । 10. अनुमंडल पदाधिकारी, बाघमारा, स्थान-धनबाद । 11. अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं विशेष पदाधिकारी, राशनिंग, धनबाद ।
47. धनबाद	उपायुक्त, धनबाद ।	1. अपर उपायुक्त, धनबाद । 2. अपर समाहर्ता, धनबाद । 3. जिला विकास पदाधिकारी, धनबाद । 4. अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद, सदर । 5. अनुमंडल पदाधिकारी, बाघमारा, स्थान धनबाद । 6. अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं विशेष पदाधिकारी, राशनिंग, धनबाद ।

1	2	3
48. हजारीबाग	उपायुक्त, हजारीबाग ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर उपायुक्त, हजारीबाग ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, हजारीबाग ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, हजारीबाग ।</li> <li>4. अनुमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग सदर ।</li> <li>5. अनुमंडल पदाधिकारी, चतरा ।</li> </ol>
49. रांची	उपायुक्त, रांची ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, रांची ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, रांची ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, रांची ।</li> <li>4. अपर उपायुक्त, सिंहभूम, चाईबासा ।</li> <li>5. अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला ।</li> <li>6. अनुमंडल पदाधिकारी, रांची सदर ।</li> <li>7. अनुमंडल पदाधिकारी, खुंटी ।</li> </ol>
50. जमशेदपुर	उपायुक्त, सिंहभूम, चाईबासा	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर उपायुक्त, सिंहभूम, चाईबासा ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, सिंहभूम, चाईबासा ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, सिंहभूम, चाईबासा ।</li> <li>4. अनुमंडल पदाधिकारी, बालभूम, स्थान, जमशेदपुर ।</li> </ol>
51. सिंहभूम (प्र०ज०जा०)	उपायुक्त, सिंहभूम, चाईबासा ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर उपायुक्त, सिंहभूम, चाईबासा ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, सिंहभूम, चाईबासा ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, सिंहभूम, चाईबासा ।</li> <li>4. अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला ।</li> <li>5. अनुमंडल पदाधिकारी, चाईबासा सदर ।</li> </ol>
52. खुंटी (प्र०ज०जा०)	उपायुक्त, रांची ।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, रांची ।</li> <li>2. अपर समाहर्ता, रांची ।</li> <li>3. जिला विकास पदाधिकारी, रांची ।</li> <li>4. अपर समाहर्ता, सिंहभूम चाईबासा ।</li> <li>5. अपर उपायुक्त, सिंहभूम, चाईबासा ।</li> <li>6. अनुमंडल पदाधिकारी, खुंटी ।</li> <li>7. अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेमा ।</li> <li>8. अनुमंडल पदाधिकारी, गमला ।</li> <li>9. अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला खरसावन ।</li> </ol>

1	2	3
53. लोहरदगा (अ० ज० जा०)	उपायुक्त, रांची।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, रांची। 2. अपर समाहर्ता, रांची। 3. जिला विकास पदाधिकारी, रांची। 4. अपर उपायुक्त, पलामू। 5. अपर समाहर्ता, पलामू। 6. अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला। 7. अनुमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा। 8. अनुमंडल पदाधिकारी, लतेछार। 9. अनुमंडल पदाधिकारी, रांची सदर।
54. पलामू (अ० जा०)	उपायुक्त, पलामू।	1. अपर समाहर्ता, पलामू। 2. जिला विकास पदाधिकारी, पलामू। 3. अनुमंडल पदाधिकारी, डाल्टेनगंज सदर। 4. अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा।

[स० 434/बिहार/77(1)]

आदेश से,

प्र० कु० मिश्र, सचिव।

New Delhi, the 29th January 1977

**S.O. 80 (E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434 GJ/74(1), dated 5 February, 1975, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Gujarat, the Officer of Government specified in column 2 of the Table below as the Returning Officer of the parliamentary constituency in the State of Gujarat as contained in Part A of Schedule VI to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and specified in column 1 of the said Table against such officer of Government —

TABLE

Serial No. and name of the parliamentary constituency	Returning Officer.
1	2
1. Kutch . . . . .	Collector, Kutch District, Bhuj.
2. Surendranagar . . . . .	Collector, Surendranagar District, Surendranagar.
3. Jamnagar. . . . .	Collector, Jamnagar District, Jamnagar.
4. Rajkot . . . . .	Collector, Rajkot District, Rajkot.
5. Porbandar . . . . .	District Development Officer, Junagadh District Panchayat, Junagadh.
6. Junagadh. . . . .	Collector, Junagadh District, Junagadh.
7. Amreli . . . . .	Collector, Amreli District, Amreli.
8. Bhavnagar . . . . .	Collector, Bhavnagar District, Bhavnagar.



I

2

9. Dhandhuka (SC)	District Development Officer, Ahmedabad District Panchayat, Ahmedabad.
10. Ahmedabad	Collector, Ahmedabad District, Ahmedabad
11. Gandhinagar	District Development Officer, Gandhinagar District Panchayat, Gandhinagar.
12. Mehsana	Collector, Mehsana District, Mehsana.
13. Patan (SC)	District Development Officer, Mehsana District Panchayat, Mehsana.
14. Banaskantha	Collector, Banaskantha District, Palanpur.
15. Sabarkantha	Collector, Sabarkantha District, Himatnagar
16. Kapadvanj	District Development Officer, Sabarkantha District Panchayat, Himatnagar.
17. Dohad (ST)	District Development Officer, Panchmahals District Panchayat, Godhra.
18. Godhra	Collector, Panchmahals District, Godhra.
19. Kaira	Collector, Kaira District, Kaira.
20. Anand	District Development Officer, Kaira District Panchayat, Nadiad.
21. Chhota Udaipur (ST)	District Development Officer, Baroda District Panchayat, Baroda.
22. Baroda	Collector, Baroda District, Baroda.
23. Broach	Collector, Broach District, Broach.
24. Surat	Collector, Surat District, Surat.
25. Mandvi (ST)	District Development Officer, Surat District Panchayat, Surat.
26. Bulsar (ST)	Collector, Bulsar District, Bulsar.

The Election Commission's notification No. 434/GJ/71, dated 30th August, 1971, is hereby cancelled.

[No. 434/GJ/77 (1)]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1977

का० प्रा० 80 (अ). - नाक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के पञ्चमों के अन्तर्गत में तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/गुज०/74 (1) तारीख 5 फरवरी, 1975 को प्रविकीत करते हैं, निर्वाचन आयोग गुजरात सरकार के परामर्श से, नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर को ऐसे सरकारी आफिसर के सामने गुजरात राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, जैसा कि वह संसदीय तथा सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिमोमन आदेश, 1976 की अनुसूची VI के भाग क में अन्तर्लिखित है तथा उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के लिए रिटनिंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है :-

## सारणी

भाषीय निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम  
सं० और नाम

रिटनिंग आफिसर

1

2

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. कच्छ         | कलेक्टर, जिला कच्छ, भुज ।                  |
| 2. सुरेन्द्रनगर | कलेक्टर, जिला सुरेन्द्रनगर, सुरेन्द्रनगर । |

1

2

3. जामनगर	कलक्टर, जिला जामनगर; जामनगर ।
4. राजकोट	कलक्टर, जिला राजकोट, राजकोट ।
5. पोरबन्दर	जिला विकास आफिसर, जूनागढ़ जिला पंचायत, जूनागढ़ ।
6. जूनागढ़	कलक्टर, जिला जूनागढ़; जूनागढ़ ।
7. धमरेली	कलक्टर, जिला धमरेली, धमरेली ।
8. भावनगर	कलक्टर, जिला भावनगर, भावनगर ।
9. अहमदाबाद (अ० जा०)	जिला विकास आफिसर, अहमदाबाद जिला पंचायत, अहमदाबाद । ]
10. अहमदाबाद	कलक्टर, जिला अहमदाबाद, अहमदाबाद ।
11. गांधीनगर	जिला विकास आफिसर, गांधीनगर जिला पंचायत, गांधीनगर ।
12. मेहसाना	कलक्टर, जिला मेहसाना, मेहसाना ।
13. पाटन (अ० जा०)	जिला विकास आफिसर, मेहसाना जिला पंचायत, मेहसाना ।
14. बनसकांथा	कलक्टर, जिला बनसकांथा, पालनपुर ।
15. साबरकांथा	कलक्टर, जिला साबरकांथा, हिम्मतनगर ।
16. कपाडवज	जिला विकास आफिसर, साबरकांथा जिला पंचायत, हिम्मतनगर ।
17. दोहद (अ० ज० जा०)	जिला विकास आफिसर, पंचमहल जिला पंचायत, गोध्रा ।
18. गोध्रा	कलक्टर, जिला पंचमहल, गोध्रा ।
19. कैरा	कलक्टर, जिला कैरा, कैरा ।
20. भानुद	जिला विकास आफिसर, कैरा जिला पंचायत, नाडियाड ।
21. छोटा उदयपुर (अ० ज० जा०)	जिला विकास आफिसर, बड़ौदा जिला पंचायत, बड़ौदा ।
22. बड़ौदा	कलक्टर, जिला बड़ौदा, बड़ौदा ।
23. बड़ौच	कलक्टर, जिला बड़ौच, बड़ौच ।
24. सूरत	कलक्टर, जिला सूरत, सूरत ।
25. मांडवी (अ० ज० जा०)	जिला विकास आफिसर, जिला पंचायत सूरत, सूरत ।
26. बुलसर (अ० ज० जा०)	कलक्टर जिला बुलसर, बुलसर ।

निर्वाचित आयोग की अधिसूचना सं० 434/ज०/71, तारीख 30 अगस्त, 1971 को एतद्वारा रद्द किया जाता है ।

[स० 434/गुज०/77/(1)]

**S. O. 81 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/GJ/74(2), dated 5 February, 1975, the Election Commission hereby appoints each of the Officers of Government as specified in column 2 of the Table below as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the parliamentary constituency in the State of Gujarat as contained in Part A of Schedule VI to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1962 and specified in column 1 of the said Table against each Officer as Officers of Government in the performance of the functions of such Returning Officer :—

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
1. Returning Officer of 1. Kutch Parliamentary Constituency	1. Prant Officer, Nakhatrana Sub-Division, Nakhatrana 2. Prant Officer, Bhuj Sub-Division, Bhuj 3. Resident Deputy Collector, Kutch District, Bhuj 4. District Supply Officer, Kutch District, Bhuj 5. Prant Officer, Anjar Sub-Division, Anjar 6. Deputy District Development Officer (Revenue), Kutch District Panchayat, Bhuj.
2. Returning Officer of 2. Surendranagar Parliamentary Constituency	1. Resident Deputy Collector and Prant Officer, Wadhwan Sub-Division, Surendranagar. 2. Prant Officer, Limbdi Sub-Division, Limbdi. 3. Prant Officer, Dhrangadhra Sub-Division, Dhrangadhra 4. District Supply Officer, Surendranagar District, Surendranagar. 5. Deputy District Development Officer (Revenue), Surendranagar District Panchayat, Surendranagar. 6. Deputy District Development Officer (Panchayat), Surendranagar District Panchayat, Surendranagar. 7. Special Land Acquisition Officer, Rajkot
3. Returning Officer of 3. Jamnagar Parliamentary Constituency	1. Prant Officer, Jamnagar Sub Division, Jamnagar 2. Administrator, Jamnagar Municipality, Jamnagar. 3. Resident Deputy Collector, Jamnagar District, Jamnagar. 4. Deputy District Development Officer (Development), Jamnagar District Panchayat, Jamnagar. 5. Deputy Collector, Urban Land Ceiling, Jamnagar. 6. Prant Officer, Khambhalia Sub-Division, Khambhalia. 7. Project Officer, D.P. A.P., Jamnagar

1

2

- 
- |  |   |
|--|---|
| <p>4. Returning Officer of 4. Rajkot Parliamentary Constituency.</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prant Officer, Morvi Sub-Division, Morvi</li> <li>2. Assistant Director, Small Savings, Rajkot Division, Rajkot.</li> <li>3. Special Officer, Departmental Enquiries, Rajkot.</li> <li>4. Special Land Acquisition Officer, Rajkot District Irrigation Project, Rajkot.</li> <li>5. Prant Officer, Rajkot Sub-Division, Rajkot.</li> <li>6. Prant Officer, Gondal Sub-Division, Gondal.</li> <li>7. Deputy Collector (Recovery), Rajkot.</li> <li>8. Deputy Collector, Urban Land Ceiling, Rajkot.</li> </ol>   |
| <p>5. Returning Officer of 5 Porbandar Parliamentary Constituency.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy District Development Officer (Planning), Rajkot District Panchayat, Rajkot.</li> <li>2. Deputy District Development Office (Revenue), Rajkot District Panchayat, Rajkot.</li> <li>3. Deputy District Development Officer (Revenue), Jamnagar District Panchayat, Jamnagar.</li> <li>4. Prant Officer, Porbandar Sub-Division, Porbandar.</li> <li>5. Deputy Director (I), State Institute of Rural Development and Panchayati Raj, Junagadh.</li> <li>6. Special Land Acquisition Officer, Junagadh.</li> <li>7. Revenue Deputy Collector, Junagadh District, Junagadh.</li> </ol> |
| <p>6. Returning Officer of 6. Junagadh Parliamentary Constituency.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. District Supply Officer, Junagadh District, Junagadh.</li> <li>2. Prant Officer, Veraval Sub-Division, Veraval.</li> <li>3. Deputy Director (II), State Institute of Rural Development and Panchayati Raj, Junagadh.</li> <li>4. Deputy District Development Officer (Development), Junagadh District Panchayat, Junagadh.</li> <li>5. Project Officer, Small Farmers Agency, Junagadh.</li> <li>6. Deputy District Development Officer (Panchayat), Junagadh District Panchayat, Junagadh.</li> <li>7. Prant Officer, Junagadh Sub-Division, Junagadh.</li> </ol>                        |
| <p>7. Returning Officer of 7 Amreli Parliamentary Constituency</p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. District Supply Officer, Amreli District, Amreli</li> <li>2. Prant Officer, Amreli Sub-Division, Amreli.</li> </ol>   |
-

1

2

- 
- |   |  |
|---|--|
|   | 3. Resident Deputy Collector, Amreli District, Amreli.   |
|   | 4. Special Land Acquisition Officer, Amreli.   |
|   | 5. Deputy District Development Officer (Revenue), Amreli District Panchayat, Amreli.           |
|   | 6. Prant Officer, Rajula Sub-Division, Amreli.   |
|   | 7. Deputy District Development Officer (Revenue), Bhavnagar District Panchayat, Bhavnagar.     |
| 8. Returning Officer of 8. Bhavnagar Parliamentary Constituency.      | 1. Prant Officer, Palitana Sub-Division, Palitana.   |
|   | 2. Project Officer, S.F.A.L. Bhavnagar District Panchayat, Bhavnagar.                          |
|   | 3. Prant Officer, Mahuva Sub-Division, Mahuva.   |
|   | 4. District Supply Officer, Bhavnagar District, Bhavnagar.                                     |
|   | 5. Deputy Collector, Urban Land Ceiling, Bhavnagar.  |
|   | 6. Prant Officer, Bhavnagar Sub-Division, Bhavnagar.   |
| 9. Returning Officer of 9. Dhandhuka (SC) Parliamentary Constituency. | 1. Deputy District Development Officer (Development), Bhavnagar District Panchayat, Bhavnagar. |
|   | 2. Deputy District Development Officer (Panchayat), Bhavnagar District Panchayat, Bhavnagar.   |
|   | 3. Deputy District Development Officer (Revenue), Ahmedabad District Panchayat, Ahmedabad.     |
|   | 4. Prant Officer, Dholka Sub-Division, Dholka.   |
|   | 5. Deputy District Development Officer (Panchayat), Ahmedabad District Panchayat, Ahmedabad.   |
|   | 6. Prant Officer, Viramgam Sub-Division, Ahmedabad.  |
|   | 7. Deputy Collector (Tenancy), Ahmedabad.  |
| 10. Returning Officer of 10. Ahmedabad Parliamentary Constituency.    | 1. Assistant Director (Revenue), Anti-Corruption Branch Ahmedabad.                             |
|   | 2. Assistant Area Development Commissioner, Kadana Project, Ahmedabad.                         |
|   | 3. Deputy Controller of Accommodation, Ahmedabad.  |
|   | 4. Deputy Collector, Sales-Tax (Recovery), Ahmedabad.  |
|   | 5. Assistant Director of Civil Defence Ahmedabad.  |
|   | 6. Deputy Collector (Non-Agriculture), Ahmedabad.  |
|   | 7. Administrator, Sardarnagar Township, Ahmedabad.   |
-

1	2
11. Returning Officer of 11. Gandhinagar Parliamentary Constituency.	1. III Special Land Acquisition Officer (District, Ahmedabad. 2. Special Land Acquisition Officer (O N G C.) Ahmedabad. 3. City Deputy Collector, Ahmedabad. 4. Deputy Controller of Civil Defence, Ahmedabad City, Ahmedabad. 5. Officer on Special Duty (Lands), Industries Commissioner's Office, Ahmedabad. 6. Deputy Director, Sardar Patel Institute of Public Administration, Ahmedabad. 7. Assistant Commissioner (Land Reforms), Revenue Department, Sachivalaya, Gandhinagar.
12. Returning Officer of 12. Mehsana Parliamentary Constituency.	1. Special Land Acquisition Officer (Oil and Natural Gas Commission), Mehsana. 2. Deputy Collector (Tenancy) No. 2, Mehsana District, Mehsana. 3. Prant Officer, Mehsana Sub-Division, Mehsana. 4. Deputy Collector (Tenancy) No. 1, Mehsana District, Mehsana. 5. Resident Deputy Collector, Mehsana District, Mehsana.
13. Returning Officer of 13. Patan (SC) Parliamentary Constituency.	1. Deputy District Development Officer (Revenue), Mehsana District Panchayat, Mehsana. 2. Deputy District Development Officer (Development), Mehsana District Panchayat, Mehsana. 3. Deputy District Development Officer (Panchayat), Mehsana District Panchayat, Mehsana. 4. Prant Officer, Patan Sub-Division, Patan. 5. District Supply Officer, Mehsana District, Mehsana. 6. Special Land Acquisition Officer, Mehsana.
14. Returning Officer of 14. Banaskantha Parliamentary Constituency.	1. Prant Officer, Radhanpur Sub-Division, Radhanpur. 2. Prant Officer, Tharad Sub-Division, Tharad. 3. District Supply Officer, Banaskantha District, Palanpur. 4. Deputy District Development Officer (Revenue), Banaskantha District Panchayat, Palanpur. 5. Prant Officer, Palanpur Sub-Division, Palanpur. 6. Deputy District Development Officer (Panchayat), Banaskantha District Panchayat, Palanpur. 7. Resident Deputy Collector, Banaskantha District, Palanpur.

1	2
15. Returning Officer of 15. Sabarkantha Parliamentary Constituency.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy District Development Officer (Development), Banaskantha District Panchayat, Palanpur.</li> <li>2. Administrator, Ambaji Temple, Banaskantha District, Ambaji.</li> <li>3. District Supply Officer, Sabarkantha District, Himatnagar.</li> <li>4. Special Land Acquisition Officer, Himatnagar.</li> <li>5. Prant Officer, Himatnagar Sub-Division, Himatnagar.</li> <li>6. Deputy District Development Officer (Revenue), Sabarkantha District Panchayat, Himatnagar.</li> <li>7. Prant Officer, Medasa Sub-Division, Medasa.</li> </ol>
16. Returning Officer of 16. Kapadvanj Parliamentary Constituency.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. II Additional Special Land Acquisition Officer, Ahmedabad.</li> <li>2. District Supply Officer, Ahmedabad District, Ahmedabad.</li> <li>3. Deputy District Development Officer (Development), Sabarkantha District Panchayat, Himatnagar.</li> <li>4. Project Officer (Senior) Small Farmers Development Agency, Sabarkantha District, Himatnagar.</li> <li>5. Deputy Collector, Land Acquisition and Rehabilitation, Watrak Project, Medasa.</li> <li>6. Special Land Acquisition Officer, Kaira.</li> <li>7. Special Land Acquisition Officer, Wanakbori Thermal Power Station, Kaira.</li> </ol>
17. Returning Officer of 17. Dahod (ST) Parliamentary Constituency.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Project Officer-cum-Taluka Development Officer, Santrapur.</li> <li>2. Project Officer-cum-Taluka Development Officer, Jhalod.</li> <li>3. Project Officer-cum-Taluka Development Officer, Dahod.</li> <li>4. Prant Officer, Dahod Sub-Division, Dahod.</li> <li>5. Project Officer-cum-Taluka Development Officer, Limkheda.</li> <li>6. District Supply Officer, Panchmahals District, Godhra.</li> <li>7. Additional Special Land Acquisition Officer Panchmahals District, Godhra.</li> </ol>
18. Returning Officer of 18. Godhra Parliamentary Constituency.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Project Officer-cum-Taluka Development Officer, Devgadhi-Baria.</li> <li>2. Resettlement Officer, Kadana Project, Godhra.</li> <li>3. Resident Deputy Collector, Panchmahals District, Godhra.</li> <li>4. Prant Officer, Godhra Sub-Division Godhra.</li> <li>5. Deputy District Development Officer (Revenue), Panchmahals District Panchayat, Godhra.</li> </ol>

I

2

- 
- |   |  |
|---|--|
| <p>19. Returning Officer of 19. Kaira Parliamentary Constituency.</p>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Deputy District Development Officer (Development), Panchmahals District Panchayat, Godhra.</li> <li>7. Deputy District Development Officer (Development), Kaira District Panchayat, Nadiad.</li> </ol>   |
| <p>20. Returning Officer of 20. Anand Parliamentary Constituency.</p>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. District Supply Officer, Kaira District, Kaira.</li> <li>2. Deputy Collector Tenancy (Additional), Kaira District, Kaira.</li> <li>3. Resident Deputy Collector, Kaira District, Kaira.</li> <li>4. Prant Officer, Nadiad Sub-Division, Nadiad.</li> <li>5. Special Land Acquisition Officer (Mahi Canals), Nadiad.</li> <li>6. Deputy Collector (Tenancy), Kaira District, Kaira.</li> <li>7. Project Officer, Small Farmers and Agricultural Labourers Agency, Nadiad.</li> </ol>  |
| <p>21. Returning Officer of 21. Chhota Udaipur (ST) Parliamentary Constituency.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prant Officer, Anand Sub-Division, Anand.</li> <li>2. Special Land Acquisition Officer, Mahi Kadana Command Area, Nadiad.</li> <li>3. Prant Officer, Petlad Sub-Division, Petlad.</li> <li>4. Deputy District Development Officer (Revenue), Kaira District Panchayat, Nadiad.</li> <li>5. Deputy District Development Officer (Panchayat), Kaira District Panchayat, Nadiad.</li> <li>6. Additional Resident Deputy Collector, Kaira.</li> <li>7. Consolidation Officer, Kaira Division, Nadiad.</li> </ol>   |
| <p>22. Returning Officer of 22 Baroda Parliamentary Constituency.</p>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Project Officer-cum-Tahka Development Officer, Chhota Udaipur</li> <li>2. Prant Officer, Chhota Udaipur Sub-Division Chhota Udaipur.</li> <li>3. Special Land Acquisition Officer, Baroda.</li> <li>4. Deputy District Development Officer (Development), Baroda District Panchayat, Baroda.</li> <li>5. Prant Officer, Dabhoi Sub-Division, Dabhoi.</li> <li>6. Special Land Acquisition Officer (Baroda Municipal Corporation), Baroda.</li> <li>7. Prant Officer, Rajpipla Sub-Division, Rajpipla.</li> </ol>   |
| <p>23. Returning Officer of 23 Baroda Parliamentary Constituency.</p>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy District Development Officer (Coordination), Baroda District Panchayat, Baroda.</li> <li>2. Prant Officer, Baroda Sub-Division, Baroda.</li> <li>3. Special Officer for Departmental Enquiry (N.G.), Baroda.</li> <li>4. Deputy Collector (Tenancy), Baroda.</li> <li>5. Regional Manager, Gujarat Industrial Development Corporation, Baroda.</li> <li>6. Deputy Collector (Urban Land Ceiling) Office of the Additional Collector, Baroda.</li> <li>7. Deputy District Development Officer (Revenue), Baroda District Panchayat, Baroda.</li> </ol> |
-



1	2
23. Returning Officer of 23 Broach Parliamentary Constituency.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resident Deputy Collector, Broach District Baroda.</li> <li>2. Prant Officer, Broach Sub-Division, Broach.</li> <li>3. District Supply Officer, Broach District Broach.</li> <li>4. Special Land Acquisition Officer, Broach District, Broach.</li> <li>5. Deputy Collector (Tenancy), Broach District, Broach.</li> <li>6. Deputy District Development Officer (Revenue), Broach District Panchayat, Broach.</li> <li>7. Project Officer-cum-Taluka Development Officer, Mangrol, District Surat.</li> </ol>
24. Returning Officer of 24. Surat Parliamentary Constituency.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prant Officer, Olpad Sub-Division, Surat.</li> <li>2. Deputy Collector (Tenancy), Surat.</li> <li>3. Resident Deputy Collector, Surat District Surat.</li> <li>4. Prant Officer, Choras Sub-Division, Surat.</li> <li>5. Special Land Acquisition Officer, Tapi Canal Works, B-Branch, Surat.</li> <li>6. District Supply Officer, Bulsar District, Bulsar.</li> <li>7. Prant Officer, Navsari Sub-Division, Navsari.</li> </ol>
25. Returning Officer of 25. Mandvi (ST) Parliamentary Constituency.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy District Development Officer (Panchayat), Surat District Panchayat, Surat.</li> <li>2. Special Land Acquisition Officer, Uda Left Back Canal, Sorgadh.</li> <li>3. Prant Officer, Vyara Sub-Division, Vyara.</li> <li>4. Deputy District Development Officer (Development), Surat District Panchayat, Surat.</li> <li>5. Deputy District Development Officer (Revenue), Surat District Panchayat, Surat.</li> <li>6. Special Land Acquisition Officer, Branch-IV, Surat.</li> <li>7. Project Officer-cum-Taluka Development Officer, Chikhli, District, Bulsar.</li> </ol>
26. Returning Officer of 26 Bulsar (ST) Parliamentary Constituency.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy District Development Officer (Panchayat), Bulsar District Panchayat, Bulsar.</li> <li>2. Project Officer, Small Farmers Development Agency, Bulsar.</li> <li>3. Resident Assistant/Deputy Collector, Bulsar.</li> <li>4. Project Officer-cum-Taluka Development Officer, Dharampur.</li> <li>5. Deputy District Development Officer (Development), Bulsar District Panchayat, Bulsar.</li> <li>6. Prant Officer, Bulsar Sub-Division, Bulsar.</li> <li>7. Deputy Collector, Land Reforms, Bulsar.</li> </ol>

The Election Commission's notification No. 424/GJ/71 dated 2 December, 1971 is hereby cancelled.

[No. 434/GJ/77 (2)]

By Order,

V. NAGASUBRAMANJAN, Secy,

नं० आ 81 अ।-१०१ निर्वाचन अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/गुज/74(2) तारीख 5 फरवरी, 1975 को अधिकांत करते हुए निर्वाचन आयोग नीचे की तारीखी स्तम्भ 2 में प्रदा-निर्दिष्ट गुजरात सरकार के आफिसरों में से प्रत्येक को, ऐसे सरकारी आफिसर अथवा आफिसरों के सामने गुजरात राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जैसे कि वे संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिमोमन आदेश 1976 की अनुसूची Vi के भाग 'क' में अन्तर्निहित हैं तथा उस तारीखी स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट किए गए हैं; के रिटनिंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटनिंग आफिसर के रूप में एतद्वारा नियुक्त करता है।—

### सारणी

नं० 1-राज्य निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर

सहायक रिटनिंग आफिसर

1	2
1. 1-कच्छ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1 प्रांत आफिसर, नखतराना उप-खण्ड, नखतराना 2 प्रांत आफिसर, भुज उप-खण्ड, भुज 3 निवासी उप-कलक्टर, जिला कच्छ, भुज 4 जिला प्रदाय आफिसर, जिला कच्छ, भुज 5 प्रांत आफिसर, अंजार उप-खण्ड, अंजार 6 उप जिला विकास आफिसर (राजस्व), कच्छ जिला पंचायत, भुज
2. 2-सुरेन्द्रनगर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1 निवासी उप कलक्टर तथा प्रांत आफिसर, वधवान उपखण्ड, सुरेन्द्रनगर 2 प्रांत आफिसर, लिम्बड़ी उपखण्ड, लिम्बड़ी 3 प्रांत आफिसर, धगधा उपखण्ड, धगधा 4 जिला प्रदाय आफिसर, सुरेन्द्रनगर जिला, सुरेन्द्रनगर 5 उप जिला विकास आफिसर (राजस्व) सुरेन्द्रनगर जिला पंचायत, सुरेन्द्रनगर 6 उप जिला विकास आफिसर (पंचायत), सुरेन्द्रनगर जिला पंचायत, सुरेन्द्रनगर 7 विशेष भूमि अर्जन आफिसर, राजकोट
3. 3-जामनगर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1 प्रांत आफिसर, जामनगर उपखण्ड, जामनगर 2 प्रशासक, जामनगर नगरपालिका, जामनगर 3 निवासी उप कलक्टर, जिला जामनगर, जामनगर

1

2

- 
- |  |  |
|--|--|
| <p>4. उप जिला विकास आफिसर (विकास);<br/>जामनगर जिला पंचायत, जामनगर ।</p> <p>5. उप कलक्टर, शहरी भूमि सीमा; जामनगर ।</p> <p>6. प्रांत आफिसर, खम्बालिया उपखण्ड,<br/>खम्बालिया ।</p> <p>7. परियोजना आफिसर, डी०पी०ए०पी०<br/>जामनगर ।</p> | <p>4. उप जिला विकास आफिसर (विकास);<br/>जामनगर जिला पंचायत, जामनगर ।</p> <p>5. उप कलक्टर, शहरी भूमि सीमा; जामनगर ।</p> <p>6. प्रांत आफिसर, खम्बालिया उपखण्ड,<br/>खम्बालिया ।</p> <p>7. परियोजना आफिसर, डी०पी०ए०पी०<br/>जामनगर ।</p> |
|--|--|
- 
- |   |   |
|---|---|
| <p>4. 4-राजकोट संमदीय निर्वाचन-क्षेत्र का<br/>रिटनिंग आफिसर ।</p> | <p>1. प्रांत आफिसर, मोर्ची उपखण्ड, मोर्ची ।</p> <p>2. सहायक निदेशक लघु बचत राजकोट खण्ड,<br/>राजकोट ।</p> <p>3. विशेष आफिसर, विभागीय जाघ, राजकोट ।</p> <p>4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, राजकोट<br/>जिला सिचाई परियोजना, राजकोट ।</p> <p>5. प्रांत आफिसर राजकोट उपखण्ड, राजकोट ।</p> <p>6. प्रांत आफिसर, गोन्डल उपखण्ड, गोन्डल ।</p> <p>7. उप कलक्टर (वसूली) राजकोट ।</p> <p>8. उप कलक्टर शहरी भूमि सीमा, राजकोट ।</p> |
|---|---|
- 
- |  |   |
|--|---|
| <p>5. 5-पोरबंदर संमदीय निर्वाचन-क्षेत्र का<br/>रिटनिंग आफिसर ।</p> | <p>1. उप जिला विकास आफिसर (योजना)<br/>राजकोट जिला पंचायत, राजकोट ।</p> <p>2. उप जिला विकास आफिसर (राजस्व);<br/>राजकोट जिला पंचायत, राजकोट ।</p> <p>3. उप जिला विकास आफिसर (राजस्व);<br/>जामनगर जिला पंचायत, जामनगर ।</p> <p>4. प्रांत आफिसर, पोरबन्दर उपखण्ड,<br/>पोरबन्दर ।</p> <p>5. उप निदेशक, 1; राज्य संस्थान, ग्रामीण<br/>विकास तथा पंचायत राज, जूनागढ़ I।</p> <p>6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर जूनाग ।</p> <p>7. निवासी उप कलक्टर, जिला जूनागढ़, जूना-<br/>गढ़ ।</p> |
|--|---|
-

1

2

6. 6-जूनागढ़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. जिला प्रदाय आफिसर, जिला जूनागढ़, जूनागढ़ ।
2. प्रांत आफिसर, बेरावल, उपखण्ड, बेरावल ।
3. उप निदेशक (ii) राज्य संस्थान, ग्रामीण विकास तथा पंचायत राज, जूनागढ़ ।
4. उप जिला विकास आफिसर (विकास), जूनागढ़ जिला पंचायत जूनागढ़ ।
5. परियोजना आफिसर, लघु कृषक अभिकरण, जूनागढ़ ।
6. उप जिला विकास आफिसर (पंचायत) जूनागढ़ जिला पंचायत जूनागढ़ ।
7. प्रांत आफिसर, जूनागढ़ उपखण्ड, जूनागढ़ ।

7. 7-अमरेली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. जिला प्रदाय आफिसर जिला अमरेली, अमरेली ।
2. प्रांत आफिसर, अमरेली उपखण्ड अमरेली ।
3. निवासी उप-कलेक्टर, जिला अमरेली, अमरेली ।
4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, अमरेली ।
5. उप जिला विकास आफिसर (राजस्व), अमरेली जिला पंचायत अमरेली ।
6. प्रांत आफिसर, रजुला उपखण्ड अमरेली ।
7. उप जिला विकास आफिसर (राजस्व) भावनगर जिला पंचायत, भावनगर ।

8. 8.-भावनगर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. प्रांत आफिसर, पलिताना उपखण्ड, पलिताना ।
2. परियोजना आफिसर, एस० एफ० ए० एल०, भावनगर जिला पंचायत, भावनगर ।
3. प्रांत आफिसर, महुवा उप-खण्ड, महुवा ।
4. जिला प्रदाय आफिसर, जिला भावनगर, भावनगर ।
5. उप-कलेक्टर, ग्रामीण भूमि सीमा, भावनगर ।
6. प्रांत आफिसर, भावनगर उप-खण्ड भावनगर ।

1

2

9. 9-प्रबुका (अ० जा०) सप्तरीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

- 1 उप जिला विकास आफिसर (विकास); भावनगर जिला पंचायत, भावनगर ।
- 2 उप जिला विकास आफिसर (पंचायत); भावनगर जिला पंचायत, भावनगर ।
- 3 उप जिला विकास आफिसर (राजस्व); अहमदाबाद जिला पंचायत, अहमदाबाद ।
- 4 प्रांत आफिसर, धोल्का उपखण्ड, धोल्का ।
- 5 उप जिला विकास आफिसर (पंचायत), अहमदाबाद जिला पंचायत, अहमदाबाद ।
- 6 प्रांत आफिसर, विरामगाम उपखण्ड, अहमदाबाद ।
- 7 उप कलक्टर (अभिवृत्ति), अहमदाबाद ।

10. 10-अहमदाबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. सहायक निदेशक (राजस्व), अष्टाचार विरोधी शाखा, अहमदाबाद ।
2. सहायक क्षेत्रीय विकास आयुक्त, कडाना परियोजना, अहमदाबाद ।
3. उप नियंत्रक, आवाम अहमदाबाद ।
4. उप कलक्टर, बिक्रीकर (धसूली), अहमदाबाद ।
5. सहायक निदेशक, नागरिक सुरक्षा, अहमदाबाद ।
6. उप कलक्टर (कृषि-भिक्षा), अहमदाबाद ।
7. प्रशासक, सरदार नगर टाउनशिप, अहमदाबाद ।

11. 11-गांधीनगर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (जिला) तीन, अहमदाबाद ।
2. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (अ० एन० जी० सी०), अहमदाबाद ।
3. शहर उप कलक्टर, अहमदाबाद ।
4. उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा (अहमदाबाद शहर), अहमदाबाद ।
5. विशेष कर्तव्य आफिसर (भूमि), औद्योगिक आयुक्त का कार्यालय, अहमदाबाद ।

1

2

- |  |  |
|--|--|
| <p>12. 12-मेहसाना संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।</p> <p>13. 13-पाटन (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।</p> <p>14. 14-बनसकंथा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।</p> | <p>6. उप निदेशक, सरदार पटेल प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, अहमदाबाद ।</p> <p>7. सहायक आयुक्त (भूमि सुधार), राजस्व विभाग, सचिवालय, गांधीनगर ।</p> <p>1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (ओ० एन० जी० सी०), जिला मेहसाना, मेहसाना ।</p> <p>2. उप कलक्टर (अभिधृति), सं० 2, जिला मेहसाना, मेहसाना ।</p> <p>3. प्रांत आफिसर, मेहसाना उपखण्ड, मेहसाना ।</p> <p>4. उप कलक्टर (अभिधृति) सं० 1, जिला मेहसाना, मेहसाना ।</p> <p>5. निवासी उप-कलक्टर, जिला मेहसाना, मेहसाना ।</p> <p>1. उप जिला विकास आफिसर (राजस्व), मेहसाना जिला पंचायत, मेहसाना ।</p> <p>2. उप जिला विकास आफिसर (विकास), मेहसाना जिला पंचायत, मेहसाना ।</p> <p>3. उप जिला विकास आफिसर (पंचायत), मेहसाना जिला पंचायत, मेहसाना ।</p> <p>4. प्रांत आफिसर, पाटन उपखण्ड, पाटन ।</p> <p>5. जिला प्रदाय आफिसर, जिला मेहसाना, मेहसाना ।</p> <p>6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, मेहसाना ।</p> <p>1. प्रांत आफिसर, राधनपुर उपखण्ड, राधनपुर ।</p> <p>2. प्रांत आफिसर, थराड उपखण्ड, थराड ।</p> <p>3. जिला प्रदाय आफिसर, जिला बनसकंथा, पालनपुर ।</p> <p>4. उप जिला विकास आफिसर (राजस्व) बनसकंथा जिला पंचायत, पालनपुर ।</p> <p>5. प्रांत आफिसर, पालनपुर उपखण्ड पालनपुर ।</p> <p>6. उप जिला विकास आफिसर (पंचायत), बनसकंथा जिला पंचायत, पालनपुर ।</p> <p>7. निवासी उप कलक्टर, बनसकंथा जिला, पालनपुर ।</p> |
|--|--|

1

2

15. 15-साबरकंथा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. उप जिला विकास आफिसर (विकास) बनसकंथा जिला पंचायत, पालनपुर ।
2. प्रशासक, अम्बाजी टेम्पल बनसकंथा, जिला अम्बाजी ।
3. जिला प्रदाय आफिसर, जिला साबरकंथा, हिम्मतनगर ।
4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, हिम्मतनगर ।
5. प्रान्त आफिसर, हिम्मतनगर उप-खण्ड, हिम्मतनगर ।
6. उप जिला विकास आफिसर (राजस्व) साबरकंथा जिला पंचायत, हिम्मतनगर ।
7. प्रान्त आफिसर, मोदासा उप-खण्ड, मोदासा ।

16. 16-कपाड़वज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. अपर विशेष भूमि अर्जन आफिसर दो, अहमदाबाद ।
2. जिला प्रदाय आफिसर, जिला अहमदाबाद, अहमदाबाद ।
3. उप जिला विकास आफिसर (विकास) साबरकंथा जिला पंचायत, हिम्मतनगर ।
4. परियोजना आफिसर (वरिष्ठ) लघु कृषक विकास अभिकरण, साबरकंथा जिला, हिम्मतनगर ।
5. उप कलक्टर, भूमि अर्जन तथा पुर्नवास, वाटरक परियोजना, मोदासा ।
6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, कैरा ।
7. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (थर्मल पावर स्टेशन) कैरा ।

17. 17-दोहद (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. परियोजना आफिसर एवं तालुका विकास आफिसर, संतरामपुर ।
2. परियोजना आफिसर एवं तालुक विकास आफिसर, झालोद ।
3. परियोजना आफिसर एवं तालुक विकास आफिसर, दोहद ।
4. प्रान्त आफिसर, दोहद उप-खण्ड, दोहद ।

1

2

- |   |   |
|---|---|
| <p>18. 18-गोधरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।]</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. परियोजना आफिसर एवं तालुक विकास आफिसर, लिमखेड़ा ।</li> <li>6. जिला प्रदाय आफिसर, पंचमहल, जिला, गोधरा ।</li> <li>7. अपर विशेष भूमि अर्जन आफिसर, जिला पंचमहल, गोधरा ।</li> </ol>   |
| <p>19. 19-कैरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।]</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. परियोजना आफिसर एवं तालुक विकास आफिसर, देवगढ़-बारिया ।</li> <li>2. पुन-व्यवस्थापना आफिसर, कदाना परियोजना, गोधरा ।</li> <li>3. निवासी उप-कलक्टर, पंचमहल जिला, गोधरा ।</li> <li>4. प्रांत आफिसर, गोधरा उप-खण्ड, गोधरा ।</li> <li>5. उप जिला विकास आफिसर (राजस्व), पंचमहल जिला पंचायत, गोधरा ।</li> <li>6. उप जिला विकास आफिसर (विकास), पंचमहल जिला पंचायत, गोधरा ।</li> <li>7. उप जिला विकास आफिसर (विकास), कैरा जिला पंचायत, नाड़ियाड़ ।</li> </ol> |
| <p>20. 20-आनन्द संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जिला प्रदाय आफिसर, जिला कैरा, कैरा ।</li> <li>2. उप-कलक्टर, अभिधृति (अपर), जिला कैरा, कैरा ।</li> <li>3. निवासी उप-कलक्टर, जिला कैरा, कैरा ।</li> <li>4. प्रांत आफिसर, नाड़ियाड़ उप-खण्ड, नाड़ियाड़ ।</li> <li>5. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (मही केनाल), नाड़ियाड़ ।</li> <li>6. उप-कलक्टर (अभिधृति), जिला कैरा, कैरा ।</li> <li>7. परियोजना आफिसर, लघु कृषक तथा कृषि मजदूर अभिकरण, नाड़ियाड़ ।</li> </ol>   |
| <p>20. 20-आनन्द संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रांत आफिसर, आनन्द, उप-खण्ड, आनन्द ।</li> <li>2. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, महीकदाना कमाण्ड क्षेत्र, नाड़ियाड़ ।</li> <li>3. प्रांत आफिसर, पेटलाड उप-खण्ड, पेटलाड ।</li> </ol>  |



1

2

- 
- |   |  |
|---|--|
| <p>21. 21-छोटा उदयपुर (अ०ज०जा०)संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।</p> | <p>4. उप जिला विकास आफिसर (राजस्व), कैरा जिला पंचायत, नाडियाड ।</p> <p>5. उप जिला विकास आफिसर (पंचायत), ] कैरा जिला पंचायत, नाडियाड ।</p> <p>6. अपर निवासी उप-कलक्टर, कैरा ।</p> <p>7. समेकन आफिसर, कैरा उपखण्ड, नाडियाड ।</p>   |
| <p>22. 22-बड़ौदा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।</p>               | <p>1. परियोजना आफिसर एव तालुक विकास आफिसर, छोटा उदयपुर ।</p> <p>2. प्रांत आफिसर, छोटा उदयपुर उपखण्ड, छोटा उदयपुर ।</p> <p>3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, बड़ौदा ।</p> <p>4. उप जिला विकास आफिसर (विकास) बड़ौदा जिला पंचायत, बड़ौदा ।</p> <p>5. प्रांत आफिसर, दभोई उपखण्ड, दभोई ।</p> <p>6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (बड़ौदा नगर निगम), बड़ौदा ।</p> <p>7. प्रांत आफिसर, राजपिपला उपखण्ड, राज-पिपला ।</p>                                     |
| <p>23. 23-बड़ौदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।</p>               | <p>1. उप जिला विकास आफिसर (समन्वय) बड़ौदा जिला पंचायत, बड़ौदा ।</p> <p>2. प्रांत आफिसर, बड़ौदा उपखण्ड, बड़ौदा ।</p> <p>3. विशेष आफिसर, विभागीय जांच (अराज-पत्रित), बड़ौदा ।</p> <p>4. उप-कलक्टर (अभिधृति), बड़ौदा ।</p> <p>5. क्षेत्रीय प्रबन्धक, गुजरात औद्योगिक विकास निगम, बड़ौदा ।</p> <p>6. उप कलक्टर (शहरी भूमि सीमा), अपर कलक्टर का कार्यालय, बड़ौदा ।</p> <p>7. उप जिला विकास आफिसर (राजस्व), बड़ौदा जिला पंचायत, बड़ौदा ।</p> |
|   | <p>1. निवासी उप कलक्टर, जिला बड़ौच, बड़ौच ।</p> <p>2. प्रांत आफिसर, बड़ौच उपखण्ड, बड़ौच ।</p> <p>3. जिला प्रदाय आफिसर, जिला बड़ौच, बड़ौच ।</p>   |
-

1	2
	<p>4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, जिला बड़ौच, बड़ौच ।</p> <p>5. उप कलक्टर, (अभिधृति), जिला बड़ौच, बड़ौच ।</p> <p>6. उप जिला विकास आफिसर (राजस्व), बड़ौच जिला पंचायत, बड़ौच ।</p> <p>7. परियोजना आफिसर एवं तालुक विकास आफिसर, मंग्रोल, जिला सूरत ।</p>
24. 24-सूरत संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।]	<p>1. प्रांत आफिसर, ओलपाद उपखण्ड, सूरत ।</p> <p>2. उप कलक्टर (अभिधृति), सूरत ।</p> <p>3. निवासी उप कलक्टर, जिला सूरत, सूरत ।</p> <p>4. प्रांत आफिसर, चौरासी उपखण्ड, सूरत ।</p> <p>5. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, तापी केनाल वर्क 'बी' ब्रांच, सूरत ।</p> <p>6. जिला प्रदाय आफिसर, जिला बुलसर, बुलसर ।</p> <p>7. प्रांत आफिसर नवसारी उपखण्ड, नवसारी ।</p>
25. 25-मांडवी (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	<p>1. उप जिला विकास आफिसर (पंचायत) सूरत जिला पंचायत, सूरत ।</p> <p>2. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, उकड़ लेफ्ट बैंक केनाल, सोनगढ़ ।</p> <p>3. प्रांत आफिसर, व्यारा उपखण्ड व्यारा ।</p> <p>4. उप जिला विकास आफिसर (विकास) सूरत जिला पंचायत, सूरत ।</p> <p>5. उप जिला विकास आफिसर (राजस्व), सूरत जिला पंचायत, सूरत ।</p> <p>6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, ब्रांच सं० 4, सूरत ।</p> <p>7. परियोजना आफिसर एवं तालुक विकास आफिसर, चिखली जिला बुलसर ।</p>
26. 26-बुलसर (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	<p>1. उप जिला विकास आफिसर (पंचायत) बुलसर जिला पंचायत, बुलसर ।</p> <p>2. परियोजना आफिसर, लघु कृषक विकास अभिकरण, बुलसर ।</p>

1

2

3. निवासी सहायक उप कलक्टर, जिला बुलसर, बुलसर ।
4. परियोजना आफिसर एवं तालुक विकास आफिसर, धर्मपुर ।
5. उप-जिला विकास आफिसर, बुलसर जिला पंचायत, बुलसर ।
6. प्रांत आफिसर, बुलसर उपखण्ड, बुलसर, बुलसर ।
7. उप कलक्टर, भूमि सुधार, बुलसर ।

निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं० 434/गुज०/71, तारीख 2 दिसम्बर, 1971 को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है ।

[स० 434/गुज०/77(2)]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

New Delhi, the 29th January 1977

S.O. 82 (E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its Notification No. 434/HN/75, dated 20 January 1975, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Haryana, the officer of Government specified in column 2 of the Table below as the Returning Officer of the Parliamentary Constituencies in the State of Haryana as contained in Part A of Schedule VII of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and as specified in column 1 of the said Table against such officer of Government:—

TABLE

Serial No. and name of the Parliamentary Constituency	Returning Officer
---	-------------------

1	2
1. Ambala (SC) . . . . .	Deputy Commissioner, Ambala.
2. Kurukshetra . . . . .	Deputy Commissioner, Kurukshetra.
3. Karnal . . . . .	Deputy Commissioner, Karnal.
4. Sonapat . . . . .	Deputy Commissioner, Sonapat.
5. Rohtak . . . . .	Deputy Commissioner, Rohtak.
6. Faridabad . . . . .	Deputy Commissioner, Gurgaon.
7. Mahendragarh . . . . .	Deputy Commissioner, Mahendragarh.
8. Bhiwani . . . . .	Deputy Commissioner, Bhiwani.
9. Hissar . . . . .	Deputy Commissioner, Jind.
10. Sirsa (SC) . . . . .	Deputy Commissioner, Hissar.

[No. 434/H N/77]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1977

**का० प्रा० 82 (अ).—**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में और अपनी तारीख 20 जनवरी, 1975 की अधिसूचना सं० 434/हर०/75 को अधिश्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग हरियाणा राज्य सरकार के परामर्श से, नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर को, ऐसे सरकारी आफिसर के सामने हरियाणा राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जैसा कि वे संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिशिष्ट आदेश, 1976 की अनुसूची 7 के भाग-क में अन्तर्निहित है और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के लिए रिटनिंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदभिमूक्त करता है।

## सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं० तथा नाम	रिटनिंग आफिसर
1. अम्बाला (अ० जा०)	उपायुक्त, अम्बाला।
2. कुरुक्षेत्र	उपायुक्त, कुरुक्षेत्र।
3. करनाल	उपायुक्त, करनाल।
4. सोनीपत	उपायुक्त, सोनीपत।
5. रोहतक	उपायुक्त, रोहतक।
6. फरीदाबाद	उपायुक्त, गुडगांव।
7. महेन्द्रगढ़	उपायुक्त, महेन्द्रगढ़।
8. भिवानी	उपायुक्त, भिवानी।
9. हिसार	उपायुक्त, जींद।
10. सिरसा (अ० जा०)	उपायुक्त, हिसार।

[स० 434/हर०/77]

**S.O. 83(E)—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the people Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its Notification No. 434/HN/75(I) dated 20 January, 1975 the Election Commission hereby appoints the officers of Government of Haryana as specified in column 2 of the Table below to assist the Returning officer of the Parliamentary Constituencies in the State of Haryana as contained in part A of Schedule VII of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies order, 1976 and as specified in column 1 of the said Table against such officers of Government in the performance of the functions of such Returning Officers.—

TABLE

Returning officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
1. Returning officer of 1-Ambala (SC) Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Officer, Narairgarh. 2. Sub-Divisional officer, Jagadhari. 3. Additional General Assistant, Ambala. 4. Sub-Divisional Officer, Ambala.

1

2

2. Returning officer of 2-Kurukshetra Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Officer, Jagadhri. 2. Sub-Divisional Officer, Thanesar. 3. Additional General Assistant, Kurukshetra. 4. Sub-Divisional Officer, Kaithal.
3. Returning Officer of 3-Karnal Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Officer, Karnal. 2. General Assistant, Karnal. 3. Additional General Assistant, Karnal. 4. Sub-Divisional Officer, Panipat.
4. Returning Officer of 4-Sonepat Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Officer, Gohana. 2. General Assistant, Sonepat. 3. Sub-Divisional Officer, Sonepat. 4. Sub-Divisional Officer, Bahadurgarh. 5. Sub-Divisional officer, Jind. 6. Additional General Assistant, Jind.
5. Returning officer of 5- Rohtak Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Officer, Rohtak. 2. General Assistant, Rohtak. 3. Sub-Divisional officer, Bahadurgarh. 4. Sub-Divisional Officer, Jhajjar.
6. Returning Officer of 6- Faridabad Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Officer, Ballabgarh. 2. Sub-Divisional Officer, Palwal. 3. Sub-Divisional Officer, Nuh. 4. Sub-Divisional Officer, Ferozepur-Jhirka.
7. Returning Officer of 7-Mahendragarh Parliamentary Constituency	1. Sub-Divisional Officer, Gurgaon. 2. General Assistant, Gurgaon. 3. Sub-Divisional Officer, Rewari. 4. Sub-Divisional Officer, Mahendragarh. 5. Sub-Divisional Officer, Narnaul.
8. Returning Officer of 8- Bhiwani Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Officer, Dadri. 2. Sub-Divisional Officer, Bhiwani. 3. General Assistant, Bhiwani. 4. Sub-Divisional Officer, Hansi. 5. Sub-Divisional Officer, Hisar. 6. Sub-Divisional Officer, Loharu.
9. Returning Officer of 9-Hissar Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Officer, Hansi. 2. General Assistant, Hissar. 3. Sub-Divisional Officer, Hissar. 4. Sub-Divisional Officer, Narwana. 5. General Assistant, Jind. 6. Sub-Divisional Officer, Jind.
10. Returning Officer of 10-Sirsa (SC) Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Officer, Fatehabad. 2. Sub-Divisional Officer, Hissar. 3. General Assistant, Sirsa. 4. Sub-Divisional Officer, Sirsa. 5. Sub-Divisional Officer, Dabwali.

[No 434/HN/77(I)]

का० छा० 83 (ख).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी तारीख 20 जनवरी, 1975 की अधिसूचना सं० 434/ह०/75 (1) को अधिकांत करते हुए, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट हरियाणा सरकार के आफिसरों को, ऐसे सरकारी आफिसरों के सामने हरियाणा राज्य के सर्वोच्च निर्वाचन-क्षेत्रों जैसा कि वे संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिभाषित आदेश, 1976 की अनुसूची-7 के भाग क में अन्विष्ट है और उक्त सारणी के

स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के लिए रिटनिंग आफिसर को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करता है :—

### सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर

सहायक रिटनिंग आफिसर ।

1

2

- |  |   |
|--|---|
| 1. 1-अम्बाला (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर । | 1. उपखण्ड आफिसर, नारायणगढ़ ।<br>2. उपखण्ड आफिसर, जगाधरी ।<br>3. अपर सामान्य सहायक, अम्बाला ।<br>4. उपखण्ड आफिसर, अम्बाला ।  |
| 2. 2-कुरुक्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।      | 1. उपखण्ड आफिसर, जगाधरी ।<br>2. उपखण्ड आफिसर, थानेसर ।<br>3. अपर सामान्य सहायक, कुरुक्षेत्र ।<br>4. उपखण्ड आफिसर, कैथल ।  |
| 3. 3-करनाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।            | 1. उपखण्ड आफिसर, करनाल ।<br>2. सामान्य सहायक, करनाल ।<br>3. अपर सामान्य सहायक, करनाल ।<br>4. उपखण्ड आफिसर, पानीपत ।   |
| 4. 4-सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।           | 1. उपखण्ड आफिसर, गोहाना ।<br>2. सामान्य सहायक, सोनीपत ।<br>3. उपखण्ड आफिसर, सोनीपत ।<br>4. उपखण्ड आफिसर, बहादुरगढ़ ।<br>5. उपखण्ड आफिसर, जींद ।<br>6. अपर सामान्य सहायक, जींद । |
| 5. 5-रोहतक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।            | 1. उपखण्ड आफिसर, रोहतक ।<br>2. सामान्य सहायक, रोहतक ।<br>3. उपखण्ड आफिसर, बहादुरगढ़ ।<br>4. उपखण्ड आफिसर, झज्जर ।   |
| 6. 6-फरीदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।         | 1. उपखण्ड आफिसर, बल्लभगढ़ ।<br>2. उपखण्ड आफिसर, पलवल ।<br>3. उपखण्ड आफिसर, नूह ।<br>4. उपखण्ड आफिसर, फिरोजपुर शिरका ।   |

1	2
7. 7-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. उपखण्ड आफिसर, गुड़गांव । 2. सामान्य सहायक, गुड़गांव । 3. उपखण्ड आफिसर, रिवाड़ी । 4. उपखण्ड आफिसर, महेन्द्रगढ़ । 5. उपखण्ड आफिसर, नारनौल ।
8. 8-भिवानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. उपखण्ड आफिसर, दादरी । 2. उपखण्ड आफिसर, भिवानी । 3. सामान्य सहायक, भिवानी । 4. उपखण्ड आफिसर, ह्रासी । 5. उपखण्ड आफिसर, हिसार । 6. उपखण्ड आफिसर, लोहारू ।
9. 9-हिसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. उपखण्ड आफिसर, ह्रासी । 2. सामान्य सहायक, हिसार । 3. उपखण्ड आफिसर, हिसार । 4. उपखण्ड आफिसर, नरवाना । 5. सामान्य सहायक, जींव । 6. उपखण्ड आफिसर, जींव ।
10. 10-सिरसा (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. उपखण्ड आफिसर, फतेहाबाद । 2. उपखण्ड आफिसर, हिसार । 3. सामान्य सहायक, सिरसा । 4. उपखण्ड आफिसर, सिरसा । 5. उपखण्ड आफिसर, दबवाली ।

[म० 434/हर०/77(1)]

**S.O. 84(E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its Notification No. 434/HP/75, dated 3 February, 1975, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Himachal Pradesh, the officer of the Government specified in column 2 of the Table below, as the Returning Officer of the Parliamentary Constituencies in the State of Himachal Pradesh as contained in Part A of Schedule VIII of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1975 and as specified in column 1 of the said Table against such officer of Government:—

TABLE

Serial No. and name of the Parliamentary Constituency	Returning Officer
1	2
1. Simla (SC) . . . . .	Deputy Commissioner, Simla.
2. Mandi . . . . .	Deputy Commissioner, Mandi.
3. Kangra . . . . .	Deputy Commissioner, Kangra.
4. Hamirpur . . . . .	Deputy Commissioner, Hamirpur.

[No. 434/HP/77]

का० जा० 84(घ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में और अपनी तारीख 3 फरवरी, 1975 की अधिसूचना सं० 434/हि०प्र०/75 को अधिकाृत करते हुए निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से, नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसरों को, ऐसे सरकारी आफिसरों के सामने हिमाचल प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जैसा कि वे संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची—8 के भाग 'क' में अन्तर्विष्ट हैं और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के लिए रिटनिंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है —

## सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं० और नाम	रिटनिंग आफिसर
1	2
1 शिमला (अ० जा०)	उपायुक्त, शिमला
2 मण्डी	उपायुक्त, मण्डी
3 कांगड़ा	उपायुक्त, कांगड़ा
4 हमीरपुर	उपायुक्त, हमीरपुर

[स० 434/हि० प्र०/77]

S.O. 85(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its Notification No. 434 HP/75(1), dated 3 February, 1975, the Election Commission hereby appoints the officers of Government of Himachal Pradesh as specified in column 2 of the Table below to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituencies in the State of Himachal Pradesh as contained in Part A of Schedule VIII of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and as specified in column 1 of the said Table against such officer of Government in the performance of the functions of such Returning Officer:—

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
1. Returning Officer of 1. Simla (SC) Parliamentary Constituency.	1 Deputy Commissioner, Solan. 2. Deputy Commissioner, Sirmur. 3. General Assistant to Deputy Commissioner, Simla. 4. General Assistant to Deputy Commissioner, Solan. 5. Sub-Divisional Officer (Civil), Nahan. 6. Sub-Divisional Officer (Civil), Rohru. 7. Sub-Divisional Officer (Civil), Chopal. 8. Sub-Divisional Officer (Civil), Theog. 9. Sub-Divisional Officer (Civil), Rampur.



I

2

2. Returning Officer of 2. Mandi Parliamentary Constituency.

1. Deputy Commissioner, Kinnaur.
2. Deputy Commissioner, Simla.
3. Deputy Commissioner, Chamba.
4. Deputy Commissioner, Lahaul-Spiti.
5. Deputy Commissioner, Kulu.
6. General Assistant to Deputy Commissioner, Mandi.
7. Sub-Divisional Officer (Civil), Kalpa.
8. Sub-Divisional Officer (Civil), Rampur.
9. Sub-Divisional Officer (Civil), Spiti at Kaza.
10. Sub-Divisional Officer (Civil), Ani.
11. Sub-Divisional Officer (Civil), Bharmour.
12. Sub-Divisional Officer (Civil), Pangi at Killar.

3. Returning Officer of 3. Kangra Parliamentary Constituency

1. Deputy Commissioner, Chamba.
2. Sub-Divisional Officer (Civil), Churah at Chamba.
3. Sub-Divisional Officer (Civil), Dehra.
4. Sub-Divisional Officer (Civil), Nurpur.
5. Sub-Divisional Officer (Civil), Kangra.
6. Sub-Divisional Officer (Civil), Palampur.
7. District Development and Panchayat Officer, Kalngra, Dharamsala.
8. Additional District Magistrate, Kangra, Dharamsala.
9. General Assistant to Deputy Commissioner, Kangra, Dharamsala.

4. Returning Officer of 4. Hamirpur Parliamentary Constituency.

1. Deputy Commissioner, Bilaspur.
2. Deputy Commissioner, Una.
3. Deputy Commissioner, Kangra.
4. General Assistant to Deputy Commissioner, Hamirpur.
5. Sub-Divisional Officer (Civil), Una.
6. Sub-Divisional Officer (Civil), Dehra.
7. District Development and Panchayat Officer, Kangra, Dharamsala.
8. Sub-Divisional Officer (Civil), Bilaspur.
9. Sub-Divisional Officer, (Civil), Hamirpur.
10. General Assistant-Cum-District Development and Panchayat Officer, Una.
11. Additional District Magistrate, Kangra, Dharamsala.
12. General Assistant to Deputy Commissioner, Kangra, Dharamsala.

[No. 434/HP/77(1)]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

**का० प्रा० 85 (अ).—**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी तारीख 3 फरवरी, 1975 की अधिसूचना सं० 434/हि०प्रा०/75(1) को अधिकृत करते हुए, निर्वाचन आयोग नीचे की मारणी के स्तम्भ 2 में यथा-विनिर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश सरकार के आफिसरों को, ऐसे सरकारी आफिसरों के सामने हिमाचल प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों, ऐसा कि वे संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची—8 के भाग 'क' में अन्तर्निष्ठ हैं और

उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के लिए रिटनिंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्द्वारा नियुक्त करता है—

### सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	सहायक रिटनिंग आफिसर
1	2
1. 1—शिमला (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1 उपायुक्त, सोलन । 2 उपायुक्त, सिरमौर । 3 उपायुक्त, शिमला का सामान्य सहायक । 4 उपायुक्त, सोलन का सामान्य सहायक । 5 उपखण्ड आफिसर (सिविल), नाहन । 6 उपखण्ड आफिसर (सिविल) रोहडू । 7 उपखण्ड आफिसर (सिविल), चौपाल । 8 उपखण्ड आफिसर (सिविल), ठियोग । 9 उपखण्ड आफिसर (सिविल), रामपुर ।
2. 2—मण्डी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. उपायुक्त, किन्नौर । 2. उपायुक्त, शिमला । 3. उपायुक्त, चम्बा । 4. उपायुक्त, लाहौल—स्पीति । 5. उपायुक्त, कुलू । 6. उपायुक्त, मण्डी का सामान्य सहायक । 7. उप खण्ड आफिसर (सिविल), कालपा । 8. उप खण्ड आफिसर (सिविल), रामपुर । 9. उपखण्ड आफिसर (सिविल), स्पीति , मुकाम काजा । 10. उपखण्ड आफिसर (सिविल), भानी । 11. उपखण्ड आफिसर (सिविल), भारमौर । 12. उपखण्ड आफिसर (सिविल), पांगी, मुकाम किलार ।
3. 3—कागड़ा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. उपायुक्त, चम्बा । 2. उपखण्ड आफिसर (सिविल), चुराह, मुकाम चम्बा । 3. उप-खण्ड आफिसर (सिविल), देहरा । 4. उपखण्ड आफिसर (सिविल), नूरपुर । 5. उप-खण्ड आफिसर (सिविल), कागड़ा ।

1

2

- 
- |   |   |
|---|---|
| <p>4. 4-हमीरपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।</p>   | <p>6. उप-खण्ड आफिसर (मिविल), पालमपुर।</p> <p>7. जिला विकास और पंचायत आफिसर, कांगड़ा, धर्मशाला।</p> <p>8. अपर जिला मजिस्ट्रेट, कांगड़ा, धर्मशाला।</p> <p>9. उपायुक्त, कांगड़ा धर्मशाला का सामान्य सहायक।</p> |
| <p>1. उपायुक्त, बिलासपुर।</p> <p>2. उपायुक्त, ऊना।</p> <p>3. उपायुक्त, कांगड़ा।</p> <p>4. उपायुक्त, हमीरपुर का सामान्य सहायक।</p> <p>5. उप-खण्ड आफिसर (मिविल), ऊना।</p> <p>6. उप-खण्ड आफिसर (मिविल), देहरा।</p> <p>7. जिला विकास और पंचायत आफिसर, कांगड़ा, धर्मशाला।</p> <p>8. उप-खण्ड आफिसर (मिविल), बिलासपुर।</p> <p>9. उप-खण्ड आफिसर (मिविल), हमीरपुर।</p> <p>10. सामान्य सहायक एवं जिला विकास और पंचायत आफिसर, ऊना।</p> <p>11. अपर-जिला मजिस्ट्रेट, कांगड़ा, धर्मशाला।</p> <p>12. उपायुक्त, कांगड़ा, धर्मशाला का सामान्य सहायक।</p> |   |
- 

[सं० 434/हि० प्र०/77(1)]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव,।

*New Delhi, the 2nd February, 1977.*

**S.O. 86(B).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/J&K-HP75, dated 23 September, 1975, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Jammu and Kashmir, the Officer of the Government specified in column (2) of the Table below as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Jammu and Kashmir

as contained in Schedule IX to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, and as specified in column (1) of the said Table against such Officer of Government—

TABLE

Serial No. and name of the Constituency	Returning Officer
1	2
1. Baramulla . . . . .	Deputy Commissioner, Baramulla.
2. Srinagar . . . . .	Deputy Commissioner, Srinagar.
3. Anantnag . . . . .	Deputy Commissioner, Anantnag.
4. Ladakh . . . . .	Deputy Commissioner, Ladakh.
5. Udhampur . . . . .	Special Secretary (General Department), Jammu.
6. Jammu . . . . .	Secretary to Government (Agricultural Department), Jammu.

[No. 434/J&K-HP/77]

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1977

क्रा० प्र० 86(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबंधों के अनुसरण में श्रीर अपनी अधिसूचना सं० 434/जम्मू-कश्मीर-लो० सं०/75, तारीख 23 सितम्बर, 1975 को अधिकाृत करते हुए, निर्वाचन आयोग, जम्मू-कश्मीर सरकार के परामर्श से, नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर को ऐसे आफिसर के सामने जम्मू-कश्मीर राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, जैसा कि वे संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 1976 की अनुमूची 9 में अन्तर्विष्ट हैं और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है ।

### सारणी

निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	रिटर्निंग आफिसर
1	2
1. बारामूला	उपायुक्त, बारामूला ।
2. श्री नगर	उपायुक्त, श्रीनगर ।
3. अनन्तनाग	उपायुक्त, अनन्तनाग ।
4. लद्दाख	उपायुक्त, लद्दाख ।
5. उधमपुर	विशेष सचिव (सामान्य विभाग), जम्मू ।
6. जम्मू	सरकार के सचिव (कृषि विभाग); जम्मू ।

[सं० 434/जम्मू-कश्मीर-लो० सं०/77]

**S.O. 87(E).**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/J & K-HP/75 (1), dated 23 September, 1975, the Election Commission hereby appoints the Officer or Officers of the Government as specified in column (2) of the Table below to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Jammu and Kashmir as contained in scheduled IX to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, and as specified in column (1) of the said Table against such Officer or Officers of Government in the performance of the functions of such Returning Officer —

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency.	Assistant Returning Officer or Officers.
(1)	(2)
1. Returning Officer of 1- Baramulla Parliamentary Constituency.	1. Assistant Commissioner (Revenue), Baramulla. 2. Assistant Commissioner (Development), Baramulla. 3. Sub-Divisional Magistrate, Handwara. 4. Sub-Divisional Officer, Tangdhar.
2. Returning Officer of 2- Srinagar Parliamentary Constituency.	1. Assistant Commissioner (Revenue), Srinagar. 2. Assistant Commissioner (General), Srinagar. 3. Executive Officer, Srinagar Municipality.
3. Returning Officer of 3- Anantnag Parliamentary Constituency.	1. Assistant Commissioner (Revenue), Anantnag. 2. Assistant Commissioner (General), Anantnag. 3. Collector Lane Requisition, Anantnag. 4. Sub-Divisional Magistrate, Shopian.
4. Returning Officer of 4- Ladakh Parliamentary Constituency.	1. Assistant Commissioner (Revenue), Ladakh. 2. Sub-Divisional Officer, Kargil. 3. Assistant Commissioner, Nubra. 4. Tehsildar, Zaskar.
5. Returning Officer of 5-Udhampur Parliamentary Constituency.	1. Assistant Commissioner (Development), Udhampur. 2. Assistant Commissioner (Development), Doda. 3. Assistant Commissioner (Development), Kathua. 4. Sub-Divisional Magistrate, Kishtwar. 5. Sub-Divisional Magistrate, Reasi.
6. Returning Officer of 6-Jammu Parliamentary Constituency.	1. Assistant Commissioner (Revenue), Jammu. 2. Executive Officer, Jammu Municipality. 3. Assistant Commissioner (Revenue), Poonch. 4. Collector Forest Recoveries, Jammu. 5. Assistant Commissioner (Revenue), Rajouri.

[No.434/J&amp;K-HP/77(1)]

**का. प्र. 87 (प्र).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त व्यवस्थाओं का प्रयोग करते हुए, तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/जम्मू-कश्मीर-खो० सं०/75 (1), तारीख 23 सितम्बर, 1975 को अधिकाृत करते हुए, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट जम्मू-कश्मीर सरकार के आफिसर या आफिसरों को, ऐसे सरकारी आफिसरों के सामने जम्मू कश्मीर राज्य के संसदीय

निर्वाचन-क्षेत्र, जैसा कि वह संसदीय तथा सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमित आदेश, 1976 की अनुसूची IX में अन्तर्निष्ठ है, तथा उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट है, के रिटनिंग आफिसर की उसके कर्तव्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटनिंग आफिसर के रूप में एतद्वारा नियुक्त करता है :—

### सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	सहायक रिटनिंग आफिसर
1	2
1. बारामूला संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1 सहायक आयुक्त राजस्व, बारामूला । 2 सहायक आयुक्त (विकास), बारामूला । 3 उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, हंदावाड़ा । 4 उप-खण्ड आफिसर, तंगछर ।
2. श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1 सहायक आयुक्त (राजस्व), श्रीनगर । 2 सहायक आयुक्त (साधारण), श्रीनगर । 3 कार्यकारी आफिसर, श्रीनगर नगर पालिका ।
3. अनन्तनाग संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1 सहायक आयुक्त, (राजस्व), अनन्तनाग । 2 सहायक आयुक्त, (साधारण), अनन्तनाग ॥ 3 कलक्टर, भूमिअर्जन, अनन्तनाग । 4 उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सोपिथान ।
4. लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1 सहायक आयुक्त, (राजस्व) लद्दाख । 2 उप-खण्ड आफिसर, कारगिल । 3 सहायक आयुक्त, नुब्रा । 4 तहसीलदार, जंस्कार ।
5. उधमपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1 सहायक आयुक्त, (विकास) उधमपुर । 2 सहायक आयुक्त, (विकास) डोडा । 3 सहायक आयुक्त, (विकास) कदुआ । 4 उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, विस्तवार । 5 उप-खण्ड मजिस्ट्रेट रियासी ।
6. जम्मू संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1 सहायक आयुक्त, (राजस्व) जम्मू । 2 कार्यकारी आफिसर, नगरपालिका जम्मू ॥ 3 सहायक आयुक्त, (राजस्व) पूंछ । 4 कलक्टर, वन वसूली, जम्मू । 5 सहायक आयुक्त (राजस्व) राजोरी ।

*New Delhi, the 1st February 1977*

**S.O. 88 (E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of its notification No. 434/KT/75(1) dated 15 March, 1975 the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Karnataka, the Officer of Government specified in column 2 of the Table below as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Karnataka as contained in Part A of Schedule C to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and specified in column 1 of the said Table against such Officer of Government

TABLE

Serial No. and name of the constituency	Returning Officer
1	2
1. Bidar (SC) . . . . .	Deputy Commissioner, Bidar District, Bidar.
2. Gulbarga . . . . .	Deputy Commissioner, Gulbarga District, Gulbarga.
3. Raichur . . . . .	Deputy Commissioner, Raichur District, Raichur.
4. Koppal . . . . .	Deputy Commissioner, Raichur District, Raichur.
5. Bellary . . . . .	Deputy Commissioner, Bellary District, Bellary.
6. Devangere . . . . .	Deputy Commissioner, Chitradurga District Chitradurga.
7. Chitradurga . . . . .	Deputy Commissioner, Chitradurga District Chitradurga.
8. Tumkur . . . . .	Deputy Commissioner, Tumkur District, Tumkur.
9. Chikballapur . . . . .	Deputy Commissioner, Kolar District, Kolar.
10. Kolar (SC) . . . . .	Deputy Commissioner, Kolar District, Kolar.
11. Kanakapura . . . . .	Deputy Commissioner, Bangalore District, Bangalore.
12. Bangalore North . . . . .	Commissioner, Corporation of the City of Bangalore, Bangalore.
13. Bangalore South . . . . .	Commissioner, Corporation of the City of Bangalore, Bangalore.
14. Mandya . . . . .	Deputy Commissioner, Mandya District, Mandya.
15. Chamaraajanagar (SC) . . . . .	Deputy Commissioner, Mysore District, Mysore.
16. Mysore . . . . .	Deputy Commissioner, Mysore District, Mysore.
17. Mangalore . . . . .	Deputy Commissioner, South Kanara District, Mangalore.
18. Udipi . . . . .	Deputy Commissioner, South Kanara District, Mangalore.
19. Hassan . . . . .	Deputy Commissioner, Hassan District, Hassan.
20. Chikmagalur . . . . .	Deputy Commissioner, Chikmagalur District, Chikmagalur.
21. Shimoga . . . . .	Deputy Commissioner, Shimoga District, Shimoga.
22. Kanara . . . . .	Deputy Commissioner, North Kanara District Karwar.
23. Dharwar South . . . . .	Deputy Commissioner, Dharwar District, Dharwar.
24. Dharwar North . . . . .	Deputy Commissioner, Dharwar District, Dharwar.
25. Belgaum . . . . .	Deputy Commissioner, Belgaum District, Belgaum.

1

2

26. Chikkodi (SC) . . . . .	Deputy Commissioner, Belgaum District, Belgaum.
27. Bagalkot . . . . .	Deputy Commissioner, Bijapur District, Bijapur.
28. Bijapur . . . . .	Deputy Commissioner, Bijapur District, Bijapur.

[No. 434/KT/77(1)]

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1977

का० आ० 88 (अ)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबंधों के अनुसरण में, तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/कर्मा 75(1), तारीख 15 मार्च, 1975 को अधिकांश करते हुए निर्वाचन आयोग, कर्नाटक सरकार के परामर्श से नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर, को ऐसे सरकारी अफिसर के सामने कर्नाटक राज्य के संसदीय-क्षेत्र जैसा कि वह संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 10 के भाग क में अन्तर्बिष्ट है और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट है के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद् द्वारा पदाभिहित करता है:—

## सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं० तथा नाम	रिटर्निंग आफिसर
1	2
1. बीदर (आ० जा०)	उपायुक्त, बीदर जिला, बीदर।
2. गुलबर्गा	उपायुक्त, गुलबर्गा जिला, गुलबर्गा।
3. रायचूर	उपायुक्त, रायचूर जिला, रायचूर।
4. कोप्पल	उपायुक्त, रायचूर जिला, रायचूर।
5. बेल्तारी	उपायुक्त, बेल्तारी जिला, बेल्तारी।
6. दावन्गोरे	उपायुक्त, चित्रदुर्ग जिला, चित्रदुर्ग।
7. चित्रदुर्ग	उपायुक्त, चित्रदुर्ग जिला, चित्रदुर्ग।
8. टुमकूर	उपायुक्त, टुमकूर जिला, टुमकूर।
9. चिकबल्लापुर	उपायुक्त, कोलार जिला, कोलार।
10. कोलार (आ० जा०)	उपायुक्त, कोलार जिला, कोलार।
11. कनकपुरा	उपायुक्त, बंगलूर जिला, बंगलूर।
12. बंगलूर उत्तरी	उपायुक्त, बंगलूर नगर निगम, बंगलूर।
13. बंगलूर दक्षिणी	उपायुक्त, बंगलूर नगर निगम, बंगलूर।
14. मांड्या	उपायुक्त, मांड्या जिला, मांड्या।



1	2
15. चामराज नगर (भा० जा०)	उपायुक्त, मैसूर जिला, मैसूर।
16. मैसूर	उपायुक्त, मैसूर जिला, मैसूर।
17. मंगलूर	उपायुक्त, दक्षिण कनारा जिला, मंगलूर।
18. उदीपी	उपायुक्त, दक्षिणकनारा जिला, मंगलूर।
19. हसन	उपायुक्त, हसन जिला, हसन।
20. चिकमगलूर	उपायुक्त, चिकमगलूर जिला, चिकमगलूर।
21. शिमोगा	उपायुक्त, शिमोगा जिला, शिमोगा।
22. कनारा	उपायुक्त, उत्तर कनारा जिला, कारवाड़।
23. धारवाड़ दक्षिणी	उपायुक्त, धारवाड़ जिला, धारवाड़।
24. धारवाड़ उत्तरी	उपायुक्त, धारवाड़ जिला, धारवाड़।
25. बेलगाम	उपायुक्त, बेलगाम जिला, बेलगाम।
26. चिक्कोडी (भा० जा०)	उपायुक्त, बेलगाम जिला, बेलगाम।
27. बीजलकोट	उपायुक्त, बीजापुर जिला, बीजापुर।
28. बीजापुर	उपायुक्त, बीजापुर जिला, बीजापुर।

[१० 494/का१०/77 (1)]

S.O. 89(B).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of its notification No. 434/KT/75(2), dated 15 March, 1975, the Election Commission hereby appoints each of the officers of Government as specified in column 2 of the Table below as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Karnataka as contained in Part A of Schedule X in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and specified in column 1 of the said Table against such officers of Government in the performance of the functions of such Returning Officer:—

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
1. Returning Officer of 1-Bidar (SC) Parliamentary Constituency.	1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Bidar District, Bidar. 2. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Gulbarga District, Gulbarga. 3. Food and Civil Supplies Assistant to the Deputy Commissioner, Bidar District, Bidar. 4. Assistant Commissioner, Bidar Sub-division, Bidar. 5. District Planning Officer, Bidar. 6. Assistant Commissioner, Gulbarga Sub-division, Gulbarga.

1

2

- |   |   |
|---|---|
| <p>2. Returning Officer of 2-Gulbarga Parliamentary Constituency.</p> <p>3. Returning Officer of 3-Raichur Parliamentary Constituency.</p> <p>4. Returning officer of 4-Koppal Parliamentary Constituency.</p> <p>5. Returning Officer of 5-Bellary parliamentary Constituency</p> <p>6. Returning Officer of 6-Davangere parliamentary Constituency.</p> | <p>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Gulbarga District, Gulbarga.</p> <p>2. Assistant Commissioner, Gulbarga Sub-Division, Gulbarga.</p> <p>3. Assistant Commissioner, Yadgir Sub-Division, Yadgir.</p> <p>4. Assistant Commissioner, Sedum Sub-Division, Sedum.</p> <p>5. Municipal Commissioner, Gulbarga.</p> <p>6. Food and Civil Supplies Assistant to the Deputy Commissioner, Gulbarga District, Gulbarga.</p> <p>7. Forest Settlement Officer, Gulbarga.</p> <p>8. District Development Assistant to the Deputy Commissioner, Gulbarga District, Gulbarga.</p> <p>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Raichur District, Raichur.</p> <p>2. Headquarters Assistant to Deputy Commissioner, Gulbarga District, Gulbarga.</p> <p>3. Assistant Commissioner, Yadgir Sub-Division, Yadgir.</p> <p>4. Inspector of Stamps, Gulbarga.</p> <p>5. Assistant Commissioner, Raichur Sub-Division, Raichur.</p> <p>6. Assistant Commissioner, Lingsugur Sub-Division, Lingsugur.</p> <p>7. Betterment Levy Officer, No. II Mandli.</p> <p>1. Headquarters Assistant to Deputy Commissioner, Raichur District, Raichur.</p> <p>2. Headquarters Assistant to Deputy Commissioner, Bellary District, Bellary.</p> <p>3. Headquarters Assistant to Deputy Commissioner, Dharwar District Dharwar.</p> <p>4. Assistant Commissioner, Lingsugur sub-Division, Lingsugur.</p> <p>5. Assistant Commissioner, Koppal Sub-Division Koppal.</p> <p>6. Betterment Levy officer, Gangavathi.</p> <p>7. Assistant Commissioner, Hospet Sub-Division, Hospet.</p> <p>8. Assistant Commissioner, Gadag Sub-Division Gadag.</p> <p>9. Betterment Levy Officer No. II Manvi.</p> <p>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Bellary District, Bellary.</p> <p>2. Assistant Commissioner, Bellary Sub-Division, Bellary.</p> <p>3. Food and Civil Supplies Assistant to the Deputy Commissioner, Bellary District, Bellary.</p> <p>4. Assistant Commissioner, Hospet Sub-Division, Hospet.</p> <p>5. District Development Assistant to the Deputy Commissioner, Bellary District, Bellary.</p> <p>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Chitradurga District, Chitradurga.</p> <p>2. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Shimoga District, Shimoga.</p> <p>3. Assistant Commissioner, Davangere Sub-Division, Davangere.</p> <p>4. Municipal Commissioner, Davangere.</p> |
|---|---|

I

2

- |  |   |
|--|---|
| <p>7. Returning Officer of 7-Chitradurga parliamentary Constituency</p> <p>8. Returning Officer of 8-Tumkur Parliamentary Constituency.</p> <p>9. Returning Officer of 9-Chikballapur Parliamentary Constituency</p> <p>10. Returning Officer of 10-Kolar (SC) Parliamentary Constituency</p> <p>11. Returning officer of 11-Kanakapura Parliamentary Constituency</p> | <p>5. Food and Civil supplies Assistant to the Deputy Commissioner, Chitradurga District, Chitradurga.</p> <p>6. Special Land Acquisition Officer, Davargere.</p> <p>7. Assistant Commissioner, Shimoga Sub-Division, Shimoga.</p> <p>8. Betterment Levy officer, Honnali.</p> <p>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Chitradurga District Chitradurga.</p> <p>2. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Tumkur District, Tumkur,</p> <p>3. Assistant Commissioner, Chitradurga Sub-Division, Chitradurga.</p> <p>4. Special Land Acquisition Officer, Davargere.</p> <p>5. District Development Assistant to the Deputy Commissioner, Chitradurga District, Chitradurga.</p> <p>6. District Development Assistant to the Deputy Commissioner, Tumkur District, Tumkur.</p> <p>7. Assistant Commissioner, Madhugiri Sub-Division, Madhugiri.</p> <p>1. Assistant Commissioner, Tumkur Sub-Division, Tumkur,</p> <p>2. Assistant Commissioner, Tiptur Sub-Division, Tiptur.</p> <p>3. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Tumkur District, Tumkur</p> <p>4. Food and Civil Supplies Assistant to the Deputy Commissioner, Tumkur District, Tumkur.</p> <p>5. Commissioner City Municipal Council Tumkur.</p> <p>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Kolar District Kolar</p> <p>2. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Bangalore District, Bangalore.</p> <p>3. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Tumkur, District, Tumkur.</p> <p>4. Assistant Commissioner, Chikballapur Sub-Division, Chikballapur</p> <p>5. Assistant Commissioner, Doddaballapur Sub-Division, Bangalore.</p> <p>6. District Development Assistant to the Deputy Commissioner, Tumkur District, Tumkur.</p> <p>7. Food and Civil Supplies Assistant to the Deputy Commissioner, Kolar District, Kolar.</p> <p>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Kolar District, Kolar.</p> <p>2. Assistant Commissioner, Kolar Sub-Division, Kolar</p> <p>3. District Development Assistant to the Deputy Commissioner, Kolar District, Kolar.</p> <p>4. Project Evaluation officer, Drought Prone Area Development Authority, Kolar.</p> <p>5. Special Assistant Commissioner for Land Reforms, Kolar</p> <p>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Bangalore District, Bangalore.</p> <p>2. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Mandya District, Mandya.</p> <p>3. Assistant Commissioner Ramanagaram Sub-Division, Ramanagaram.</p> |
|--|---|

I

2

- 
- |   |  |
|---|--|
| <p>12. Returning Officer of 12-Bangalore North Parliamentary Constituency.</p> <p>13. Returning Officer of 13-Bangalore South Parliamentary Constituency</p> <p>14. Returning Officer of 14-Mandya Parliamentary Constituency.</p> <p>15. Returning Officer of 15-Chamarajanagar (SC) Parliamentary Constituency</p> <p>16. Returning Officer of 16-Mysore Parliamentary Constituency.</p> <p>17. Returning Officer of 17-Mangalore Parliamentary Constituency.</p> | <p>4. Special Land Acquisition Officer, Bangalore.</p> <p>5. District Development Assistant to the Deputy Commissioner, Bangalore District, Bangalore.</p> <p>6. Food and Civil Supplies Assistant to the Deputy Commissioner, Bangalore District, Bangalore.</p> <p>7. Special Land Acquisition Officer Mandya.</p> <p>1. Administrative Officer Corporation of the City of Bangalore, Bangalore.</p> <p>2. Headquarters Assistant of to the Deputy Commissioner, Bangalore District, Bangalore.</p> <p>3. Special Land Acquisition Officer Railways Bangalore.</p> <p>4. Assistant Commissioner, Bangalore Sub-division, Bangalore.</p> <p>1. Deputy Commissioner (Administration), Corporation of the City of Bangalore, Bangalore.</p> <p>2. Deputy Commissioner (Development) Corporation of the City of Bangalore, Bangalore.</p> <p>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Mandya District Mandya.</p> <p>2. Assistant Commissioner, Mandya Sub-division, Mandya.</p> <p>3. Assistant Commissioner, Pandavapura Sub-division, Pandavapura.</p> <p>4. Food and Civil Supplies Assistant to Deputy Commissioner, Mandya District, Mandya.</p> <p>5. District Development Assistant to the Deputy Commissioner, Mandya District, Mandya.</p> <p>6. Special Land Acquisition Officer, Mandya.</p> <p>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Mysore District Mysore.</p> <p>2. Assistant Commissioner, Mysore Sub-division, Mysore.</p> <p>3. Food and Civil Supplies Assistant to the Deputy Commissioner, Mysore District, Mysore.</p> <p>4. Assistant Commissioner, Nanjaragd Sub-division Nanjaragd.</p> <p>5. Special Assistant Commissioner for disposal for Darkhast, Mysore.</p> <p>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Mysore District, Mysore.</p> <p>2. Municipal Commissioner, City Municipal Council, Mysore.</p> <p>3. Special Land Acquisition officer, Mysore.</p> <p>4. Additional Special Assistant Commissioner for disposal of Darkhast, Hunsur.</p> <p>5. Assistant Commissioner, Hunsur Sub-division Hunsur.</p> <p>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, South Kanara District, Mangalore.</p> <p>2. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Coorg District, Mercara.</p> <p>3. Assistant Commissioner, Mercara Sub-division Mercara.</p> <p>4. Food and Civil Supplies Assistant to the Deputy Commissioner, Coorg District, Mercara.</p> <p>5. District Development Assistant to the Deputy Commissioner, Coorg District, Mercara.</p> |
|---|--|
-

1

2

- |   |  |
|---|--|
|   | 6. Assistant Commissioner, Mangalore Sub-division, Mangalore.                                      |
|   | 7. Assistant Commissioner, Puttur Sub-division, Puttur.  |
|   | 8. Commissioner, City Municipality Mangalore.  |
|   | 9. District Development Assistant to the Deputy Commissioner, South Kanara District, Mangalore.    |
| 18. Returning Officer of 18-Udupi Parliamentary Constituency.       | 1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, South Kanara District Mangalore.             |
|   | 2. Assistant Commissioner, Mangalore Sub-division, Mangalore.                                      |
|   | 3. Assistant Commissioner, Coondapur Sub-division, Coondapur.                                      |
|   | 4. Forest Settlement Officer, Mangalore.   |
|   | 5. District Development Assistant to the Deputy Commissioner, South Kanara District, Mangalore.    |
|   | 6. Food and Civil Supplies Assistant to the Deputy Commissioner, South Kanara District, Mangalore. |
| 19. Returning Officer of 19-Hassan Parliamentary Constituency.      | 1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Hassan District, Hassan.                     |
|   | 2. Assistant Commissioner, Hassan Sub-Division, Hassan.  |
|   | 3. Assistant Commissioner, Sakleshpur Sub-division Sakleshpur.                                     |
|   | 4. Special Land Acquisition Officer, H.R.P. (Rehabilitation), Hassan.                              |
|   | 5. Special Land Acquisition Officer (Channel), Halebarga.  |
| 20. Returning Officer of 20-Chikmagalur Parliamentary Constituency. | 1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Chikmagalur District, Chikmagalur.           |
|   | 2. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, South Kanara District, Mangalore.            |
|   | 3. Assistant Commissioner, Chikmagalur Sub-division, Chikmagalur.                                  |
|   | 4. Assistant Commissioner, Tarikere Sub-division, Tarikere.  |
|   | 5. District Development Assistant to the Deputy Commissioner, Chikmagalur District, Chikmagalur.   |
|   | 6. Superintendent of Excise, Mangalore.  |
|   | 7. Forest Settlement Officer, Mangalore.   |
|   | 8. Food Assistant to the Deputy Commissioner, Chikmagalur District, Chikmagalur.                   |
| 21. Returning Officer of 21-Shimoga Parliamentary Constituency.     | 1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Shimoga District, Shimoga.                   |
|   | 2. Assistant Commissioner, Shimoga Sub-division, Shimoga.  |
|   | 3. Special Assistant Commissioner for Land Reforms, Shimoga.                                       |
|   | 4. Food and Civil Supplies Assistant to the Deputy Commissioner, Shimoga District, Shimoga.        |
|   | 5. Betterment Levy Officer Shimoga.  |
|   | 6. Assistant Commissioner, Sagar Sub-division, Sagar.  |
|   | 7. District Development Assistant to the Deputy Commissioner, Shimoga District Shimoga.            |

I

2

- |  |  |
|--|--|
| <p>22. Returning Officer of 22-Kanara Parliamentary Constituency.</p>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Head quarters Assistant to the Deputy Commissioner, North Kanara District, Karwar.</li> <li>2. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Belgaum District, Belgaum.</li> <li>3. Assistant Commissioner, Sirsi Sub-division, Sirsi.</li> <li>4. Assistant Commissioner, Karwar Sub-division, Karwar.</li> <li>5. Assistant Commissioner, Kumta Sub-division, Kumta.</li> <li>6. Assistant Commissioner, Bailhongal Sub-division, Bailhongal.</li> <li>7. Food and Civil Supplies Assistant to the Deputy Commissioner, Belgaum District, Belgaum.</li> </ol> |
| <p>23. Returning Officer of 23-Dharwar South Parliamentary Constituency.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Dharwar District, Dharwar.</li> <li>2. Assistant Commissioner, Savanur Sub-division, Savanur.</li> <li>3. District Development Assistant to the Deputy Commissioner, Dharwar District, Dharwar.</li> <li>4. Assistant Commissioner, Haveri Sub-division, Haveri.</li> <li>5. Food and Civil Supplies Assistant to the Deputy Commissioner, Dharwar District, Dharwar.</li> </ol>  |
| <p>24. Returning Officer of 24-Dharwar North Parliamentary Constituency.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Dharwar District, Dharwar.</li> <li>2. Assistant Commissioner, Dharwar Sub-division, Dharwar.</li> <li>3. Commissioner, Hubli-Dharwar Municipal Corporation, Hubli.</li> <li>4. Rationing officer, Gadag.</li> <li>5. Credit Planning officer, Drought prone Area Development Authority, Dharwar.</li> <li>6. Rationing officer, Hubli Dharwar Municipal Corporation Area, Hubli.</li> </ol>  |
| <p>25. Returning Officer of 25-Belgaum Parliamentary Constituency.</p>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Belgaum District, Belgaum.</li> <li>2. Assistant Commissioner, Bailhongal Sub-division, Bailhongal.</li> <li>3. Assistant Commissioner, Belgaum Sub-division, Belgaum.</li> <li>4. Special Land Acquisition Officer I Malaprabha Project, Soudatti.</li> <li>5. District Development Assistant to the Deputy Commissioner, Belgaum District, Belgaum.</li> <li>6. Food and Civil Supplies Assistant to the Deputy Commissioner, Belgaum District, Belgaum.</li> </ol>   |
| <p>26. Returning Officer of 26-Chikkodi (SC) Parliamentary Constituency.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Belgaum District, Belgaum.</li> <li>2. Assistant Commissioner, Chikkodi Sub-division, Chikkodi.</li> <li>3. Assistant Commissioner, Belgaum Sub-division, Belgaum.</li> <li>4. Special Land Acquisition Officer, Hidkal-Dam Project, Hidkal.</li> <li>5. Administrator, Town Municipal Council, Nippam.</li> <li>6. Betterment Levy Officer, Ghataprabha Project Area, Belgaum.</li> </ol>  |

I

2

- |  |  |
|--|--|
| <p>27. Returning Officer of 27-Bagalkot Parliamentary Constituency</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Bijapur District, Bijapur.</li> <li>2. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Dharwar District, Dharwar.</li> <li>3. Assistant Commissioner, Gadag Sub-division Gadag.</li> <li>4. Assistant Commissioner, Jamkhandi Sub-division, Jamkhandi.</li> <li>5. Assistant Commissioner, Bagalkot Sub-division, Bagalkot.</li> <li>6. Food and Civil Supplies Assistant to the Deputy Commissioner, Bijapur District Bijapur.</li> <li>7. Betterment Levy Officer Ghataprabha Project, Jamkhandi.</li> </ol> |
| <p>28. Returning Officer of 28-Bijapur Parliamentary Constituency.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Headquarters Assistant to the Deputy Commissioner, Bijapur District, Bijapur.</li> <li>2. Assistant Commissioner, Bijapur Sub-division, Bijapur.</li> <li>3. Assistant Commissioner, Indi Sub-division Indi.</li> <li>4. Special Land Acquisition Officer, Upper Krishna Project, Alimatti.</li> <li>5. District Development Assistant to the Deputy Commissioner, Bijapur District, Bijapur.</li> </ol>   |

[No. 434/KT/77 (2)]

**क्र० जा० 89 (अ).—**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/कन०/75(2), तारीख 15 मार्च, 1975 को अधिकांश करते हुए, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट कर्नाटक सरकार के प्रत्येक आफिसर को, ऐसे सरकारी आफिसर के सामने कर्नाटक राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र जैसा कि वह संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची-10 के भाग क में अन्तर्लिखित है और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट है, के रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा नियुक्त करता है —

### सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर

सहायक रिटर्निंग आफिसर

1

2

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1-बीदर (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, बीदर जिला, बीदर।</li> <li>2. उपायुक्त के मुख्यालय, सहायक, गुलबर्गा जिला, गुलबर्गा।</li> </ol> |
|---|---|

1

2

3. उपायुक्त के खाद्य और सिविल आपूर्ति सहायक, जिला बीदर, बीदर ।
  4. सहायक आयुक्त, बीदर उपखण्ड, बीदर ।
  5. जिला योजना आफिसर, जिला बीदर, बीदर ।
  6. सहायक आयुक्त, गुरुबर्गा उपखण्ड, गुरुबर्गा ।
2. 2—गुलबर्गा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।<sup>a</sup>
1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला गुलबर्गा, गुलबर्गा ।
  2. सहायक आयुक्त, गुलबर्गा उपखण्ड, गुलबर्गा ।
  3. सहायक आयुक्त, यादगिर उपखण्ड, यादगिर ।
  4. सहायक आयुक्त, सेडम उपखण्ड, सेडम ।
  5. नगरपालिका आयुक्त, गुलबर्गा ।
  6. उपायुक्त के खाद्य और सिविल आपूर्ति सहायक, गुलबर्गा जिला, गुलबर्गा ।
  7. धन बन्दोबस्त अधिकारी, गुलबर्गा ।
  8. उपायुक्त के जिला विकास सहायक, गुलबर्गा जिला, गुलबर्गा ।
3. 3—रायचूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला रायचूर, रायचूर ।
  2. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, गुलबर्गा जिला, गुलबर्गा ।
  3. सहायक आयुक्त, यादगिर उपखण्ड, यादगिर ।
  4. स्टाम्प निरीक्षक, गुलबर्गा ।
  5. सहायक आयुक्त, रायचूर उपखण्ड, रायचूर ।
  6. सहायक आयुक्त, लिंगसुगुर उपखण्ड, लिंगसुगुर ।
  7. समुन्नति कर अधिकारी, स० II, मानवी ।
4. 4—कोप्पल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला रायचूर, रायचूर ।
  2. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला बेल्लारी, बेल्लारी ।
  3. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला धारवाड़, धारवाड़ ।
  4. सहायक आयुक्त, लिंगसुगुर उपखण्ड, लिंगसुगुर ।
  5. सहायक आयुक्त, कोप्पल उपखण्ड, कोप्पल ।



1

2

- 
- |   |   |
|---|---|
|   | 6. समुन्नति कर अधिकारी, बंगावली ।   |
|   | 7. सहायक आयुक्त, होस्पेट उपखण्ड, होस्पेट ।                                  |
|   | 8. सहायक आयुक्त, गदाग उपखण्ड, गदाग ।  |
|   | 9. समुन्नति कर अधिकारी, सं० II, मानवी ।                                     |
| 5. 5-बेल्लारी संघीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।   | 1. उपायुक्त के मुख्यालय, सहायक, जिला बेल्लारी, बेल्लारी ।                   |
|   | 2. सहायक आयुक्त, बेल्लारी उपखण्ड, बेल्लारी ।                                |
|   | 3. उपायुक्त के खाद्य तथा सिविल आपूर्ति सहायक, बेल्लारी जिला, बेल्लारी ।     |
|   | 4. सहायक आयुक्त, होस्पेट उपखण्ड, होस्पेट ।                                  |
|   | 5. उपायुक्त के जिला विकास सहायक, जिला बेल्लारी, बेल्लारी ।                  |
| 6. 6-दावन्गेरे संघीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।  | 1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग ।                |
|   | 2. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला शिमोगा, शिमोगा ।                        |
|   | 3. सहायक आयुक्त, दावन्गेरे उपखण्ड, दावन्गेरे ।                              |
|   | 4. नगरपालिका आयुक्त, दावन्गेरे ।  |
|   | 5. उपायुक्त के खाद्य तथा सिविल आपूर्ति सहायक, जिला चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग । |
|   | 6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, दावन्गेरे ।                                      |
|   | 7. सहायक आयुक्त, शिमोगा उपखण्ड, शिमोगा ।                                    |
|   | 8. समुन्नति कर अधिकारी, होन्नाली ।  |
| 7. 7-चित्रदुर्ग संघीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर । | 1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग ।                |
|   | 2. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला टुमकुर, टुमकुर ।                        |
|   | 3. सहायक आयुक्त, चित्रदुर्ग उपखण्ड, चित्रदुर्ग ।                            |
|   | 4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, दावन्गेरे ।                                      |
|   | 5. उपायुक्त के जिला विकास सहायक, जिला चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग ।              |
|   | 6. उपायुक्त के जिला विकास सहायक, टुमकुर जिला, टुमकुर ।                      |
|   | 7. सहायक आयुक्त, मधुगिर उपखण्ड, मधुगिर ।                                    |
-

1

2

8. 8—टुमकुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

1. सहायक आयुक्त, टुमकुर उपखण्ड, टुमकुर ।
2. सहायक आयुक्त, तिवतुर उपखण्ड, तिवतुर ।
3. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला टुमकुर, टुमकुर ।
4. उपायुक्त के खाद्य तथा सिविल आपूर्ति सहायक, जिला टुमकुर, टुमकुर ।
5. आयुक्त, नगरपालिका परिषद्, टुमकुर ।

9. 9—चिक्बल्लापुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर

1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला कोलार, कोलार ।
2. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला बंगलौर बंगलौर ।
3. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, टुमकुर जिला, टुमकुर ।
4. सहायक आयुक्त, चिक्बल्लापुर उपखण्ड, चिक्बल्लापुर ।
5. सहायक आयुक्त, दोडाडाबल्लापुर उपखण्ड, बंगलौर ।
6. उपायुक्त के जिला विवास सहायक, जिला टुमकुर, टुमकुर ।
7. उपायुक्त के खाद्य तथा सिविल आपूर्ति सहायक, जिला कोलार, कोलार ।

10. 10—कोलार (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला कोलार, कोलार ।
2. सहायक आयुक्त, कोलार उपखण्ड, कोलार ।
3. उपायुक्त के जिला विकास सहायक, जिला कोलार, कोलार ।
4. परियोजना मूल्यांकन सूबाप्रस्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कोलार ।
5. विशेष सहायक आयुक्त, भूमि सुधार, कोलार ।

11. 11.—कनकपुरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला बंगलौर, बंगलौर ।

1

2

- |  |  |
|--|--|
|  | 2. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला मांड्या मांड्या ।<br>3. सहायक आयुक्त, रामनगरम उपखण्ड, रामनगरम ।<br>4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, बंगलौर ।<br>5. उपायुक्त के जिला विकास सहायक, जिला बंगलौर, बंगलौर ।<br>6. उपायुक्त के खाद्य तथा सिविल आपूर्ति सहायक, जिला बंगलौर, बंगलौर ।<br>7. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, मांड्या ।    |
| 12. 12.-बंगलौर उत्तरी मंडलीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर । | 1. प्रशासनिक आफिसर बंगलौर नगर निगम, बंगलौर ।<br>2. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला बंगलौर, बंगलौर ।<br>3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, रेलवे बंगलौर ।<br>4. सहायक आयुक्त, बंगलौर उपखण्ड, बंगलौर ।  |
| 13. 13.-बंगलौर दक्षिण मंडलीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर । | 1. उपायुक्त (प्रशासन), बंगलौर नगर निगम बंगलौर ।<br>2. उपायुक्त (विकास) बंगलौर नगर निगम, बंगलौर ।   |
| 14. 14 -मांड्या मंडलीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।       | 1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला मांड्या, मांड्या<br>2. सहायक आयुक्त, मांड्या उपखण्ड, मांड्या ।<br>3. सहायक आयुक्त, पांडवपुर, उपखण्ड, पांडवपुर ।<br>4. उपायुक्त के खाद्य तथा सिविल आपूर्ति सहायक, जिला मांड्या ।<br>5. उपायुक्त के जिला विकास सहायक जिला मांड्या, मांड्या ।<br>6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, मांड्या । |

1

2

15. 15.-बामराजनगर (ग्र० जा०) संसदीय  
निर्वाचन-क्षेत्र कार्टनिंग आफिसर

1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला मैसूर,  
मैसूर।
2. सहायक आयुक्त, मैसूर उपखण्ड, मैसूर।
3. उपायुक्त के खास तथा सिविल आपूर्ति  
सहायक, जिला मैसूर, मैसूर।
4. सहायक आयुक्त, नानजनगुड उपखण्ड,  
नानजनगुड।
5. विशेष सहायक आयुक्त, बरबास्त निपटान,  
मैसूर।

16. 16.-मैसूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का  
रिटनिंग आफिसर।

1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला मैसूर,  
मैसूर।
2. नगरपालिका आयुक्त, शहर नगरपालिका  
परिषद, मैसूर।
3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, मैसूर।
4. अतिरिक्त विशेष सहायक आयुक्त, बरबास्त  
निपटान, हुतसूर।
5. सहायक आयुक्त, हुतसूर उपखण्ड हुतसूर।

17. 17.-मंगलौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का  
रिटनिंग आफिसर

1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला दक्षिण  
कनारा, मंगलौर।
2. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला कुर्ग,  
मेरकारा।
3. सहायक आयुक्त, मेरकारा उपखण्ड,  
मेरकारा।
4. उपायुक्त के खास तथा सिविल आपूर्ति  
सहायक, जिला कुर्ग, मेरकारा।
5. उपायुक्त के जिला विकास सहायक, जिला  
कुर्ग, मेरकारा।
6. सहायक आयुक्त, मंगलौर उपखण्ड, मंगलौर।
7. सहायक आयुक्त, पुत्तूर उपखण्ड, पुत्तूर।
8. आयुक्त शहर नगरपालिका, मंगलौर।
9. उपायुक्त के जिला विकास सहायक, जिला  
दक्षिण कनारा, मंगलौर।

1

2

18. 18-उदीपी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का  
रिटनिंग आफिसर ।

1. उपायुक्त, के मुख्यालय सहायक, दक्षिण कनारा, मंगलौर ।
2. सहायक आयुक्त, मंगलौर उपखंड, मंगलौर ।
3. सहायक आयुक्त, कूडापुर उपखंड, कूडापुर ।
4. वन बन्दोबस्त अधिकारी, मंगलौर ।
5. उपायुक्त के जिला विकास सहायक, जिला दक्षिण कनारा, मंगलौर ।
6. उपायुक्त के खाद्य तथा सिविल आपूर्ति सहायक, जिला दक्षिण कनारा, मंगलौर ।

19. 19-हसन संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र  
का रिटनिंग आफिसर ।

1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला हसन, हसन ।
2. सहायक आयुक्त, हसन उपखंड, हसन ।
3. सहायक आयुक्त, मकलेशपुर उपखंड, सकलेशपुर ।
4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, एच० आर० पी० (पुनर्वास), हसन ।
5. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (बेतल), होलेनरसीपुर ।

20. 20-चिकमगलूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का  
रिटनिंग आफिसर ।

1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला चिकमगलूर, चिकमगलूर ।
2. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला दक्षिण कनारा, मंगलौर ।
3. सहायक आयुक्त, चिकमगलूर उपखंड, चिकमगलूर ।
4. सहायक आयुक्त, तारीकेरे उपखंड, तारीकेरे ।
5. उपायुक्त के जिला विकास सहायक, जिला चिकमगलूर, चिकमगलूर ।
6. उत्पाद शुल्क अधीक्षक, मंगलौर ।
7. वन बन्दोबस्त अधिकारी, मंगलौर ।
8. उपायुक्त के खाद्य सहायक, जिला चिकमगलूर, चिकमगलूर ।

21. 21-शिमोगा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का  
रिटनिंग आफिसर

1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला शिमोगा, शिमोगा ।
2. सहायक आयुक्त, शिमोगा उपखंड, शिमोगा ।

1

2

3. विशेष सहायक आयुक्त, भूमि सुधार, शिमोगा ।
  4. उपायुक्त के खाद्य तथा सिविल आपूर्ति सहायक, जिला शिमोगा, शिमोगा ।
  5. समुचित कर अधिकारी, शिमोगा ।
  6. सहायक आयुक्त, सागर उपखंड, सागर ।
  7. उपायुक्त के जिला विकास सहायक, जिला शिमोगा, शिमोगा ।
22. 22-कनारा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला उत्तर कनारा, कारवाड़ ।
  2. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला बेलगाम, बेलगाम ।
  3. सहायक आयुक्त, सिरसी उपखंड, सिरसी ।
  4. सहायक, आयुक्त, कारवाड़ उपखंड, कारवाड़ ।
  5. सहायक आयुक्त, कुमटा उपखंड, कुमटा ।
  6. सहायक आयुक्त, बेलहोंगल उपखंड, बेलहोंगल ।
  7. उपायुक्त के खाद्य तथा सिविल आपूर्ति सहायक, जिला बेलगाम, बेलगाम ।
23. 23-धारवाड़ दक्षिणी गणदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला धारवाड़ धारवाड़ ।
  2. सहायक आयुक्त, सवानूर उपखंड, सवानूर ।
  3. उपायुक्त के जिला विकास सहायक, जिला धारवाड़, धारवाड़ ।
  4. सहायक आयुक्त, हावेरी उपखंड हावेरी ।
  5. उपायुक्त के खाद्य तथा सिविल आपूर्ति सहायक, जिला धारवाड़, धारवाड़ ।
24. 24-धारवाड़ उत्तरी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर
1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला धारवाड़, धारवाड़ ।
  2. सहायक आयुक्त, धारवाड़ उपखंड, धारवाड़ ।
  3. आयुक्त, हुबली धारवाड़ नगर निगम, हुबली ।
  4. राशननिंग आफिसर, गदाग ।
  5. क्रेडिट प्लानिंग आफिसर, सूबाग्रस्त क्षेत्र विकास प्राधिकारी, धारवाड़ ।

1

2

25. बेलगाम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर
- राष्ट्रिय आधिकार, हुबली धारवाड नगर निगम क्षेत्र, हुबली ।
  - उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला बेलगाम, बेलगाम ।
  - सहायक आयुक्त, बेलहोंगल उपखण्ड, बेलहोंगल ।
  - सहायक आयुक्त, बेलगाम उपखण्ड, बेलगाम ।
  - विशेष भूमि अर्जन आधिकार (1), माला-प्रभा परियोजना, मोदली ।
  - उपायुक्त के जिला विकास सहायक, जिला बेलगाम, बेलगाम ।
  - उपायुक्त के खास तथा सिविल आपूर्ति सहायक, जिला बेलगाम, बेलगाम ।
26. चिक्कोडी (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
- उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला बेलगाम, बेलगाम ।
  - सहायक आयुक्त, चिक्कोडी उपखण्ड, चिक्कोडी ।
  - सहायक आयुक्त, बेलगाम उपखण्ड, बेलगाम ।
  - विशेष भूमि अर्जन आधिकार हिडकल बाघ परियोजना हिडकल ।
  - प्रशासक, नगर पालिका परिषद निप्यानी ।
  - समुपनिवेश अधिकारी, घाटप्रभा परियोजना क्षेत्र, बेलगाम ।
27. बागलकोट संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
- उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला बीजापुर, बीजापुर ।
  - उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला धारवाड, धारवाड ।
  - सहायक आयुक्त, गदाग उपखण्ड, गदाग ।
  - सहायक आयुक्त, जामखण्डी उपखण्ड, जामखण्डी ।
  - सहायक आयुक्त, बागलकोट उपखण्ड, बागलकोट ।
  - उपायुक्त के खास तथा सिविल आपूर्ति सहायक, जिला बीजापुर, बीजापुर ।
  - समुपनिवेश अधिकारी, घाटप्रभा परियोजना, जामखण्डी ।

1	2
28. बीजापुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	1. उपायुक्त के मुख्यालय सहायक, जिला बीजापुर, बीजापुर । 2. सहायक आयुक्त, बीजापुर उपखण्ड, बीजापुर । 3. सहायक आयुक्त, ईडी उपखण्ड, ईडी । 4. विशेष भूमि प्रजनन आफिसर, कपर कृष्णा परियोजना, अलीमट्टी । 5. उपायुक्त के जिला विकास सहायक, जिला बीजापुर, बीजापुर ।

[सं. 434/कनॉ०/77(2)]

S. O. 90(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No 434/KL/74 (3) dated 18 November 1974, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Kerala, the Officer of Government specified in column 2 of the Table below as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Kerala as contained in Part A of Schedule XI to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and specified in column 1 of the said Table against such Officer of Government:

TABLE

Serial No. and name of the Parliamentary Constituency	Returning Officer
1	2
1 Kasaragod . . . . .	District Collector, Cannanore.
2 Cannanore . . . . .	District Collector, Cannanore.
3 Badagara . . . . .	District Collector, Kozhikode.
4 Calicut . . . . .	District Collector, Kozhikode.
5 Manjeri . . . . .	District Collector, Malappuram.
6 Ponnani . . . . .	District Collector, Malappuram.
7 Palghat . . . . .	District Collector, Palghat.
8 Ottapalam (SC) . . . . .	District Collector, Palghat.
9 Trichur . . . . .	District Collector, Trichur.
10 Mukundapuram . . . . .	District Collector, Trichur.
11 Ernakulam . . . . .	District Collector, Ernakulam.
12 Muvattupuzha . . . . .	District Collector, Ernakulam.
13 Kottayam . . . . .	District Collector, Kottayam.
14 Idukki . . . . .	District Collector, Idukki.
15 Alleppey . . . . .	District Collector, Alleppey.
16 Mavelikara . . . . .	District Collector, Alleppey.
17 Adoor (SC) . . . . .	District Collector, Quilon.
18 Quilon . . . . .	District Collector, Quilon.
19 Chirayinkeezh . . . . .	District Collector, Trivandrum.
20 Trivandrum . . . . .	District Collector, Trivandrum.

[No. 434/KL/77(E)]



का० प्रा० 90 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में और तारीख 18 नवम्बर 1974 की अपनी अधिसूचना सं० 434/केरल/74(3) को अधिक्रमण करते हुए निर्वाचन आयोग केरल सरकार के परामर्श से नीचे की शरणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर को ऐसे सरकारी आफिसर के सामने केरल राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, जैसा कि वह संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 11 के भाग क में अन्तर्बिष्ट है तथा उक्त शरणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के लिए रिटनिंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित बनाता है —

### शरणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं० और नाम	रिटनिंग आफिसर
1	2
1. कामरागोड	जिला कलक्टर, कन्नानोर ।
2. कन्नानोर	जिला कलक्टर, कन्नानोर ।
3. बड़ागारा	जिला कलक्टर, कोझीकोडे ।
4. भालीषाट	जिला कलक्टर, कोझीकोडे ।
5. मन्जोरी	जिला कलक्टर, मालापुरम ।
6. पोन्नानी	जिला कलक्टर, मालापुरम ।
7. पालषाट	जिला कलक्टर, पालषाट ।
8. ओटाकुलम (अ०जा०)	जिला कलक्टर, पालषाट ।
9. त्रिचुर	जिला कलक्टर, त्रिचुर ।
10. मुक्कम्पुपुरम	जिला कलक्टर, त्रिचुर ।
11. एरनाकुलम	जिला कलक्टर, एरनाकुलम ।
12. मुवाट्टुप्पा	जिला कलक्टर, एरनाकुलम ।
13. कोट्टायम	जिला कलक्टर, कोट्टायम ।
14. इडुक्की	जिला कलक्टर, इडुक्की ।
15. अलेप्पी	जिला कलक्टर, अलेप्पी ।
16. मधेलीकारा	जिला कलक्टर, अलेप्पी ।
17. अदूर (अ०जा०)	जिला कलक्टर, कांजीनोन ।
18. कञ्जोलोन	जिला कलक्टर, कञ्जोलोन ।
19. चिरायिनकिल	जिला कलक्टर, त्रिवेन्द्रम ।
20. त्रिवेन्द्रम	जिला कलक्टर, त्रिवेन्द्रम ।

New Delhi, the 2nd February 1977

**S. O. 91 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 22 of the Representation of the people Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/KL/77(4), dated 18 November, 1974, the Election Commission hereby appoints each of the Officers of Government of Kerala as specified in column 2 of the Table below as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the Parliamentary constituency in the State of Kerala as contained in Part A of Schedule XI to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and specified in column 1 of the said Table against such Officer or Officers of Government in the performance of the functions of such Returning Officer:

TABLE

Returning Officer of Parliamentary constituency	Assistant Returning Officers
1	2
1. Returning Officer of Kasaragod Parliamentary constituency.	1. Additional Deputy Collector (Land Reforms), Cannanore. 2. Revenue Divisional Officer, Kasaragod. 3. Deputy Collector—Land Tribunal—Cannanore. 4. Additional Deputy Collector (Land Reforms III), Cannanore. 5. Deputy Commissioner, Small Industries Cannanore. 6. Deputy Collector (Land Reforms) Cannanore. 7. Assistant Development Commissioner, Cannanore. 8. Deputy Collector (Elections), Cannanore. 9. Deputy Collector (General) Cannanore.
2. Returning Officer of Cannanore Parliamentary constituency.	1. District Panchayat Officer, Cannanore. 2. Additional Deputy Collector (Land Reforms II), Cannanore. 3. Deputy Collector (General), Cannanore. 4. Appellate Assistant Commissioner Agricultural Income Tax & Sales Tax, Cannanore. 5. Additional Deputy Collector (Land Reforms V), Cannanore. 6. Divisional Forest Officer (Special Division), Tallicherry. 7. Divisional Forest Officer, Manantody. 8. Deputy Collector (Elections), Cannanore.
3. Returning Officer of Badagara Parliamentary constituency.	1. Deputy Collector (Revenue) Recovery, Cannanore. ■ 2. Revenue Divisional Officer, Tallicherry. 3. Revenue Divisional Officer, Kozhikode. 4. Deputy Registrar of Co-operative Societies (General), Kozhikode. 5. District Supply Officer, Kozhikode. 6. Deputy Collector (Land Reforms), Kozhikode. 7. Divisional Forest Officer (Special), Kozhikode. ■ 8. Deputy Collector (Elections), Kozhikode. 9. Deputy Collector (General), Kozhikode.

I

2

- |  |   |
|--|---|
| <p>4. Returning Officer of Calicut Parliamentary constituency.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Deputy Collector (Land Reforms (II), Kozhikode.</li> <li>2. Deputy Director of Panchayats, Kozhikode.</li> <li>3. Deputy Collector (General), Kozhikode.</li> <li>4. Deputy Collector (Revenue Recovery) Kozhikode.</li> <li>5. Deputy Labour Commissioner, Kozhikode.</li> <li>6. Deputy Collector (Wynad Development), Kalpetta.</li> <li>7. Divisional Forest Officer, Kozhikode.</li> <li>8. Deputy Collector (Elections), Kozhikode.</li> </ol>   |
| <p>5. Returning Officer of Manjeri Parliamentary constituency.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. District Panchayat Officer, Kozhikode.</li> <li>2. Assistant Development Commissioner, Kozhikode.</li> <li>3. Divisional Forest Officer (Special), Nilambur.</li> <li>4. Divisional Forest Officer, Nilambur.</li> <li>5. Additional Deputy Collector (Land Reform II), Mallappuram.</li> <li>6. Deputy Collector (General), Mallappuram.</li> <li>7. Deputy Registrar of Co-operative Societies (General), Mallappuram.</li> <li>8. Deputy Collector (Elections), Mallappuram.</li> </ol>                                |
| <p>6. Returning Officer of Ponnani Parliamentary constituency.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. District Labour Officer, Mallappuram.</li> <li>2. District Panchayat Officer, Mallappuram.</li> <li>3. Deputy Registrar of Co-operative Societies (Audit), Mallappuram.</li> <li>4. District Supply Officer, Mallappuram.</li> <li>5. Deputy Director of Agriculture, Mallappuram.</li> <li>6. Deputy Collector (Land Tribunal Mallappuram)</li> <li>7. Revenue Divisional Officer, Perinthalmanna</li> <li>8. Deputy Collector (Elections), Mallappuram.</li> <li>9. Deputy Collector (General), Mallappuram.</li> </ol> |
| <p>7. Returning Officer of Palghat Parliamentary constituency.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Registrar of Co-operative Societies (General), Palghat.</li> <li>2. Divisional Forest Officer, Palghat.</li> <li>3. Additional Deputy Collector (Land Reforms III), Palghat.</li> <li>4. Deputy Collector (General), Palghat.</li> <li>5. Deputy Collector (Land Acquisition), Palghat.</li> <li>6. District Supply Officer, Palghat.</li> <li>7. Revenue Divisional Officer, Palghat.</li> <li>8. Deputy Collector (Elections), Palghat.</li> </ol>   |

1

2

- 
- |   |  |
|---|--|
| <p>8. Returning Officer of Ottapalam (SC) Parliamentary constituency.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Collector (Land Reforms), Palghat.</li> <li>2. Revenue Divisional Officer, Ottapalam.</li> <li>3. Additional Deputy Collector (Land Reforms IV) Palghat.</li> <li>4. Additional Deputy Collector (Land Reforms I), Palghat.</li> <li>5. Deputy Director of Agriculture, Trichur.</li> <li>6. District Supply Officer, Trichur.</li> <li>7. Deputy Registrar of Co-operative Societies (General), Trichur.</li> <li>8. Deputy Collector (Elections), Palghat.</li> <li>9. Deputy Collector (General), Palghat.</li> </ol>                  |
| <p>9. Returning Officer of Trichur Parliamentary constituency.</p>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Collector (Land Reforms), Trichur.</li> <li>2. Deputy Collector (General), Trichur.</li> <li>3. Divisional Forest Officer, Trichur.</li> <li>4. Deputy Collector (Land Acquisition), Trichur.</li> <li>5. Principal, Extension Training Centre, Olukkara.</li> <li>6. Revenue Divisional Officer, Trichur.</li> <li>7. Additional Deputy Collector (Land Reforms I), Trichur.</li> <li>8. Deputy Collector (Elections), Trichur.</li> </ol>   |
| <p>10. Returning Officer of Mukundapuram Parliamentary constituency.</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Divisional Forest Officer, Chalakudy.</li> <li>2. Assistant Development Commissioner, Trichur.</li> <li>3. Deputy Registrar of Co-operative Societies (Audit), Trichur.</li> <li>4. District Employment Officer, Trichur.</li> <li>5. Divisional Forest Officer, Kodanad.</li> <li>6. Deputy Labour Commissioner, Ernakulam.</li> <li>7. Deputy Collector (Revenue Recovery), Ernakulam.</li> <li>8. Deputy Collector (Elections), Trichur.</li> <li>9. Deputy Collector (General), Trichur.</li> </ol>  |
| <p>11. Returning Officer of Ernakulam Parliamentary constituency.</p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Collector (Land Reforms) Ernakulam.</li> <li>2. Deputy Registrar of Co-operative Societies, Ernakulam.</li> <li>3. Inspecting Assistant Commissioner of Sales Tax (Audit), Ernakulam.</li> <li>4. Sub-Collector, Fort Cochin.</li> <li>5. Deputy Director of Panchayats, Ernakulam.</li> <li>6. Deputy Collector (Land Acquisition) (Projects), Ernakulam.</li> <li>7. Deputy Collector (Land Acquisition), Ernakulam.</li> <li>8. Deputy Collector (Elections), Ernakulam.</li> <li>9. Deputy Collector (General), Ernakulam.</li> </ol> |
-

1	2
12. Returning Officer of Muvattupuzha parliamentary constituency	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Collector (General), Ernakulam.</li> <li>2. Appellate Assistant Commissioner of Sales Tax, Ernakulam.</li> <li>3. Revenue Divisional Officer, Muvattupuzha.</li> <li>4. Deputy Commissioner of Sales Tax (Appeals) Ernakulam.</li> <li>5. Divisional Forest Officer, Kottayam.</li> <li>6. Revenue Divisional Officer, Palai.</li> <li>7. District Supply Officer, Kottayam.</li> <li>8. Deputy Collector (Election), Ernakulam.</li> </ol>
13. Returning Officer of Kottayam parliamentary constituency.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revenue Divisional Officer, Kottayam.</li> <li>2. Deputy Collector (Land Acquisition), Kottayam.</li> <li>3. Deputy Director of Agriculture, Kottayam.</li> <li>4. Deputy Collector (General), Kottayam.</li> <li>5. Deputy Collector (Land Reforms), Kottayam.</li> <li>6. Deputy Collector (Land Acquisition for News print Project), Kottayam.</li> <li>7. Deputy Registrar of Co-operative Societies (General), Kottayam.</li> <li>8. Deputy Collector (Elections), Kottayam.</li> </ol>
14. Returning Officer of Idukki parliamentary constituency.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revenue Divisional Officer, Idukki.</li> <li>2. Divisional Forest Officer, Mannar.</li> <li>3. Deputy Collector (General), Idukki.</li> <li>4. Revenue Divisional Officer, Devicolam.</li> <li>5. Deputy Collector (Land Reforms), Idukki.</li> <li>6. Divisional Forest Officer, Ranni.</li> <li>7. Deputy Registrar of Co-operative Societies (General), Quilon.</li> <li>8. Deputy Collector (Elections), Idukki.</li> </ol>
15. Returning Officer of Alleppey parliamentary constituency.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revenue Divisional Officer, Alleppey.</li> <li>2. Assistant Excise Commissioner, Alleppey.</li> <li>3. District Labour Officer (General), Alleppey.</li> <li>4. Additional Deputy Collector (Land Reforms II), Alleppey.</li> <li>5. Assistant Development Commissioner, Alleppey.</li> <li>6. Deputy Registrar of Cooperative Societies (General), Alleppey.</li> <li>7. Deputy Collector (General) Alleppey.</li> <li>8. Deputy Collector (Elections), Alleppey.</li> </ol>
16. Returning Officer of Mavelikara parliamentary constituency	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. District Supply Officer, Alleppey.</li> <li>2. Deputy Collector (Revenue Recovery), Alleppey.</li> <li>3. Punja Special Officer, Alleppey.</li> <li>4. Deputy Collector (Land Reforms), Alleppey.</li> <li>5. Additional Deputy Collector (Land Reforms I), Alleppey.</li> <li>6. Revenue Divisional Officer, Chengannur.</li> </ol>

I

2

- |   |  |
|---|--|
| <p>17. Returning Officer of Adoor (S C) parliamentary constituency.</p> <p>18. Returning Officer of Quilon parliamentary constituency.</p> <p>19. Returning Officer of Chirayinkil parliamentary constituency.</p> <p>20. Returning Officer of Trivandrum parliamentary constituency.</p> | <p>7. District Panchayat Officer, Alleppey.</p> <p>8. Deputy Collector (Elections), Alleppey.</p> <p>9. Deputy Collector (General), Alleppey.</p> <p>1. Divisional Forest Officer, Konni.</p> <p>2. Divisional Forest Officer, Punalur.</p> <p>3. Revenue Divisional Officer, Adoor.</p> <p>4. Deputy Director of Agriculture, Quilon.</p> <p>5. Assistant Excise Commissioner, Quilon.</p> <p>6. District Industries Officer, Quilon.</p> <p>7. Deputy Director of Panchayats, Quilon.</p> <p>8. Deputy Collector (Elections), Quilon.</p> <p>9. Deputy Collector (General), Quilon.</p> <p>1. Deputy Collector (Land Reforms), Quilon.</p> <p>2. District Supply Officer, Quilon.</p> <p>3. Revenue Divisional Officer, Quilon.</p> <p>4. Assistant Development Commissioner, Quilon.</p> <p>5. Deputy Collector (General) Quilon.</p> <p>6. Deputy Collector (Land Acquisition) Quilon.</p> <p>7. Deputy Collector (Revenue Recovery) Quilon.</p> <p>8. Deputy Collector (Elections), Quilon.</p> <p>1. Deputy Collector (Land Reforms), Trivandrum.</p> <p>2. Deputy Collector (Tairuppuvaram), Trivandrum.</p> <p>3. Deputy Registrar of Cooperative Societies (General), Trivandrum.</p> <p>4. Assistant Excise Commissioner, Trivandrum.</p> <p>5. Deputy Collector (Revenue Recovery), Trivandrum.</p> <p>6. Deputy Collector (Land Acquisition) Trivandrum.</p> <p>7. Deputy Controller (Weight &amp; Measures) Trivandrum.</p> <p>8. Deputy Collector (Elections), Trivandrum.</p> <p>9. Deputy Collector (General), Trivandrum.</p> <p>1. Special Deputy Collector (Land Acquisition) Railways, Trivandrum.</p> <p>2. Revenue Divisional Officer, Trivandrum.</p> <p>3. Assistant Development Commissioner, Trivandrum.</p> <p>4. Deputy Registrar of Co-operative Societies (Audit), Trivandrum.</p> <p>5. Deputy Collector (Land Acquisition), Kerala State Electricity Board, Trivandrum.</p> <p>6. Deputy Collector (General), Trivandrum.</p> <p>7. Divisional Forest Officer, Trivandrum.</p> <p>8. Deputy Collector (Elections), Trivandrum.</p> |
|---|--|

[No. 434/KL/77 (2)]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1977

का० प्र० 91 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 18 नवम्बर, 1974 की अपनी अधिसूचना सं० 434/केरल/74(2) को अधिग्रहण करते हुए, निर्वाचन प्रायोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट केरल सरकार के आफिसरों में से प्रत्येक को, ऐसे सरकारी आफिसर अथवा आफिसरों के सामने केरल राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, जैसा कि वह संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची XI के भाग क में वर्णित है और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के लिए रिटनिंग आफिसर को उसके कर्त्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटनिंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करता है :—

सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	सहायक रिटनिंग आफिसर
1.	2
1. कासरगोड संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. अपर उप-कलक्टर (भूमि सुधार), कन्नानोर । 2. राजस्व खण्ड अधिकारी, कासरगोड । 3. उप कलक्टर-भूमि अधिकरण, कन्नानोर । 4. अपर उप-कलक्टर (भूमि सुधार III) कन्नानोर । 5. उपायुक्त, जम्बु उद्योग, कन्नानोर । 6. उप-कलक्टर (भूमि सुधार) कन्नानोर । 7. सहायक विकास आयुक्त, कन्नानोर । 8. उप कलक्टर (निर्वाचन) कन्नानोर । 9. उप-कलक्टर (साधारण), कन्नानोर ।
2. कन्नानोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. जिला पंचायत अधिकारी, कन्नानोर । 2. अपर उप-कलक्टर (भूमि सुधार II), कन्नानोर । 3. उप कलक्टर (साधारण) कन्नानोर । 4. अर्वालीय सहायक आयुक्त, कृषि आर्य कर तथा बिक्री कर, कन्नानोर । 5. अपर उप कलक्टर (भूमि सुधार V), कन्नानोर ।

1

2

6. वन खण्ड अधिकारी (विशेष खण्ड), तेलीमेरी ।
  7. वन खण्ड अधिकारी, मनानतोड़ी ।
  8. उप-कलक्टर (निर्वाचन) कप्तानोर ।
3. बड़ागारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. उप कलक्टर (राजस्व वसूली), कप्तानोर ।
  2. राजस्व खण्ड अधिकारी, तेलीमेरी ।
  3. राजस्व खण्ड अधिकारी, कोझीकोडे ।
  4. सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार (साधारण), कोझीकोडे ।
  5. जिला आपूर्ति अधिकारी, कोझीकोडे ।
  6. उप-कलक्टर (भूमि सुधार), कोझीकोडे ।
  7. वन खण्ड अधिकारी (विशेष), कोझीकोडे ।
  8. उप कलक्टर (निर्वाचन) कोझीकोडे ।
  9. उप-कलक्टर (साधारण), कोझीकोडे ।
4. कालीकट संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।  
[ ]
1. अपर कलक्टर (भूमि सुधार II), कोझीकोडे ।
  2. पचायतों के उप निदेशक, कोझीकोडे ।
  3. उप कलक्टर (साधारण), कोझीकोडे ।
  4. उप कलक्टर (राजस्व वसूली) कोझीकोडे ।
  5. उप श्रम आयुक्त, कोझीकोडे ।
  6. उप कलक्टर (वाइनाड विकास), कोले-पेट्टा ।
  7. वन खण्ड अधिकारी, कोझीकोडे ।
  8. उप कलक्टर (निर्वाचन) कोझीकोडे ।
5. मजेरी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. जिला पचायत अधिकारी, कोझीकोडे ।
  2. सहायक विकास आयुक्त, कोझीकोडे ।
  3. वन खण्ड अधिकारी (विशेष), निलाम्बुर ।
  4. वन खण्ड अधिकारी, निलाम्बुर ।
  5. अपर उप-कलक्टर (भूमि सुधार II), मालापुरम ।



1

2

6. पोश्तानी मसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

7. पालघाट संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

6. उप-कलेक्टर (साधारण), मालापुरम ।
7. सहकारी समितियों के उप-रजिस्ट्रार (साधारण), मालापुरम ।
8. उप-कलेक्टर (निर्वाचन), मालापुरम ।

1. जिला श्रम अधिकारी, मालापुरम ।
2. जिला पचायत अधिकारी, मालापुरम ।
3. सहकारी समितियों के उप-रजिस्ट्रार (लेखा परीक्षा), मालापुरम ।
4. जिला आपूर्ति अधिकारी, मालापुरम ।
5. कृषिक उप-निदेशक, मालापुरम ।
6. उप-कलेक्टर (भूमि अधिकरण), मालापुरम ।
7. राजस्व खण्ड अधिकारी, पैरिन्थालमन्ना ]
8. उप-कलेक्टर (निर्वाचन), मालापुरम ।
9. उप-कलेक्टर (साधारण), मालापुरम ।

1. सहकारी समितियों के उप-रजिस्ट्रार (साधारण), पालघाट ।
2. वन खण्ड अधिकारी, पालघाट ।
3. अपर उप-कलेक्टर (भूमि सुधार III) पालघाट ।
4. उप-कलेक्टर (साधारण), पालघाट ।
5. उप-कलेक्टर (भूमि अर्जन), पालघाट ।
6. जिला आपूर्ति अधिकारी पालघाट ।
7. राजस्व खण्ड अधिकारी, पालघाट ।
8. उप-कलेक्टर (निर्वाचन), पालघाट ।

1

2

8. भोटापालम (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. उप-कलक्टर (भूमि सुधार), पालघाट ।
2. राजस्व खण्ड अधिकारी, भोटापालम ।
3. अपर उप-कलक्टर (भूमि सुधार IV), पालघाट ।
4. अपर उप-कलक्टर (भूमि सुधार I), पालघाट ।
5. कृषि के उप-निवेशक, त्रिचुर ।
6. जिला आपूर्ति आफिसर, त्रिचुर ।
7. सहकारी समितियों के उप-रजिस्ट्रार (साधारण), त्रिचुर ।
8. उप-कलक्टर (निर्वाचन), पालघाट ।
9. उप-कलक्टर (साधारण), पालघाट ।

9. त्रिचुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. उप-कलक्टर (भूमि सुधार), त्रिचुर
2. उप-कलक्टर (साधारण), त्रिचुर ।
3. वन खण्ड अधिकारी, त्रिचुर ।
4. उप-कलक्टर (भूमि अधिग्रहण), त्रिचुर ।
5. प्रिन्सिपल, विस्तारण प्रशिक्षण केन्द्र, ओल्सुक्कारा ।
6. राजस्व खण्ड अधिकारी, त्रिचुर ।
7. अपर उप-कलक्टर (भूमि सुधार-I); त्रिचुर ।
8. उप-कलक्टर (निर्वाचन), त्रिचुर ।

10. मुकुन्दपुरम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. वन खण्ड अधिकारी, चालाकुडी ।
2. सहायक विकास आयुक्त, त्रिचुर ।
3. सहकारी समितियों के उप-रजिस्ट्रार (लेखा परीक्षा), त्रिचुर ।
4. जिला रोजगार आफिसर, त्रिचुर ।
5. वन खण्ड आफिसर, कोडनाड ।
6. उप अम आयुक्त, एरनाकुलम ।

1

2

- |   |  |
|---|--|
|   | 7. उप-कलक्टर (राजस्व वसूली), एरनाकुलम ।                          |
|   | 8. उप-कलक्टर (निर्वाचन), त्रिचुर ।                               |
|   | 9. उप-कलक्टर (साधारण), त्रिचुर ।                                 |
| 11. एरनाकुलम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।   | 1. उप-कलक्टर (भूमि सुधार), एरनाकुलम ।                            |
|   | 2. सहाकारी समितियों के उप-रजिस्ट्रार, एरनाकुलम ।                 |
|   | 3. विक्रय कर का निरीक्षक सहायक आयुक्त (लेखा परीक्षा), एरनाकुलम । |
|   | 4. उप-कलक्टर, फोर्ट कोचीन ।                                      |
|   | 5. पञ्चायतों का उप-निदेशक, एरनाकुलम ।                            |
|   | 6. उप-कलक्टर (भूमि अधिग्रहण), (परियोजना) एरनाकुलम ।              |
|   | 7. उप-कलक्टर (भूमि अधिग्रहण), एरनाकुलम ।                         |
|   | 8. उप-कलक्टर (निर्वाचन), एरनाकुलम ।                              |
|   | 9. उप-कलक्टर (साधारण), एरनाकुलम ।                                |
| 12. मुवाटुपुझा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर । | 1. उप-कलक्टर (साधारण), एरनाकुलम ।                                |
|   | 2. विक्रय कर का अपील सहायक आयुक्त, एरनाकुलम ।                    |
|   | 3. राजस्व खण्ड अधिकारी, मुवाटुपुझा ।                             |
|   | 4. विक्रय कर का उपायुक्त (अपील), एरनाकुलम ।                      |
|   | 5. वन खण्ड अधिकारी, कोट्टायम ।                                   |
|   | 6. राजस्व खण्ड अधिकारी, पलाई ।                                   |
|   | 7. जिला आपूर्ति अधिकारी, कोट्टायम ।                              |
|   | 8. उप-कलक्टर (निर्वाचन), एरनाकुलम ।                              |
| 13. कोट्टायम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।   | 1. राजस्व खण्ड अधिकारी, कोट्टायम ।                               |
|   | 2. उप-कलक्टर (भूमि अधिग्रहण), कोट्टायम ।                         |
|   | 3. कृषि का उप-निदेशक, कोट्टायम ।                                 |
|   | 4. उप-कलक्टर (साधारण), कोट्टायम ।                                |
|   | 5. उप-कलक्टर, (भूमि सुधार), कोट्टायम ।                           |

1

2

- |   |   |
|---|---|
| <p>14. इंदुक्की संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।</p>  | <p>6. उप-कलक्टर (न्यूज प्रिन्ट परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण), कोट्टायम ।</p> <p>7. सहकारी समितियों के उप-रजिस्ट्रार (साधारण), कोट्टायम ।</p> <p>8. उप-कलक्टर (निर्वाचन), कोट्टायम ।</p>  |
| <p>15. अलेप्पी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।</p>   | <p>1. राजस्व खण्ड अधिकारी, इंदुक्की ।</p> <p>2. वन खण्ड अधिकारी, मन्नार ।</p> <p>3. उप-कलक्टर (साधारण), इंदुक्की ।</p> <p>4. राजस्व खण्ड अधिकारी, देवीकोलम ।</p> <p>5. उप-कलक्टर (भूमि सुधार), इंदुक्की ।</p> <p>6. वन खण्ड अधिकारी, रान्नी ।</p> <p>7. सहकारी समितियों का उप रजिस्ट्रार (साधारण), क्वीलोन ।</p> <p>8. उप-कलक्टर (निर्वाचन), इंदुक्की ।</p>                         |
| <p>16. मबेलीकारा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।</p> | <p>1. राजस्व खण्ड अधिकारी, अलेप्पी ।</p> <p>2. सहायक उत्पाद-शुल्क आयुक्त, अलेप्पी ।</p> <p>3. जिला धर्म अधिकारी (साधारण), अलेप्पी ।</p> <p>4. अपर उप-कलक्टर (भूमि सुधार II); अलेप्पी ।</p> <p>5. सहायक विकास आयुक्त, अलेप्पी ।</p> <p>6. सहकारी समितियों का उप-रजिस्ट्रार (साधारण), अलेप्पी ।</p> <p>7. उप-कलक्टर (साधारण), अलेप्पी ।</p> <p>8. उप-कलक्टर (निर्वाचन), अलेप्पी ।</p> |
| <p>17. मबेलीकारा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।</p> | <p>1. जिला आपूर्ति अधिकारी, अलेप्पी ।</p> <p>2. उप-कलक्टर (राजस्व वसूली), अलेप्पी ।</p> <p>3. पुंजा विशेष अधिकारी, अलेप्पी ।</p> <p>4. उप-कलक्टर (भूमि सुधार), अलेप्पी ।</p> <p>5. अपर उप-कलक्टर (भूमि सुधार I), अलेप्पी ।</p> <p>6. राजस्व खण्ड अधिकारी, चेंबानूर I ।</p>  |

1

2

- 
- |   |   |
|---|---|
|   | 7. जिला पंचायत अधिकारी, अलेप्पी ।                           |
|   | 8. उप-कलक्टर (निर्वाचन), अलेप्पी ।                          |
|   | 9. उप-कलक्टर (साधारण), अलेप्पी ।                            |
| 17. अदूर (अ० जा०) मन्दीय, निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर । | 1. वन खण्ड अधिकारी, कोन्नी ।                                |
|   | 2. वन खण्ड अधिकारी, पुनालुर ।                               |
|   | 3. राजस्व खण्ड अधिकारी, अदूर ।                              |
|   | 4. कृषि का उप-निदेशक, कवीलोन ।                              |
|   | 5. सहायक उत्पाद-शुल्क आयुक्त, कवीलोन ।                      |
|   | 6. जिला उद्योग अधिकारी, कवीलोन ।                            |
|   | 7. पंचायतो का उप-निदेशक, कवीलोन ।                           |
|   | 8. उप-कलक्टर (निर्वाचन), कवीलोन ।                           |
|   | 9. उप-कलक्टर (साधारण), कवीलोन ।                             |
| 18. कवीलोन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।         | 1. उप-कलक्टर (भूमि सुधार), कवीलोन ।                         |
|   | 2. जिला आपूर्ति अधिकारी, कवीलोन ।                           |
|   | 3. राजस्व खण्ड अधिकारी, कवीलोन ।                            |
|   | 4. सहायक विकास आयुक्त, कवीलोन ।                             |
|   | 5. उप-कलक्टर (साधारण), कवीलोन ।                             |
|   | 6. उप-कलक्टर (भूमि अधिग्रहण), कवीलोन ।                      |
|   | 7. उप-कलक्टर (राजस्व वसूली), कवीलोन ।                       |
|   | 8. उप-कलक्टर (निर्वाचन), कवीलोन ।                           |
| 19. चिरायिनकिल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।     | 1. उप-कलक्टर (भूमि सुधार), त्रिवेन्द्रम ।                   |
|   | 2. उप-कलक्टर (धिरुप्पुरम), त्रिवेन्द्रम ।                   |
|   | 3. सहायक समितियों का उप-रजिस्ट्रार (साधारण), त्रिवेन्द्रम । |
|   | 4. सहायक उत्पाद-शुल्क आयुक्त, त्रिवेन्द्रम ।                |
|   | 5. उप-कलक्टर, (राजस्व वसूली), त्रिवेन्द्रम ।                |
|   | 6. उप-कलक्टर (भूमि अधिग्रहण), त्रिवेन्द्रम ।                |
|   | 7. उप-नियंत्रक (तोल और माप), त्रिवेन्द्रम ।                 |
|   | 8. उप-कलक्टर (निर्वाचन) त्रिवेन्द्रम ।                      |
|   | 9. उप-कलक्टर (साधारण), त्रिवेन्द्रम ।                       |
-

1

2

20. त्रिवेन्द्रम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. विशेष उप-कलक्टर (भूमि अधिग्रहण), रेलवे, त्रिवेन्द्रम ।
2. राजस्व खण्ड अधिकारी, त्रिवेन्द्रम ।
3. सहायक विकास आयुक्त, त्रिवेन्द्रम ।
4. सहकारी समितियों का उप-रजिस्ट्रार (लेखा परीक्षा), त्रिवेन्द्रम ।
5. उप-कलक्टर (भूमि अधिग्रहण), केरल राज्य बिजली बोर्ड, त्रिवेन्द्रम ।
6. उप-कलक्टर (साधारण), त्रिवेन्द्रम ।
7. वन खण्ड अधिकारी, त्रिवेन्द्रम ।
8. उप-कलक्टर (निर्वाचन), त्रिवेन्द्रम ।

[स० 434/केरल/77(2)]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

*New Delhi, the 29th January 1977*

**S.O. 92 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 21 and sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's notification No. 434/MP/75(1) dated 12 January, 1976, the Election Commission of India hereby designates, in consultation with the Government of Madhya Pradesh, in respect of the parliamentary constituencies in the State of Madhya Pradesh, as contained in Part A of schedule XII of elimination of Parliamentary and Assembly Constituencies order, 1976, namely :—

For each of the constituencies specified in column 1 of the Table below :

(a) the officer specified in the corresponding entry in column 2 of the said table to be the returning officer ;

(b) the officers specified in the corresponding entries in column 3 of the said table to be the assistant returning officers :—

TABLE

Sl. No. and name of Constituency	Returning Officer	Assistant Returning Officer
1	2	3
Morena (S.C.) Constituency, Morena	1. District Settlement Officer, Morena District.	2. Executive Engineer, Ravine Reclamation Scheme, Morena District.
		3. All Assistant Soil Conservation Officers, Morena District ;

1	2	3
2. Bhind	Collector, Bhind.	1. Collector, Datia District. 2. Deputy Director of Industries, Bhind District. 3. Nazul Officer, Bhind District. 4. Presiding Officer, Debt Relief Court, Bhind District.
3. Gwalior	Collector, Gwalior.	1. Collector, Shivpuri District. 2. Deputy Director of Land Records, Gwalior. 3. Nazul Officer, Gwalior District. 4. Assistant Director, Small Savings, Gwalior District.
4. Guna	Collector, Guna	1. Collector, Shivpuri District
5. Sagar SD	Collector, Sagar	1. Joint Director of Agriculture, Sagar. 2. Deputy Director of Fisheries, Sagar.
6. Kanurich	Collector, Tikanurich.	1. Collector, Chhatarpur District. 2. Deputy Director of Industries, Chhatarpur District. 3. Deputy Director, Tourist Department, Chhatarpur District
7. Damoh	Collector, Damoh	1. Collector, Panna and Chhatarpur Districts. 2. Deputy Director of Industries, Chhatarpur District. 3. Deputy Director of Tourist Department, Chhatarpur District. 4. District Rehabilitation officer, Panna District.
8. Satna	Collector Satna.	1. Collector, Jabalpur District. 2. Assistant Commissioner, Sales Tax, Satna. 3. Assistant Labour Commissioner, Satna. 4. Presiding Officer, Debt Relief Court, Satna District. 5. Nazul Officer, Satna District. 6. Deputy Commissioner, Sales Tax Jabalpur. 7. Assistant Commissioner, Excise Jabalpur. 8. Deputy Director, Economics and Statistics, Jabalpur. 9. Deputy Director, Employment and Training, Jabalpur.
9. Rewa	Collector, Rewa	1. Collector, Satna District 2. Deputy Director of Land Records, Rewa. 3. Presiding Officer, Debt Relief Courts, Rewa and Satna Districts. 4. Nazul officer, Satna District. 5. Assistant Commissioner, Sales Tax, Satna. 6. Assistant Labour Commissioner, Satna.
10. Sidhi	Collector, Sidhi.	1. Collector, Surguja District. 2. Presiding Officer, Debt Relief Court, Sidhi District. 3. Rehabilitation Officer, Aragohi.

1	2	3
		4. Mining Officer, Surguja District. 5. Deputy Director of Tribal Welfare, Surguja District. 6. Deputy Director of Industries, Surguja District.
11. Shahdol (S T)	Collector, Shahdol.	1. Presiding Officer, Debt Relief Court, Shahdol District. 2. Nazul officer, Shahdol District.
12. Surguja (S T)	Collector, Surguja.	1. Deputy Director, Tribal Welfare, Surguja District. 2. Deputy Director of Industries, Surguja District. 3. Rehabilitation Officer, Aragohi. 4. Mining Officer, Surguja District.
13. Raigarh (ST)	Collector, Raigarh.	1. Deputy Registrar, Co-operative Societies, Raigarh. 2. Deputy Director of Industries, Raigarh District. 3. Officer on Special Duty (Forest Resources) Raigarh.
14. Janjgir	Collector, Bilaspur.	1. Assistant Commissioner, Excise, Bilaspur. 2. Assistant Commissioner, Sales Tax, Bilaspur. 3. Deputy Director of Land Records Bilaspur. 4. Divisional Soil Conservation Officer, Bilaspur. 5. Forest Settlement Officer, Bilaspur District. 6. Mining Officer, Bilaspur District. 7. Assistant Soil Conservation Officer, Bilaspur District.
15. Bilaspur	Collector, Bilaspur.	1. Assistant Commissioner, Excise, Bilaspur. 2. Assistant Commissioner, Sales Tax, Bilaspur. 3. Deputy Director of Land Records, Bilaspur. 4. Divisional Soil Conservation Officer, Bilaspur. 5. Forest Settlement Officer, Bilaspur, District. 6. Mining Officer, Bilaspur District. 7. Assistant Soil Conservation Officer, Bilaspur District.
16. Sarangarh (SC)	Collector, Raipur.	1. Collectors, Raigarh and Bilaspur District. 2. Administrator, Municipal Corporation, Raipur. 3. Assistant Commissioner, Excise, Bilaspur and Raipur Districts. 4. Assistant Labour Commissioner, Raipur. 5. Joint Director, Town and Country Planning, Raipur. 6. Joint Director, Fisheries, Raipur. 7. Joint Director of Agriculture, Raipur. 8. Chairman, Town Improvement Trust, Raipur. 9. Deputy Director, Geology and Mining, Raipur.



1	2	3
		10. Deputy Director, Local Bodies, Raipur. 11. Deputy Director of Industries, Raipur and Raigarh Districts. 12. Mining Officers, Raipur and Bilaspur Districts 13. Employment Officer, Raipur District 14. Divisional Soil Conservation Officer, Bilaspur 15. Deputy Director, Land Records, Bilaspur. 16. Assistant Commissioner, Sales Tax, Bilaspur 17. Forest Settlement Officer, Bilaspur. 18. Assistant Soil Conservation Officer, Bilaspur District. 19. Deputy Registrar, Co-operative Societies, Raigarh. 20. Officer on Special Duty, Forest Resources, Raigarh.
17. Raipur. • Collector, Raipur		1. Administrator, Municipal Corporation, Raipur. 2. Assistant Commissioner, Excise, Raipur. 3. Assistant Labour Commissioner, Raipur. 4. Joint Director of Town and Country Planning Raipur. 5. Joint Director of Fisheries, Raipur. 6. Joint Director of Agriculture, Raipur. 7. Chairman, Town Improvement Trust, Raipur. 8. Deputy Director of Geology and Mining Raipur. 9. Deputy Director, Local Bodies, Raipur. 10. Deputy Director of Industries, Raipur District. 11. Mining Officer, Raipur District. 12. Employment Officer, Raipur District.
18. Mahasamund • Collector, Raipur.		1. Administrator, Municipal Corporation, Raipur. 2. Assistant Commissioner, Excise, Raipur. 3. Assistant Labour Commissioner, Raipur. 4. Joint Director of Town and Country Planning, Raipur. 5. Joint Director of Fisheries, Raipur. 6. Joint Director of Agriculture, Raipur. 7. Chairman, Town Improvement Trust, Raipur. 8. Deputy Director of Geology and Mining, Raipur. 9. Deputy Director, Local Bodies, Raipur. 10. Deputy Director of Industries, Raipur. 11. Mining Officer, Raipur District. 12. Employment Officer, Raipur District.
19. Kanker (ST) • Collector, Bastar		1. Collectors Raipur and Durg Districts. 2. Conservator of Forest, Bastar. 3. Deputy Director, Tribal Welfare, Bastar District.

1	2	3
		4. Presiding Officer, Debt Relief Court, Bastar District. 5. Additional Director of Industries, Durg. 6. Joint Director of Agriculture, Durg and Raipur Districts. 7. Deputy Registrar, Co-operative Societies, Durg. 8. Divisional Employment Officer, Durg. 9. Deputy Directors of Industries, Durg and Raipur Districts. 10. Superintending Engineer (Irrigation) Shivanath Circle, Durg. 11. Superintending Engineer National Highways, Durg. 12. Mining Officers, Durg and Raipur Districts. 13. Assistant Soil Conservation Officer, Durg Districts. 14. Administrator, Municipal Corporation, Raipur. 15. Assistant Commissioner, Excise, Raipur. 16. Assistant Labour Commissioner, Raipur. 17. Joint Director of Town and Country Planning, Raipur. 18. Joint Director of Fisheries, Raipur. 19. Chairman, Town Improvement Trust, Raipur. 20. Deputy Director of Geology and Mining, Raipur. 21. Deputy Director, Local Bodies, Raipur. 22. Employment Officer, Raipur District.
20. Bastar (ST)	Collector, Bastar.	1. Conservator of Forest, Bastar. 2. Deputy Director of Tribal Welfare, Bastar. 3. Presiding Officer, Debt Relief Court, Bastar District.
21. Durg	Collector, Durg.	1. Additional Director of Industries, Durg. 2. Joint Director of Agriculture, Durg. 3. Deputy Registrar, Co-operative Societies, Durg. 4. Divisional Employment Officer, Durg. 5. Superintending Engineer, (Irrigation) Shivanath Circle, Durg. 6. Superintending Engineer, National Highways, Durg. 7. Deputy Director of Industries Durg, District. 8. Mining Officer, Durg District. 9. Assistant Soil Conservation Officer, Durg District.
22. Rajnandgaon	Collector, Rajnandgaon	1. Assistant Director of Fisheries, Rajnandgaon District. 2. Assistant Soil Conservation Officer, Rajnandgaon District. 3. Record of Rights Officer, Rajnandgaon District.

1	2	3
23. Balaghat .	Collector, Balaghat	1. District of Forest School, Pithapur District. 2. Assistant Director of Fisheries, Balaghat District.
24. Mandla (ST) .	Collector, Mandla	1. Collector, Seoni District. 2. Deputy Registrar, Co-operative Societies, Seoni. 3. Deputy Director of Industries, Mandla District.
25. Jabalpur .	Collector, Jabalpur.	1. Deputy Commissioner, Sales Tax, Jabalpur. 2. Assistant Commissioner, Excise, Jabalpur. 3. Deputy Director of Economics and Statistics Jabalpur. 4. Deputy Director of Employment and Training Jabalpur.
26. Seoni .	Collector, Seoni.	1. Collectors of Districts Jabalpur and Narasimhapur. 2. Deputy Commissioner, Sales Tax, Jabalpur. 3. Assistant Commissioner of Excise, Jabalpur. 4. Deputy Director of Economics and Statistics, Jabalpur. 5. Deputy Director of Employment and Training, Jabalpur 6. Deputy Registrar, Co-operative Societies, Seoni.
27. Chhindwara .	Collector, Chhindwara.	1. Project Officer, Small Farmers Development Agency, Chhindwara District. 2. Assistant Project Officer, Small Farmers Development Agency, Chhindwara District.
28. Betul .	Collector, Betul	1. Collector, Hoshangabad District. 2. Conservator of Forest, Hoshangabad, District. 3. Divisional Superintendent of Education, Hoshangabad. 4. Deputy Director of Industries, Hoshangabad, District. 5. Project Officer, Shahpur.
29. Hoshangabad .	Collector, Hoshangabad.	1. Collectors of Narsimhapur and Raisen Districts. 2. Divisional Superintendent of Education, Hoshangabad. 3. Conservator of Forest, Hoshangabad. 4. Deputy Director of Industries, Hoshangabad District.
30. Bhopal .	Collector, Bhopal.	1. Collectors of Sehore and Dewas Districts. 2. All Deputy Collectors posted as under Secretaries in Secretariat. 3. Deputy Director of Land Records, Bhopal. 4. Deputy Director of Industries, Bhopal District. 5. Assistant Commissioner of Excise, Bhopal.

1	2	3
		6. Divisional Soil Conservation Officer, Bhopal. 7. Allotment Officer, Commissioner's Office Bhopal. 8. Assistant Soil Conservation Officers, Sehore and Bhopal Districts 9. Presiding Officers, Debt Relief Courts, Sehore and Dewas Districts. 1. Collectors, Sehore and Raisen Districts. 2. Assistant Soil Conservation Officer, Sehore District. 3. Presiding Officer, Debt Relief Court, Sehore District.
31. Vidisha . . .	Collector, Vidisha.	1. Collectors of Guna and Vidisha Districts 2. Deputy Director of Industries, Rajgarh District.
32. Rajgarh . . .	Collector, Rajgarh	1. Collector, Dewas District. 2. Presiding Officer, Debt Relief Court, Dewas District
33. Shajapur . . .	Collector, Shajapur. (SC)	1. Collector, Dewas District. 2. Deputy Director of Industries, East Nimar (Khandwa) District. 3. Superintending Engineer, P.W.D. (B & R) East Nimar (Khandwa) District. 4. Assistant Commissioner, Sales Tax, East Nimar (Khandwa) District. 5. Sub-Divisional Officer of Forest, East Nimar (Khandwa) District.
34. Khandwa . . .	Collector, East Nimar (Khandwa)	6. Presiding Officer, Debt Relief Court, Dewas District. 1. Presiding Officer, Debt Relief Court, West Nimar (Khargone) District. 2. Nazul Enquiry Officer, West Nimar, (Khargone) District 3. Assistant Soil Conservation Officer, West Nimar (Khargone) District.
35. Khargone . . .	Collector, West Nimar (Khargone)	1. Collector, West Nimar (Khargone) District. 2. Regional Deputy Director, Tribal Welfare, Indore Division Headquarters, Dhar. 3. Presiding Officer, Debt Relief Court, West Nimar (Khargone) District. 4. Nazul Enquiry Officer, West Nimar (Khargone) District. 5. Assistant Soil Conservation Officer, West Nimar (Khargone) District.
36. Dhar (ST) . . .	Collector, Dhar	1. Deputy Director of Land Records, Indore. 2. Deputy Director of Industries, Indore. 3. Chairman, Town Improvement Trust, Indore. 4. Accounts Officer, Commissioner's Offices, Indore
37. Indore . . .	Collector, Indore.	1. Collector, Ratlam District. 2. Presiding Officer, Debt Relief Courts, Ujjain and Ratlam Districts
38. Ujjain (SC) . . .	Collector, Ujjain.	

1	2	3
		3. Nazul Officer, Ujjain and Ratlam Districts.
		4. Assistant Project Officer, Small Farmer Development Agency, Ratlam District.
		5. Assistant Soil Conservation Officer, Ratlam District.
39. Jhabua (ST)	Collector, Jhabua	1. Collector, Ratlam District.
		2. Nazul Officer, Ratlam District.
		3. Presiding Officer, Debt Relief Courts, Ratlam District
		4. Assistant Project Officer, Small Farmers Development Agency Ratlam District.
		5. Assistant Soil Conservation Officer, Ratlam District.
40. Mandsaur	Collector, Mandsaur.	1. Collector, Ratlam District.
		2. Joint Director of Agriculture, Mandsaur.
		3. Deputy Director of Fisheries, Gandhi Sagar.
		4. Project Officer, Small Farmers Development Agency, Mandsaur District.
		5. Assistant Project Officer, Small Farmers Development Agency, Ratlam District.
		6. Nazul Officer, Ratlam District.
		7. Presiding Officer, Debt Relief Courts, Ratlam District
		8. Assistant Soil Conservation Officer, Ratlam District

In addition to the officers specified in column 3 above, the following officers of the State Government to be the Assistant Returning Officers :—

- (a) For all parliamentary constituencies in the State the Joint Chief Electoral Officer and Deputy Chief Electoral Officers of the State,
- (b) For all the parliamentary constituencies comprised within a Revenue district or districts, the Additional Collectors, Assistant Collectors, Deputy Collectors, Treasury Officers, District Education Officers, District Panchayat and Welfare Officers, District Excise Officers, Sales Tax Officers, Divisional Forest Officers, Executive Engineers, PWD, Irrigation, Public Health Engineering and Tube Well Departments, Deputy Directors of Agriculture, Assistant Directors of Agriculture, Assistant Registrars of Co-operative Societies, District Organisers, Tribal Welfare, District Statistical Officers, Assistant Directors of Industries and Assistant Conservators of Forest posted in the district or districts as the case may be; and
- (c) For all the parliamentary constituencies within a Revenue Division, the Development Assistants to the Commissioners, Deputy Directors of Industries, Deputy Directors of Panchayats and Social Welfare, Deputy Registrars of Co-operative Societies, Regional Transport Officers, Deputy Directors of Tribal Welfare, and Deputy Directors of Treasuries and Accounts, posted in the division.

[No 434/MP/77 (1)]

By Order,  
P. K. MISRA, Secy.

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1977

का० आ० ७2 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 और धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना सं० 434 म०प्र० 75(1), तारीख 12 जनवरी, 1976 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से मध्य प्रदेश राज्य के मसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों, जैसा कि वे मसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिमितिम आदेश, 1976 की अनुसूची XII के भाग क में अन्तर्दिष्ट हैं और नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, उनमें से प्रत्येक के बारे में —

(क) उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में तत्सम नी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आफिसरों को रिटर्निंग आफिसर, और

(ख) उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आफिसरों को सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप में पदाभिहित करता है।

### सारणी

निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं० तथा नाम	रिटर्निंग आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2	3
1. मुरैना (अ०जा०) कलेक्टर, मुरैना		1. वन व्यवस्थापन अधिकारी, जिला मुरैना । 2. कार्यपालन मन्त्री, वेहड कृषिकरण योजना, जिला मुरैना । 3. सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, जिला मुरैना ।
2. भिण्ड कलेक्टर, भिण्ड		1. कलेक्टर, जिला दतिया । 2. पीठासीन अधिकारी, ऋण निवारण न्यायालय, जिला भिण्ड । 3. नजूल अधिकारी, जिला भिण्ड । 4. उप संचालक, उद्योग, जिला भिण्ड ।
3. ग्वालियर, कलेक्टर, ग्वालियर		1. कलेक्टर, जिला शिवपुरी । 2. उप संचालक भू-अभिलेख, ग्वालियर । 3. सहायक संचालक, अल्प बचत, ग्वालियर । 4. नजूल अधिकारी, जिला ग्वालियर ।
4. गुना कलेक्टर, गुना		1. कलेक्टर, जिला शिवपुरी ।
5. सागर (अ०जा०) कलेक्टर, सागर		1. संयुक्त संचालक, कृषि विभाग, सागर । 2. उप संचालक, मतस्य, सागर ।

1	2	3
6 खजुराहो	कलेक्टर, टीकमगढ़	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कलेक्टर, जिला छतरपुर ।</li> <li>2. उप संचालक, उद्योग, जिला छतरपुर ।</li> <li>3. उप संचालक, पर्यटन, जिला छतरपुर ।</li> </ol>
7. दमोह	कलेक्टर, दमोह	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कलेक्टर, पन्ना और छतरपुर जिले ।</li> <li>2. उप संचालक, उद्योग जिला छतरपुर ।</li> <li>3. उप संचालक, पर्यटन, जिला छतरपुर ।</li> <li>4. जिला पुनर्वास अधिकारी, जिला पन्ना ।</li> </ol>
8. सतना	कलेक्टर, सतना	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कलेक्टर, जिला जबलपुर ।</li> <li>2. सहायक बिजलीकरण आयुक्त, सतना ।</li> <li>3. सहायक श्रम आयुक्त, सतना ।</li> <li>4. पीठासीन आफिसर, ऋण निवारण न्यायालय, जिला सतना ।</li> <li>5. नजूल अधिकारी, जिला सतना ।</li> <li>6. उप आयुक्त, विक्रय कर जबलपुर ।</li> <li>7. सहायक आयुक्त, आबकारी, जबलपुर ।</li> <li>8. उप संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, जबलपुर ।</li> <li>9. उप संचालक, रोजगार तथा प्रशिक्षण, जबलपुर ।</li> </ol>
9 रोवा	कलेक्टर, रोवा	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कलेक्टर, जिला सतना ।</li> <li>2. उप संचालक, भू-अभिलेख, रोवा ।</li> <li>3. पीठासीन अधिकारी, ऋण निवारण न्यायालय, जिला रोवा एवं सतना ।</li> <li>4. नजूल अधिकारी, जिला सतना ।</li> <li>5. सहायक विक्रय कर आयुक्त, सतना ।</li> <li>6. सहायक श्रम आयुक्त, सतना ।</li> </ol>
10. सीधी	कलेक्टर, सीधी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कलेक्टर, जिला सरगुजा ।</li> <li>2. पीठासीन अधिकारी, ऋण निवारण न्यायालय, जिला सीधी ।</li> <li>3. पुनर्वास अधिकारी, आरागही ।</li> </ol>

1	2	3
		4. खनिज अधिकारी, जिला सरगुजा । 5. उप संचालक, अदिम जाति कल्याण विभाग, जिला सरगुजा । 6. उप संचालक, उद्योग, जिला सरगुजा ।
11. शहडोल (अ०ज०जा०)	कलेक्टर, शहडोल	1. पीठामीन अधिकारी, ऋण निवारण न्यायालय, जिला शहडोल । 2. नजूल अधिकारी, जिला शहडोल ।
12. सरगुजा (अ०ज०जा०)	कलेक्टर, सरगुजा	1. उप संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला सरगुजा । 2. उप संचालक, उद्योग, जिला सरगुजा । 3. पुनर्वास अधिकारी, आरगही । 4. खनिज अधिकारी, जिला सरगुजा ।
13. रायगढ़ (अ०ज०जा०)	कलेक्टर, रायगढ़	1. उप वजीयक, सहकारी समितिया, रायगढ़ । 2. उप संचालक, उद्योग, जिला रायगढ़ । 3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (वन स्रोत), रायगढ़ ।
14. जांजगीर	कलेक्टर, बिलासपुर	1. सहायक आयुक्त आबकारी, बिलासपुर । 2. सहायक आयुक्त विक्रय कर, बिलासपुर । 3. उप संचालक, भू-अभिलेख, बिलासपुर । 4. संभागीय भू-संरक्षण अधिकारी, बिलासपुर । 5. वन व्यवस्थापन अधिकारी, जिला बिलासपुर । 6. खनिज अधिकारी, जिला बिलासपुर । 7. सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, जिला बिलासपुर ।
15. बिलासपुर ;	कलेक्टर, बिलासपुर	1. सहायक आयुक्त आबकारी, बिलासपुर । 2. सहायक आयुक्त विक्रय कर, बिलासपुर । 3. उप संचालक, भू-अभिलेख, बिलासपुर । 4. संभागीय भू-संरक्षण अधिकारी, जिला बिलासपुर । 5. वन व्यवस्थापन अधिकारी, जिला बिलासपुर ।



1	2	3
		6 खनिज अधिकारी, जिला बिलासपुर ।
		7 सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, जिला बिलासपुर ।
16. रायगढ़ (अ० जा०)	कलेक्टर रायपुर	1 कलेक्टर रायगढ़ तथा बिलासपुर जिले । 2 प्रशासक, नगर पालिका निगम, रायपुर । 3. सहायक आयुक्त, आवकारी, रायपुर और बिलासपुर जिले । 4. सहायक आयुक्त, रायपुर । 5. सयुक्त सचालक, नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजक, रायपुर । 6. सयुक्त सचालक, मतस्य, रायपुर । 7. सयुक्त सचालक, कृषि, रायपुर । 8. अध्यापक, नगर सुधार न्यास, रायपुर । 9. उप सचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर । 10 उप सचालक, स्थानीय संस्थाये, रायपुर । 11. उप सचालक, उद्योग, जिला रायपुर एवं रायगढ़ । 12 खनिज अधिकारी, जिला रायपुर एवं बिलासपुर । 13 रोजगार अधिकारी, जिला रायपुर । 14 सभागीय भू-संरक्षण अधिकारी, बिलासपुर । 15 उप सचालक, भू-अभिलेख, बिलासपुर । 16. सहायक आयुक्त वित्तीय-कर, बिलासपुर । 17. वन व्यवस्थापन अधिकारी, बिलासपुर । 18 सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, जिला बिलासपुर । 19 उप पञ्जीयक, सहकारी समितिया, रायगढ़ । 20. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (वन स्रोत), रायगढ़ ।
17. रायपुर	कलेक्टर, रायपुर	1. प्रशासक, नगर पालिका निगम, रायपुर । 2. सहायक आयुक्त, आवकारी, रायपुर ।

1	2	3
		3. सहायक श्रमायुक्त, रायपुर । 4. सचालक, नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन, रायपुर । 5. संयुक्त सचालक, मतस्य रायपुर । 6. संयुक्त सचालक, कृषि, रायपुर । 7. अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, रायपुर । 8. उप सचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर । 9. उप सचालक, स्थानीय सस्याये, रायपुर । 10. उप सचालक, उद्योग, जिला रायपुर । 11. खनिज अधिकारी, जिला रायपुर । 12. रोजगार अधिकारी, जिला रायपुर ।
18. महासमुन्द	कलेक्टर, रायपुर	1. प्रशामक, नगर पालिक निगम, रायपुर । 2. सहायक श्रमायुक्त आबकारी, रायपुर । 3. सहायक श्रमायुक्त, रायपुर । 4. संयुक्त सचालक, नगर एवं क्षेत्र नियोजन, रायपुर । 5. संयुक्त सचालक, मतस्योद्योग, रायपुर । 6. संयुक्त सचालक, कृषि, रायपुर । 7. अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, रायपुर । 8. उप सचालक, भौमिकी तथा खनिज कर्म, रायपुर । 9. उप सचालक, स्थानीय मस्थाए, रायपुर । 10. उप सचालक, उद्योग, जिला रायपुर । 11. खनिज अधिकारी, जिला रायपुर । 12. रोजगार अधिकारी, जिला रायपुर ।
19. काकेर (अ०ज०जा०)	कलेक्टर वस्तर	1. कलेक्टर, रायपुर तथा दुर्ग जिले । 2. घन संरक्षक, वस्तर । 3. उप सचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला वस्तर ।

1	2	3
		<p>4. पीठासीन अधिकारी, ऋण निवारण न्यायालय, जिला वस्तर ।</p> <p>5. अपर संचालक, उद्योग, दुर्ग ।</p> <p>6. संयुक्त संचालक, कृषि, दुर्ग तथा रायपुर जिले ।</p> <p>7. उप पजीयक सहकारी समितियाँ, दुर्ग ।]</p> <p>8. सभागीय रोजगार अधिकारी, दुर्ग ।</p> <p>9. उप संचालक, उद्योग, जिला दुर्ग तथा रायपुर ।</p> <p>10. अधीक्षण यंत्री, सिचाई (शिवनाथ वृत्त) दुर्ग ।</p> <p>11. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय मार्ग वृत्त दुर्ग ।</p> <p>12. खनिज अधिकारी, जिला दुर्ग तथा रायपुर ।</p> <p>13. सहायक भू-संरक्षण, अधिकारी, जिला दुर्ग ।</p> <p>14. प्रशासक, नगरपालिक निगम, रायपुर ।</p> <p>15. सहायक आयुक्त आबकारी, रायपुर ।</p> <p>16. सहायक श्रमायुक्त, रायपुर ।</p> <p>17. संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन, रायपुर ।</p> <p>18. संयुक्त संचालक, मतस्य, रायपुर ।</p> <p>19. अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, रायपुर ।</p> <p>20. उप संचालक, भौमिकी तथा खनिजकर्म, रायपुर ।</p> <p>21. उप संचालक, स्थानीय मस्थाएँ, रायपुर ।</p> <p>22. रोजगार अधिकारी, जिला रायपुर ।</p>
20. वस्तर	कलेक्टर वस्तर	<p>1. वन संरक्षक, वस्तर ।</p> <p>2. उप संचालक, आदिमजानि कल्याण विभाग, जिला वस्तर ।</p> <p>3. पीठासीन अधिकारी, ऋण निवारण न्यायालय, जिला वस्तर ।</p>
(अ०ज०जा०)		

1	2	3
21. दुर्ग	कलेक्टर दुर्ग	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर संचालक, उद्योग, दुर्ग ।</li> <li>2. संयुक्त संचालक, कृषि, दुर्ग ।</li> <li>3. उप पंजीयक, सहकारी समितियां, दुर्ग ।</li> <li>4. सभागीय रोजगार, अधिकारी, दुर्ग ।</li> <li>5. अधीक्षण, यंत्री, सिचाई, (शिवनाथ वृत्त), दुर्ग ।</li> <li>6. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय मार्ग, दुर्ग ।</li> <li>7. उप संचालक, उद्योग, जिला दुर्ग ।</li> <li>8. खनिज अधिकारी, जिला दुर्ग ।</li> <li>9. सहायक भू-सरक्षण अधिकारी, जिला दुर्ग ।</li> </ol>
22. राजनांदगाव	कलेक्टर राजनांदगाव	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. सहायक संचालक, मतस्य, जिला राजनांदगाव ।</li> <li>2. सहायक भू-सरक्षण अधिकारी, जिला राजनांदगाव ।</li> <li>3. अधिकार [अभिलेख अधिकारी, जिला राजनांदगाव ।</li> </ol>
23. बालाघाट	कलेक्टर बालाघाट	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. संचालक, फारेस्ट स्कूल, जिला बालाघाट ।</li> <li>2. सहायक संचालक, मतस्य, जिला बालाघाट ।</li> </ol>
24. मंडला (अ०ज०आ०)	कलेक्टर मंडला	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कलेक्टर, जिला सिवनी ।</li> <li>2. उप पंजीयक, सहकारी समितियां, सिवनी ।</li> <li>3. उप संचालक, उद्योग, जिला मंडला ।</li> </ol>
25. जबलपुर	कलेक्टर जबलपुर	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप आयुक्त, विक्रयकर, जबलपुर ।</li> <li>2. सहायक आयुक्त, आबकारी, जबलपुर ।</li> <li>3. उप संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, जबलपुर ।</li> <li>4. उप संचालक, रोजगार तथा प्रशिक्षण, जबलपुर ।</li> </ol>
26. सिवनी	कलेक्टर सिवनी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कलेक्टर, जबलपुर तथा नरसिंहपुर जिले ।</li> <li>2. उप आयुक्त, विक्रयकर, जबलपुर ।</li> </ol>

1	2	3
		3. सहायक आयुक्त आबकारी, जबलपुर । 4. उप सचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, जबलपुर । 5. उप सचालक, रोजगार तथा प्रशिक्षण, जबलपुर । : 6. उप पजीयक, सहकारी समितिया, सिवनी ।
27 छिदवाडा	कलेक्टर छिदवाडा	1. परियोजना अधिकारी, लघु कृषक विकास अभिकरण, जिला छिदवाडा । 2. सहायक परियोजना अधिकारी, लघु कृषक विकास अभिकरण, जिला छिदवाडा ।
28. बैतूल	कलेक्टर बैतूल	1. कलेक्टर, जिला होशंगाबाद । 2. वन सरक्षक, जिला होशंगाबाद । 3. संभागीय अधीक्षक, शिक्षा विभाग, होशंगाबाद । 4. उप सचालक, उद्योग, जिला होशंगाबाद । 5. परियोजना अधिकारी, शाहपुर ।
29. होशंगाबाद	कलेक्टर होशंगाबाद	1.] कलेक्टर, नरसिंहपुर तथा रायसेन जिले । 2. संभागीय अधीक्षक, शिक्षा विभाग, होशंगाबाद । 3. वन सरक्षक, होशंगाबाद । 4. उप सचालक, उद्योग, जिला होशंगाबाद ।
30 भोपाल	कलेक्टर भोपाल	1. कलेक्टर, सीहोर तथा देवास जिले । 2. सचिवालय में अवर सचिव पदों पर पदस्थ ममस्त डिप्टी कलेक्टर । 3. उप सचालक, भू-अभिलेख, भोपाल । 4. उप सचालक, उद्योग, जिला भोपाल । 5. सहायक आयुक्त, आबकारी, भोपाल । 6. संभागीय भू-सरक्षण अधिकारी, भोपाल । 7. आक्टन अधिकारी, आयुक्त कार्यालय, भोपाल ।

1	2	3
		8. सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, भोपाल तथा सीहोर जिले । 9. पीठासीन अधिकारी, ऋण निवारण न्यायालय, सीहोर तथा देवास जिले ।
31. विदिशा	कलेक्टर विदिशा	1. कलेक्टर, सीहोर तथा रायसेन जिले । 2. सहायक, भू-संरक्षण अधिकारी, जिला सीहोर । 3. पीठासीन अधिकारी, ऋण निवारण न्यायालय, जिला सीहोर ।
32. राजगढ़	कलेक्टर राजगढ़	1. कलेक्टर, गुना तथा विदिशा जिले । 2. उप-संचालक, उद्योग, जिला राजगढ़ ।
33. शाजापुर (अ०जा०)	कलेक्टर शाजापुर	1. कलेक्टर, जिला देवास । 2. पीठासीन अधिकारी, ऋण निवारण न्यायालय, जिला देवास ।
34. खण्डवा	कलेक्टर पूर्वी निमाड (खण्डवा)	1. कलेक्टर, जिला देवास । 2. उप-संचालक, उद्योग, जिला पूर्वी निमाड (खण्डवा) । 3. अधीक्षण यंत्रो, लोक निर्माण विभाग, पूर्वी निमाड (खण्डवा) । 4. सहायक आयुक्त, विप्रेक्षक, पूर्वी निमाड (खण्डवा) । 5. अनुविभागीय अधिकारी वन विभाग, जिला पूर्वी निमाड (खण्डवा) । 6. पीठासीन अधिकारी, ऋण निवारण न्यायालय, जिला देवास ।
35. खरगोन	कलेक्टर पश्चिमी निमाड (खरगोन)	1. पीठासीन अधिकारी, ऋण निवारण न्यायालय, जिला पश्चिमी निमाड (खरगोन) । 2. नजूल जांच अधिकारी, जिला पश्चिमी निमाड (खरगोन) । 3. सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, जिला पश्चिमी निमाड (खरगोन) ।

1	2	3
36. धार (अ०ज०जा०)	कलेक्टर धार	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कलेक्टर, जिला पूर्वी निमाड़ (खरगौन) ।</li> <li>2. क्षेत्रीय उप-संचालक, प्राविमजाति कल्याण विभाग, इन्दौर संभाग, मुख्यालय धार ।</li> <li>3. पीठासीन अधिकारी, ऋण निवारण न्यायालय, जिला पूर्वी निमाड़ (खरगौन) ।</li> <li>4. नजूल जांच अधिकारी, जिला पूर्वी निमाड़ (खरगौन) ।</li> <li>5. सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, जिला पूर्वी निमाड़ (खरगौन) ।</li> </ol>
37. इन्दौर	कलेक्टर इन्दौर	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप संचालक, भू-अभिलेख, इन्दौर ।</li> <li>2. उप संचालक, उद्योग, इन्दौर ।</li> <li>3. अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, इन्दौर ।</li> <li>4. लेखाधिकारी, प्रायुक्त कार्यालय, इन्दौर ।</li> </ol>
38. उज्जैन (अ०जा०)	कलेक्टर उज्जैन	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कलेक्टर, जिला रतलाम ।</li> <li>2. पीठासीन अधिकारी, ऋण निवारण न्यायालय, उज्जैन तथा रतलाम जिले ।</li> <li>3. नजूल अधिकारी, उज्जैन तथा रतलाम जिले ।</li> <li>4. सहायक परियोजना अधिकारी, लघु कृषक विकास अभिकरण, जिला रतलाम ।</li> <li>5. सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, जिला रतलाम ।</li> </ol>
39. झाबुआ (अ०ज०जा०)	कलेक्टर झाबुआ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कलेक्टर, जिला रतलाम ।</li> <li>2. नजूल अधिकारी, जिला रतलाम ।</li> <li>3. पीठासीन अधिकारी, ऋण निवारण न्यायालय, जिला रतलाम ।</li> <li>4. सहायक परियोजना अधिकारी, लघु कृषक विकास अभिकरण, जिला रतलाम ।</li> <li>5. सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, जिला रतलाम ।</li> </ol>

1	2	3
40. मदसौर	कलेक्टर मदसौर	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कलेक्टर, जिला रतलाम ।</li> <li>2. संयुक्त संचालक, कृषि, मदसौर ।</li> <li>3. उप-संचालक, मतस्य, गांधी सागर ।</li> <li>4. परियोजना अधिकारी, लघु कृषक विकास अभिकरण, जिला मदसौर ।</li> <li>5. सहायक परियोजना अधिकारी, लघु कृषक विकास अभिकरण, जिला रतलाम ।</li> <li>6. नजूल अधिकारी, जिला रतलाम ।</li> <li>7. पोठासन अधिकारी, ऋण निवारण व्यावसाय, जिला रतलाम ।</li> <li>8. सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, जिला रतलाम ।</li> </ol>

ऊपर सूच्य (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के अलावा राज्य शासन के निम्नलिखित अधिकारियों को भी सहायक रिटनिंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है :—

- (क) राज्य के समस्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और उप-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ।
- (ख) राजस्व जिले या जिलों में सन्निहित समस्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए, उस जिले या उन जिलों में पदस्थ समस्त और कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कोषालय अधिकारी, जिला शिक्षाधिकारी, जिला पंचायत एवं सेवा अधिकारी, जिला आवकारी अधिकारी, विक्रय कर अधिकारी, वन मंडलाधिकारी, लोक कर्म, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय और नलकूप विभागों के कार्यपालन मंत्रीगण, उप-संचालक कृषि, सहायक संचालक कृषि, सहायक पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला संयोजक आदिमजाति कल्याण, जिला सांख्यिकीय अधिकारी, सहायक संचालक उद्योग तथा सहायक संरक्षक, वन विभाग;
- (ग) राजस्व संभाग से सन्निहित समस्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए उस संभाग में पदस्थ आयुक्त के विकास सहायक, उप-संचालक उद्योग, उप-संचालक पंचायत तथा समाज सेवा, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उप-संचालक आदिमजाति कल्याण और उप-संचालक कोषालय तथा लेखा ।

[सं० 434/म० प्र०/77 (1)]

आदेश से,

प्र० कु० मिश्र, सचिव ।



New Delhi, the 29th January 1977

**S. O. 93(E)** —In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434 MT/75(I) dated 21 November 1975, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Maharashtra, the officer of Government specified in column 2 of the Table below as the Returning Officer of the parliamentary constituency in the State of Maharashtra as contained in Part A of Schedule XIII to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and specified in column 1 of the said Table against such officer of Government:—

TABLE

Serial No. and name of the parliamentary Constituency	Returning Officer
1	2
1. Rajapur . . . . .	Collector of Ratnagiri.
2. Ratnagiri . . . . .	Collector of Ratnagiri.
3. Kolaba . . . . .	Collector of Kolaba, Alibag
4. Bombay South . . . . .	Collector of Bombay
5. Bombay South Central . . . . .	Collector of Bombay
6. Bombay North Central . . . . .	Additional Collector (Encroachments) and Controller of Slums, Bombay and Bombay Suburban District, Old Custom House, Bombay-1.
7. Bombay North, East . . . . .	Additional Collector, Bombay Suburban Dis- trict, Bombay.
8. Bombay North West . . . . .	Additional Collector, Bombay Suburban District, Bombay.
9. Bombay North . . . . .	Additional Collector and Competent Authority (Urban Land Ceiling) Bombay and Bombay Suburban District, Old Secretariat Building Bombay-1.
10. Thana . . . . .	Collector of Thana.
11. Dahanu (ST) . . . . .	Additional Collector, Thana.
12. Nasik . . . . .	Collector of Nasik.
13. Malegaon (ST) . . . . .	Collector of Nasik.
14. Dhulia . . . . .	Collector of Dhule.
15. Nandurbar (ST) . . . . .	Collector of Dhule.
16. Erandol . . . . .	Collector of Jalgaon
17. Jalgaon . . . . .	Collector of Jalgaon
18. Buldhana (SC) . . . . .	Collector of Buldhana
19. Akola . . . . .	Collector of Akola.
20. Washim . . . . .	Collector of Akola.
21. Amravati . . . . .	Collector of Amravati
22. Ramtek . . . . .	Collector of Nagpur.
23. Nagpur . . . . .	Collector of Nagpur.
24. Bhandara . . . . .	Collector of Bhandara.
25. Chimum . . . . .	Collector of Bhandara.
26. Chandrapur . . . . .	Collector of Chandrapur.

1	2
27. Wardha	Collector of Wardha.
28. Yeotmal	Collector of Yeotmal.
29. Hingoli	Collector of Nanded.
30. Nanded	Collector of Nanded.
31. Parbhani	Collector of Parbhani.
32. Jalna	Collector of Aurangabad.
33. Aurangabad	Collector of Aurangabad.
34. Bhur	Collector of Bhur.
35. Latur	Collector of Usmanabad.
36. Osmanabad (SC)	Collector of Usmanabad.
37. Sholapur	Collector of Solapur.
38. Pandharpur (SC)	Collector of Solapur.
39. Ahmednagar	Collector of Ahmednagar.
40. Kopergaon	Collector of Ahmednagar.
41. Khed	Additional Collector of Pune.
42. Poona	Collector of Pune.
43. Baramati	Collector of Pune.
44. Satara	Collector of Satara.
45. Karad	Collector of Satara.
46. Sangli	Collector of Sangli.
47. Ichalkaranji	Collector of Kolhapur.
48. Kolhapur	Collector of Kolhapur.

The Election Commission's notification No. 434/MT/73 dated 23 August, 1973 is hereby cancelled.

[No. 434/MT/77(1)]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1977

**का० प्र० 93 (अ).—**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, तथा अपनी अधिसूचना म० 434/महा०/75(1) तारीख 21 नवम्बर, 1975 को अधिकाृत करते हुए निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर को महाराष्ट्र राज्य में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, जैसा कि वह संसदीय तथा सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन अधिनियम, 1976 की अनुसूची XIII के भाग 'क' में अन्तर्दिष्ट है, और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में सरकार के ऐसे आफिसर के सामने विनिर्दिष्ट है, रिटनिंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है :—

### सारणी

निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या तथा नाम

रिटनिंग आफिसर

1	2
1. राजापुर	कलेक्टर, रतनगिरि।

1	2
2. रत्नगिरि	कलक्टर, रत्नगिरि ।
3. कोलाबा	कलक्टर, कोलाबा, अक्लीवाग ।
4. बम्बई दक्षिण	कलक्टर, बम्बई ।
5. बम्बई दक्षिण केन्द्रीय	कलक्टर, बम्बई ।
6. बम्बई उत्तर केन्द्रीय	अपर कलक्टर (अधिकर्मग), तथा नियंत्रक गवी बस्ती, बम्बई और बम्बई उपनगर जिला, प्रोल्ड कस्टम हाउस, बम्बई-1 ।
7. बम्बई उत्तर पूर्व	अपर कलक्टर, बम्बई उपनगर जिला, बम्बई ।
8. बम्बई उत्तर पश्चिम	अपर कलक्टर, बम्बई उपनगर जिला, बम्बई ।
9. बम्बई उत्तर	अपर कलक्टर और सक्षम प्राधिकारी (गहरी भूमि सीमा), बम्बई और बम्बई उपनगर जिला, पुराना सचिवालय भवन, बम्बई-1 ।
10. थाना	कलक्टर, थाना ।
11. दहानू (अ० ज० जा०)	अपर कलक्टर, थाना ।
12. नासिक	कलक्टर, नासिक ।
13. मालेगाव (अ० ज० जा०)	कलक्टर, नासिक ।
14. धुलिया	कलक्टर, धुले ।
15. नन्दुरघाव (अ० ज० जा०)	कलक्टर, धुले ।
16. इरवेल	कलक्टर, जलगाव ।
17. जलगाव	कलक्टर, जलगाव ।
18. बुलढाना (अ० जा०)	कलक्टर, बुलढाना ।
19. अकोला	कलक्टर, अकोला ।
20. वाशिम	कलक्टर, अकोला ।
21. अमरावती	कलक्टर, अमरावती ।
22. रानटेक	कलक्टर, नागपुर ।
23. नागपुर	कलक्टर, नागपुर ।
24. भंडारा	कलक्टर, भंडारा ।
25. चिमुर	कलक्टर, भंडारा ।
26. चन्द्रपुर	कलक्टर, चन्द्रपुर ।
27. वर्धा	कलक्टर, वर्धा ।
28. यवतमाल	कलक्टर, यवतमाल ।

1	2
29. हिंगोली	कलकटर, नान्देड ।
30. नान्देड	कलकटर, नान्देड ।
31. परभनी	कलकटर, परभनी ।
32. जलना	कलकटर, श्रीरंगाबाद ।
33. श्रीरंगाबाद	कलकटर, श्रीरंगाबाद ।
34. भिर	कलकटर, भिर ।
35. साटुर	कलकटर, ओसमानाबाद ।
36. ओसमानाबाद (अ० जा०)	कलकटर, ओसमानाबाद ।
37. शोलापुर	कलकटर, शोलापुर ।
38. पंझरपुर (अ० जा०)	कलकटर, शोलापुर ।
39. अहमदनगर	कलकटर, अहमदनगर ।
40. कोपरगांव	कलकटर, अहमदनगर ।
41. खेड	अपर कलकटर, पूणे ।
42. पुना	कलकटर, पूणे ।
43. वारामती	कलकटर, पूणे ।
44. सतारा	कलकटर, सतारा ।
45. कराड	कलकटर, सतारा ।
46. सांगली	कलकटर, सांगली ।
47. इचलकराजी	कलकटर, कोल्हापुर ।
48. कोल्हापुर	कलकटर, कोल्हापुर ।

भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं० 434/महाराष्ट्र/73, तारीख 23 अगस्त, 1973 एतद्वारा रद्द की जाती है ।

S. O. 94(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its Notification N. 434/MT/75 (2) dated 21 November 1955, the Election Commission hereby appoints each of the Officers of Government as specified in column 2 of the Table below as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the parliamentary constituency in the State of Maharashtra as contained in Part A of Schedule XIII to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and specified in column 1 of the said Table against such officer or officers of Government in the performance of the functions of such Returning Officer —

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
1. Returning Officer of 1-Rajapur Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Officer, Sawantwadi Division, Sawantwadi. 2. Forest Settlement Officer, Sawantwadi, Sawantwadi. 3. Special Land Acquisition Officer, (B&C Department) Ratnagiri, Ratnagiri. 4. District Supply Officer, Ratnagiri, Ratnagiri. 5. Leave Reserve Deputy Collector, Ratnagiri, Ratnagiri. 6. Special Land Acquisition Officer, (Regular) Ratnagiri, Ratnagiri.
2. Returning Officer of 2-Ratnagiri Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Officer, Ratnagiri Division, Ratnagiri. 2. Special Land Acquisition Officer (Minor Irrigation), Ratnagiri, Ratnagiri. 3. Sub-Divisional Officer, Chiplun Division, Chiplun. 4. Special Land Acquisition Officer (Kerken Krishi Vidyapith), Dapoli, Dapoli. 5. Sub-Divisional Officer, Dapoli Division, Dapoli. 6. Sub-Divisional Officer, Mahad Division, Mahad.
3. Returning Officer of 3-Kulaba Parliamentary Constituency.	1. Special Land Acquisition Officer, (Kal Project), Roha District, Kulaba. 2. Special Land Acquisition Officer, (Kal Project II), Mangaon, District, Kulaba. 3. Special Land Acquisition Officer (I), Kulaba, Alibag. 4. Sub-Divisional Officer, Alibag Division, Alibag. 5. Sub-Divisional Officer, Panvel Division, Panvel. 6. Special Land Acquisition Officer, Metro, Centre (I), Panvel.
4. Returning Officer of 4-Bombay South Parliamentary Constituency.	1. Competent Authority, Greater Bombay PWD Building, Opposite CTO, Bombay-1. 2. Planning Officer, Greater Bombay Planning Board, Bombay Collectorate, Old Customs House, Fort, Bombay-1.

1

2

3. Shri V. R. Gogate (Dy. Collector) Project Manager of the World Food Project, Mantaralaya, Bombay-32.
  4. Deputy Collector, Tenure Abolition Branch, Bombay Collectorate, Old Custom House, Fort, Bombay-1.
  5. Deputy Chief Executive Officer, House Repairs and Reconstruction Board, New Administrative Building, Madame Cama Road, Bombay-1.
  6. Deputy Collector, Bombay and Resident Deputy Collector, Bombay Suburban District, Old Custom House, Fort, Bombay-1.
5. Returning Officer of 5 Bombay South Central Parliamentary Constituency
1. Superintendent, Bombay City Survey and Land Records, Bombay Collectorate, Old Custom House, Fort, Bombay-1.
  2. Sub-Divisional Officer, Bombay Suburban District, Old Custom House, Fort, Bombay-1.
  3. Deputy Collector, Sales Tax Recovery Bombay and Bombay Suburban District Vikrikar Bhavan, Mazgaon, Bombay-10.
  4. Deputy Collector (Encroachment) Bombay City, Bombay Collectorate, Old Custom House, Fort, Bombay-1.
  5. Shri V. H. Sakhker, Under Secretary, Planning Department, Mantaralaya Bombay-32.
  6. Deputy Collector, Appellate No. 1, Old Custom House, Fort, Bombay-1.
6. Returning Officer of 6 Bombay North Central Parliamentary Constituency.
1. Competent Authority No. 1, Maharashtra Housing Board, Griha Nirman Bhavan Bandra (East), Bombay-51.
  2. Assistant Director of Municipal Administration, New Administrative Building, Madam, Cama Road, Bombay-1.
  3. Deputy Controller of Slums, Old Customs House, Bombay-1.
  4. Competent Authority, Bombay House Repairs and Reconstruction Board, Sion Kolawada Transit Camp No. 2, Sion, Bombay-22.
  5. Deputy Chief Executive Officer, Slum Improvement Board, New Administrative Bldg, Madame Cama Rd. Bombay-1.
  6. Special Land Acquisition Officer No. 4, Old Custom, House, Fort, Bombay-1.
7. Returning Officer of 7 Bombay North East Parliamentary Constituency.
1. Leave Reserve Deputy Collector, Bombay Suburban District, Old Custom House, Fort, Bombay-1.
  2. Special Land Acquisition Officer No. 2, Old Custom House, Fort, Bombay-1.
  3. Special Land Acquisition Officer No. 5, Maharashtra Housing Board, Griha Nirman Bhavan, Bandra (East), Bombay-51.
  4. Special Land Acquisition Officer No. 1, Maharashtra Housing Board, Griha Nirman Bhavan, Bandra (East), Bombay-51.
  5. Deputy Collector (Encroachment), Bombay, Suburban District, Kurla, Topiwala College Building, Mulund (West), Bombay-80.
  6. Special Land Acquisition Officer (7), Bombay Municipal Corporation, Bombay-1.

1

2

8. Returning Officer of 8 Bombay North West Parliamentary Constituency.
1. Deputy Collector (Encroachments), Bombay Suburban District, Maharashtra Housing Board, Griha Nirman Bhavan, Bandra (East) Bombay-51.
  2. Shri B.D. Shinde, Deputy Director of Civil Supplies, Harchandrai Building, Karve Marg, Bombay-2.
  3. Deputy Collector Appellate No. 2, Bombay Collectorate Old Custom House, Fort, Bombay, 1.
  4. Assistant Director of Town Planning, Tenure Abolition Branch, Old Custom House Fort, Bombay-1.
  5. Shri S. R. Sawant, Under Secretary, Revenue and Forests Department, Mantralaya, Bombay-32.
  6. Additional District Deputy Collector, Bombay Suburban District, Dadabhoy Road, Andheri, Bombay 58.
9. Returning Officer of 9 Bombay North Parliamentary Constituency.
1. Shri U. S. Ranadive, Under Secretary, Revenue and Forests Department, Mantralaya, Bombay-32.
  2. Shri B.B. Patil, Under Secretary, Food and Civil Supplies Department, Mantralaya Bombay-32.
  3. Special Land Acquisition Officer No. 3, Old Custom House, Fort, Bombay-1.
  4. Special Land Acquisition Officer (Highway), Old Custom House, Fort, Bombay-1.
  5. Project Officer, Small Farmers Development Agencies (Thana, Nasik), Thana.
  6. Special Land Acquisition Officer, Minor Irrigation Works, Thana.
10. Returning Officer of 10 Thana Parliamentary Constituency.
1. Sub-Divisional Officer, Thana Division, Thana.
  2. Special Land Acquisition Officer, Diw-Bassin Road/Rail Link Project, Thana.
  3. Administrator, Ulhasnagar Township, Ulhasnagar.
  4. Special Land Acquisition Officer (I), Thana.
  5. Special Land Acquisition Officer, Metro Centre (I), Thana.
  6. Special Land Acquisition Officer, Metro Centre, (III), Thana.
11. Returning Officer of 11 Dahanu (ST) Parliamentary Constituency.
1. District Resettlement Officer, Thana.
  2. Sub-Divisional Officer, Bhiwandi Division Thana.
  3. Sub-Divisional Officer, Dahanu Division, Dahanu.
  4. Special Land Acquisition Officer, Thana.
  5. Special Land Acquisition Officer, Ulhas-Valley Project, Thana.
  6. Special Land Acquisition Officer, Vaitarna Hydro-Electric Project, Nasik.
12. Returning Officer of 12-Nasik Parliamentary Constituency.
1. Assistant Collector, Nasik Division Nasik.
  2. Leave Reserve Deputy Collector, Nasik.
  3. Special Land Acquisition Officer, National Highway Project, Nasik.
  4. Assistant Collector, Niphad Division, Nasik.

1

2

- 5, Special Land Acquisition Officer No. 1 Nasik.
- 6, Special Land Acquisition Officer, Jayakwadi Project No. III, Ahmednagar
13. Returning Officer of 13-Malegaon (ST) Parliamentary Constituency
1. Special Land Acquisition Officer No. 2 Nasik
2. Sub-Divisional Officer, Malegaon Division, Malegaon.
3. Special Land Acquisition Officer, Zilla Parishad, Nasik.
4. Special Land Acquisition Officer, Minor Irrigation, Nasik.
5. District Resettlement Officer, Nasik.
6. Special Land Acquisition Officer, Irrigation II, Nasik
14. Returning Officer of 14-Dhule Parliamentary Constituency.
1. Special Land Acquisition Officer, U.G.P. Karanjwan, Nasik.
2. Special Land Acquisition Officer, Irrigation No. I, Nasik.
3. Special Land Acquisition Officer, Panzara and Kanoli Project, Dhule.
4. Special Land Acquisition Officer, M.I. Project, Dhule.
5. Sub-Divisional Officer, Dhule Division, Dhule.
15. Returning Officer of 15-Nandurbar (ST) Parliamentary Constituency.
1. Sub-Divisional Officer, Nandurbar Division Nandurbar.
2. Leave Reserve Deputy Collector, Dhule
3. District Supply Officer, Dhule.
4. Special Land Acquisition Officer, Dhule
16. Returning Officer of 16-Hatnur Parliamentary Constituency.
1. Special Land Acquisition Officer (II), Hatnur Project, Jalgaon.
2. Special Land Acquisition Officer (I) Jalgaon.
3. Sub-Divisional Officer, Amalner Division, Amalner.
4. Special Land Acquisition Officer, Minor Irrigation Works, Jalgaon.
5. Leave Reserve Deputy Collector Jalgaon.
6. Sub-Divisional Officer, Chalisgaon Division Jalgaon.
17. Returning Officer of 17-Jalgaon Parliamentary Constituency.
1. Resident Deputy Collector, Jalgaon.
2. Special Land Acquisition Officer (I), Hatnu, Project, Jalgaon.
3. District Supply Officer, Jalgaon.
4. Special Land Acquisition Officer, Jalgaon.
5. Sub-Divisional Officer, Jalgaon Division, Jalgaon.
6. District Resettlement Officer, Jalgaon.
18. Returning Officer of 18-Buldhana (SC) Parliamentary Constituency.
1. Sub-Divisional Officer, Malkapur Division, Malkapur.
2. Resident Deputy Collector, Buldhana.
3. Sub-Divisional Officer, Buldhana Division, Buldhana.
4. Special Land Acquisition Officer, Minor Irrigation Works, Buldhana.
5. Sub-Divisional Officer, Mehkar Division, Mehkar.
6. Sub-Divisional Officer, Jalgaon Division, Jalgaon (Buldhana).



1

2

- |   |  |
|---|--|
| <p>19. Returning Officer of 19-Akola Parliamentary Constituency</p>     | <p>1) Sub-Divisional Officer, Khamgaon Division, Khamgaon.<br/>                 2. Sub-Divisional Officer, Akot Division, Akot.<br/>                 3. Sub-Divisional Officer, Akola Division, Akola.<br/>                 4. Nazul Officer, Akola<br/>                 5. Sub-Divisional Officer, Balapur Division, Balapur<br/>                 6. Leave Reserve Deputy Collector, Akola.</p>   |
| <p>20. Returning Officer of 20-Washim Parliamentary Constituency</p>    | <p>1. Special Land Acquisition Officer, Katepur. a Project and Morna Project (I), Akola.<br/>                 2. Sub-Divisional Officer, Washim Division, Washim.<br/>                 3. Sub-Divisional Officer, Mangrulpur Division, Mangrulpur.<br/>                 4. Sub-Divisional Officer, Murtizapur Division, Murtizapur.<br/>                 5. Sub-Divisional Officer, Pusad Sub-Division, Pusad.<br/>                 6. Special Land Acquisition Officer, Pusad Project, Pusad.</p> |
| <p>21. Returning Officer of 21-Amravati Parliamentary Constituency.</p> | <p>1. Sub-Divisional Officer, Daryapur Division, Daryapur.<br/>                 2. Sub-Divisional Officer, Melghat Division, at Dharni.<br/>                 3. Sub-Divisional Officer, Achalpur Division, Achalpur.<br/>                 4. Leave Reserve Deputy Collector, Amravati.<br/>                 5. Nazul Officer, Amravati<br/>                 6. Sub-Divisional Officer, Amravati Division, Amravati.</p>  |
| <p>22. Returning Officer of 22-Ramtek Parliamentary Constituency</p>    | <p>1. Sub-Divisional Officer, Morshi Division, Morshi.<br/>                 2. Sub-Divisional Officer, Umrai Division, Umrai.<br/>                 3. Sub-Divisional Officer, Nagpur Division, Nagpur.<br/>                 4. Sub-Divisional Officer, Katol Division, Katol.<br/>                 5. Sub-Divisional Officer, Saoner Division, Saoner<br/>                 6. Sub-Divisional Officer, Ramtek Division, Ramtek.</p>   |
| <p>23. Returning Officer of 23-Nagpur Parliamentary Constituency.</p>   | <p>1. Special Land Acquisition Officer General(I), Nagpur.<br/>                 2. Special Land Acquisition Officer, Nagpur Improvement Trust, Nagpur.<br/>                 3. Nazul Officer, Nagpur<br/>                 4. Special Land Acquisition Officer, Z P. Works, Nagpur.<br/>                 5. City Magistrate, Nagpur<br/>                 6. Additional District Magistrate (II), Nagpur.</p>  |
| <p>24. Returning Officer of 24-Bhandara Parliamentary Constituency.</p> | <p>1. Special Land Acquisition Officer (Bagh and Itadoh) No. IX, Bhandara.<br/>                 2. Sub-Divisional Officer, Bhandara Division, Bhandara.</p>  |

1

2

- 
- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Special Land Acquisition Officer, Bagh and Itiadoh IV, Gondia.</li> <li>4. Sub-Divisional Officer, Gondia Division Gondia.</li> <li>5. Special Land Acquisition Officer, Bagh and Itiadoh No. X, Gondia.</li> <li>6. Special Land Acquisition Officer, Bagh and Itiadoh No. VI, Gondia.</li> </ol>  |
| 25. Returning Officer of 25-Chimur Parliamentary Constituency      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Special Land Acquisition Officer, Bagh and Itiadoh No. I, Bhandara.</li> <li>2. Sub-Divisional Officer, Sakoli Division, Sakoli.</li> <li>3. Special Land Acquisition Officer, Minor Irrigation Works, Bhandara.</li> <li>4. Special Land Acquisition Officer (General), Chandrapur.</li> <li>5. Sub-Divisional Officer, Brahmapuri Sub-Division, Brahmapuri.</li> <li>6. Special Land Acquisition Officer (Minor Irrigation Works), Chandrapur.</li> </ol> |
| 26. Returning Officer of 26-Chandrapur Parliamentary Constituency. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub-Divisional Officer, Gadchiroli Sub-Division, Gadchiroli.</li> <li>2. Sub-Divisional Officer, Sironcha Sub-Division at Aheri.</li> <li>3. Sub-Divisional Officer, Rajura Sub-Division, Rajura.</li> <li>4. Sub-Divisional Officer, Chandrapur Sub-Division, Chandrapur.</li> <li>5. Deputy Collector (Encroachments), Rajura at Chandrapur.</li> <li>6. Sub-Divisional Officer, Warora Sub-Division, Warora.</li> </ol>                                  |
| 27. Returning Officer of 27-Wardha Parliamentary Constituency.     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Special Land Acquisition Officer, Minor Irrigation Works, Amravati.</li> <li>2. Sub-Divisional Officer, Chandur Division Chandur.</li> <li>3. Sub-Divisional Officer, Arvi Division, Arvi.</li> <li>4. Leave Reserve Deputy Collector, Wardha.</li> <li>5. Sub-Divisional Officer, Wardha Division, Wardha.</li> <li>6. Sub-Divisional Officer, Hinganghat Division, Hinganghat.</li> </ol>   |
| 28. Returning Officer of 28-Yeotmal Parliamentary Constituency.    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub-Divisional Officer, Wani Sub-Division, Wani.</li> <li>2. Special Land Acquisition Officer, for Benefitted Zone at Yavatmal.</li> <li>3. Sub-Divisional Officer, Kelapur Sub-Division, Kelapur.</li> <li>4. Sub-Divisional Officer, Yavatmal Sub-Division, Yavatmal.</li> <li>5. Sub-Divisional Officer, Darwaha Sub-Division, Darwaha.</li> <li>6. Resettlement Officer at Yavatmal.</li> </ol>   |
| 29. Returning Officer of 29-Hingoli Parliamentary Constituency.    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Special Land Acquisition Officer, Minor Irrigation Works, Nanded.</li> <li>2. District Supply Officer, Nanded.</li> <li>3. Sub-Divisional Officer, Nanded Division, Nanded.</li> </ol>  |
-

1	2
30. Returning Officer of 30-Nanded Parliamentary Constituency.	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Additional Special Land Acquisition Officer, Purna Project, Kalamnuri.</li> <li>5. Resettlement Officer, Upper Painganga, Parbhani</li> <li>6. Sub-Divisional Officer, Hingoli Division, Hingoli</li> <li>1. Resident Deputy Collector, Nanded.</li> <li>2. Special Land Acquisition Officer, Swarna Project, Nanded.</li> <li>3. Sub-Divisional Officer, Degloor Division, Degloor.</li> <li>4. Special Land Acquisition Officer, Percolation Tanks and Minor Irrigation Works, Nanded.</li> <li>5. Deputy Collector, Land Reforms, Nanded.</li> <li>6. Special Land Acquisition Officer Percolation Tanks and Minor Irrigation Works (I), Osmanabad.</li> </ol>
31. Returning Officer of 31-Parbhani Parliamentary Constituency.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Special Land Acquisition Officer, Minor Irrigation Works, Parbhani.</li> <li>2. Leave Reserve Deputy Collector, Collectorate, Parbhani.</li> <li>3. Deputy Collector, Land Reforms, Collectorate, Parbhani.</li> <li>4. Special Land Acquisition Officer, Buildings and Communications, Parbhani.</li> <li>5. Special Land Acquisition Officer, Jayakwadi Project, Parbhani.</li> <li>6. Sub-Divisional Officer, Sailu Division, Sailu.</li> </ol>
32. Returning Officer of 32-Jalna Parliamentary Constituency.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Special Land Acquisition Officer, Benefitted Zone, Jayakwadi Project, Aurangabad.</li> <li>2. Sub-Divisional Officer, Jalna Division, Jalna.</li> <li>3. Special Land Acquisition Officer, B &amp; C, Aurangabad</li> <li>4. Leave Reserve Deputy Collector, Aurangabad, Aurangabad.</li> <li>5. Special Land Acquisition Officer, Minor Irrigation Works, Aurangabad.</li> <li>6. Special Land Acquisition Officer, No 1, Bhur.</li> </ol>
33. Returning Officer of 33-Aurangabad Parliamentary Constituency.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. District Supply Officer, Aurangabad.</li> <li>2. Sub-Divisional Officer, Vajapur, Division, Vajapur.</li> <li>3. Special Land Acquisition Officer, Aurangabad.</li> <li>4. Rehabilitation Officer, Jayakwadi Project, Aurangabad.</li> <li>5. Sub-Divisional Officer, Aurangabad, Division, Aurangabad.</li> <li>6. Special Land Acquisition Officer, Jayakwadi Project (Canal), Aurangabad.</li> </ol>
34. Returning Officer of 34-Bhur Parliamentary Constituency.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Special Land Acquisition Officer, No II, Bhur.</li> <li>2. Sub-Divisional Officer, Bhur Division, Bhur.</li> <li>3. Special Land Acquisition Officer, Jayakwadi Project, Bhur.</li> <li>4. Leave Reserve Deputy Collector, Bhur.</li> <li>5. Deputy Collector, Land Reforms, Bhur.</li> <li>6. Sub-Divisional Officer, Ambejogai Division, Ambejogai.</li> </ol>

I

2

- |  |  |
|--|--|
| <p>35. Returning Officer of 35-Latur Parliamentary Constituency.</p>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub-Divisional Officer, Udgir Division, Udgir.</li> <li>2. Special Land Acquisition Officer, Minor Irrigation Works, Usmanabad, H.Q. Latur</li> <li>3. Sub-Divisional Officer, Latur Division, Latur.</li> <li>4. Deputy Collector (Land Reforms), Usmanabad.</li> <li>5. Sub-Divisional Officer, Udgir Division, Udgir.</li> <li>6. Sub-Divisional Officer, Usmanabad Division, Usmanabad.</li> </ol>   |
| <p>36. Returning Officer of 36-Usmanabad (SC) Parliamentary Constituency</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. District Supply Officer, Usmanabad.</li> <li>2. Special Land Acquisition Officer, Medium Irrigation Project, Usmanabad.</li> <li>3. Resident Deputy Collector, Usmanabad.</li> <li>4. Sub-Divisional Officer, Usmanabad Division, Usmanabad.</li> <li>5. Sub-Divisional Officer, Sholapur Division, Sholapur.</li> <li>6. Special Land Acquisition Officer, Bhima Irrigation Project No. I, Karmala.</li> </ol>  |
| <p>37. Returning Officer of 37-Sholapur Parliamentary Constituency.</p>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Special Land Acquisition Officer, Sholapur.</li> <li>2. Resettlement Officer, Ujjani Project, Sholapur.</li> <li>3. Resident Deputy Collector, Sholapur.</li> <li>4. Deputy Collector, Employment Guarantee Scheme Cell (Performance Audit Squad), Sholapur</li> <li>5. Special Land Acquisition Officer (Bhima Irrigation Project) No. VII, Sholapur.</li> <li>6. Special Land Acquisition Officer (Minor Irrigation), Sholapur.</li> </ol>                                     |
| <p>38. Returning Officer of 38-Pandharpur (SC) Parliamentary Constituency.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Special Land Acquisition Officer, Ujjani Project No. I, Mohol.</li> <li>2. Sub-Divisional Officer, Madha Division Kurduwadi.</li> <li>3. Special Land Acquisition Officer (3), Ujjani Project, Pandharpur.</li> <li>4. Sub-Divisional Officer, Pandharpur Division, Pandharpur.</li> <li>5. Special Land Acquisition Officer (Land Ceiling), Maharashtra.</li> <li>6. Special Land Acquisition Officer (General), Sangli.</li> </ol>   |
| <p>39. Returning Officer of 39-Ahmednagar Parliamentary Constituency.</p>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Special Land Acquisition Officer No. I, Mula Project (Command Area), Ahmednagar.</li> <li>2. Sub-Divisional Officer, Parnar Division, Ahmednagar.</li> <li>3. Special Land Acquisition Officer No. II, Mula Project (Command Area), Ahmednagar.</li> <li>4. Special Land Acquisition Officer, Mula Project, Ahmednagar.</li> <li>5. Deputy Collector, Employment Guarantee Scheme, Ahmednagar.</li> <li>6. Resettlement Officer, Jayakwadi Project No. I, Ahmednagar.</li> </ol> |

I

2

40. Returning Officer of 40-Kopargaon Parliamentary Constituency.

1. Special Land Acquisition Officer, Jayakwadi Project (2), Ahmednagar.
2. Special Land Acquisition Officer, B & C Division, Ahmednagar.
3. Special Land Acquisition Officer, Miror Irrigation, Ahmednagar.
4. Sub-Divisional Officer, Rahuri Division, Ahmednagar.
5. Special Land Acquisition Officer, Bhima (Ujjani Dam) Project, Ahmednagar.
6. Sub-Divisional Officer, Sangamner Division, Sangamner.

41. Returning Officer of 41-Khed Parliamentary Constituency.

1. Special Land Acquisition Officer, Kukadi Project (I), Pune.
2. Sub-Divisional Officer, Junnar Sub-Division at Rajgurunagar.
3. Sub-Divisional Officer, Kukadi Project No. II, Pune.
4. Sub-Divisional Officer, Haveli Sub-Division, Pune.
5. Leave Reserve Deputy Collector, Pune.
6. Deputy Collector for Sales Tax Recovery, Pune (Commissioner's Office), Pune.

42. Returning Officer of 42-Poona Parliamentary Constituency.

1. Assistant Commissioner (Development), Pune Division, Pune.
2. Assistant Commissioner (Resettlement), Pune Division, Pune.
3. Sub-Divisional Magistrate No. I, Pune.
4. Assistant Commissioner (General), Pune, Division, Pune.
5. District Resettlement Officer, Pune.
6. Special Land Acquisition Officer, Ujjani Project No. 2, Pune.

43. Returning Officer of 43-Baramati Parliamentary Constituency.

1. Special Land Acquisition Officer (9), Pune.
2. Special Land Acquisition Officer, Kukadi, Project No. III, Pune.
3. Special Land Acquisition Officer, Panshet Benefitted Area (I) Pune.
4. Special Land Acquisition Officer, Ujjani Project (3), Pune.
5. Sub-Divisional Officer, Baramati Sub-Division, Baramati.
6. Special Land Acquisition Officer, Panshet Benefitted Area II, Pune.

44. Returning Officer of 44-Satara Parliamentary Constituency.

1. Sub-Divisional Officer, Phaltan Division, Phaltan.
2. Special Land Acquisition Officer No. IV, Krishna Dhoni Project, Satara.
3. Special Land Acquisition Officer No. III, Krishna Dhoni Project, Satara.
4. District Resettlement Officer, Satara.
5. Sub-Divisional Officer, Mahabaleshwar Division, Wai.
6. Sub-Divisional Officer, Satara Division, Satara.

I

2

- 
- |   |   |
|---|---|
| <p>45. Returning Officer of 45-Karad Parliamentary Constituency.</p>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Special Land Acquisition Officer No. II, Krishna Dhom Project, Satara.</li> <li>2. Special Land Acquisition Officer, No. II, Arphal Dam Project Benefitted Area, Satara.</li> <li>3. Special Land Acquisition Officer No. I, Arphal Dam Project Benefitted Area, Satara.</li> <li>4. Deputy Chief Executive Officer (Planning), Satara.</li> <li>5. Special Land Acquisition Officer, Khujgaon Dam, Sangli.</li> <li>6. Sub-Divisional Officer, Walva Division Sangli.</li> </ol> |
| <p>46. Returning Officer of 46-Sangli Parliamentary Constituency.</p>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Special Land Acquisition Officer (Minor Irrigation), Sangli.</li> <li>2. Deputy Chief Executive Officer, Sangli Zilla Parishad, Sangli.</li> <li>3. Resettlement Officer, Warna Project, Sangli.</li> <li>4. Sub-Divisional Officer, Miraj Sub-Division, Miraj.</li> <li>5. Special Land Acquisition Officer (II), General, Sangli.</li> <li>6. Leave Reserve Deputy Collector, Sangli.</li> </ol>  |
| <p>47. Returning Officer of 47-Ichalkaranji Parliamentary Constituency.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub-Divisional Officer, Karvir Sub-Division, Kolhapur.</li> <li>2. District Supply Officer, Kolhapur.</li> <li>3. Special Land Acquisition Officer No. IV, Kolhapur.</li> <li>4. Sub-Divisional Officer, Shahuwadi Division, Kolhapur.</li> <li>5. Special Land Acquisition Officer, Minor Irrigation, Kolhapur.</li> <li>6. Special Land Acquisition Officer, Tulshu Project No. I, Kolhapur.</li> </ol>   |
| <p>48. Returning Officer of 48-Kolhapur Parliamentary Constituency.</p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Special Land Acquisition Officer, Tulshu Project No. II, Kolhapur.</li> <li>2. Leave Reserve Deputy Collector, Kolhapur.</li> <li>3. Resident Deputy Collector, Kolhapur.</li> <li>4. Special Land Acquisition Officer, Khujgaon Project, Kolhapur.</li> <li>5. Sub-Divisional Officer, Gadhinglaj Division, Gadhinglaj.</li> <li>6. Special Land Acquisition Officer, Dudhaganga Project, Kolhapur.</li> </ol>   |
- 

The Election Commission's notification No. 434/MT/73(1) dated 23 August, 1973 is hereby cancelled.

**NOTE.**— The reference to "Sub-Divisional Officer" shall, in respect of any Sub-Division which is for the time being in charge of an Assistant Collector, be taken to be a reference to that Assistant Collector."

[No.434/MT/77(2)]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

का० घा० 94 (घ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/महा०/75/2 तारीख 21 नवम्बर, 1975 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक सरकारी आफिसर को ऐसे सरकारी आफिसर या आफिसरों के सामने महाराष्ट्र राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, का जैसा कि वह संसदीय तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची XIII के भाग क में अन्तर्विष्ट है तथा उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के रिटनिंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए, सहायक रिटनिंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है :—

### सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	सहायक रिटनिंग आफिसर
1	2
1. 1—राजपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. उप-खण्ड आफिसर, साधन्तवाड़ी खण्ड, साधन्तवाड़ी। 2. धन बन्धोवस्त आफिसर, साधन्तवाड़ी, साधन्तवाड़ी। 3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, (बी एवं सी० विभाग) रत्नगिरि, रत्नगिरि। 4. जिला आपूर्ति आफिसर, रत्नगिरि, रत्नगिरि। 5. अथकाश आरक्षण उप-कलक्टर, रत्नगिरि, रत्नगिरि। 6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (नियमित), रत्नगिरि, रत्नगिरि।
2. 2—रत्नगिरि संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. उपखण्ड आफिसर, रत्नगिरि खण्ड, रत्नगिरि। 2. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, (लघु सिंचाई) रत्नगिरि, रत्नगिरि। 3. उपखण्ड आफिसर, चिपलुन खण्ड, चिपलुन। 4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, (कॉकण कृषि विद्यापीठ) दापोली, दापोली। 5. उपखण्ड आफिसर, दापोली खण्ड, दापोली। 6. उपखण्ड आफिसर, माहद खण्ड, माहद।
3. 3—कोलाबा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, (कल परि-योजना) रोहा, जिला कोलाबा। 2. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, [कल परि-योजना (ii) मनगांव जिला कोलाबा]।

1

2

3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (I) कोलाबा, अलीबाग ।
  4. उपखण्ड आफिसर, अलीबाग खण्ड, अलीबाग ।
  5. उपखण्ड आफिसर, पनवेल खण्ड, पनवेल ।
  6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, मद्रो केन्द्र (I) पनवेल ।
4. 4-बम्बई वक्षिण संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
1. सक्षम प्राधिकारी, बृहत्तर बम्बई, लो० नि० वि० भवन, सी० टी० ओ० के सामने बम्बई-1 ।
  2. योजना आफिसर, बृहत्तर बम्बई, योजना बोर्ड, बम्बई कलकटोरेट, ओल्ड कस्टम हाउस, फोर्ट बम्बई-1 ।
  3. श्री वी० आर० गोगेट (उप-कलक्टर) परियोजना प्रबन्धक, विश्व खाद्य परि-योजना, मन्त्रालय, बम्बई-32 ।
  4. उप कलक्टर, भूधृति उत्पादन शाखा, बम्बई कलकटोरेट, ओल्ड कस्टम हाउस, कोर्ट, बम्बई ।
  5. उप मुख्य कार्यपालक आफिसर, मकान मरम्मत एं पुनर्निर्माण बोर्ड, नया प्रशासन भवन, मेडम कामा मार्ग, बम्बई-1 ।
  6. उप-कलक्टर, बम्बई ग्रीर आवास उप-कलक्टर, बम्बई उपनगर जिला ओल्ड कस्टम हाउस, फोर्ट, बम्बई-1 ।
5. 5-बम्बई वक्षिण केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
1. अधीक्षक बम्बई शहर सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख, बम्बई कलकटोरेट, ओल्ड कस्टम हाउस, फोर्ट, बम्बई-1 ।
  2. उपखण्ड आफिसर, बम्बई उपनगर जिला, ओल्ड कस्टम हाउस, फोर्ट बम्बई-1 ।
  3. उप-कलक्टर, बिक्री कर वसूली, बम्बई ग्रीर बम्बई एं उपनगर जिला, बिक्री कर भवन, मजगांव, बम्बई-10 ।
  4. उप-कलक्टर, (अधिक्रमण), बम्बई शहर, बम्बई कलकटोरेट, ओल्ड कस्टम हाउस, फोर्ट, बम्बई-1 ।



1

2

5. श्री बी० एच० सारवलकर, अधर सचिव, योजना विभाग मंत्रालय, बम्बई-32 ।
6. उप-कलक्टर, अपीलसीय सं० 1, पुराना कस्टम हाउस, फोर्ट, बम्बई-1 ।
6. 6-बम्बई उत्तर केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
  1. सक्षम प्राधिकारी, सं० 1, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, गृह निर्माण भवन, बान्द्रा (पूर्व) बम्बई-51 ।
  2. सहायक निदेशक, निगम प्रशासन, नया प्रशासन भवन, मेडम कामा मार्ग, बम्बई-1 ।
  3. उप नियन्त्रक, गन्दी बस्ती, ओल्ड कस्टम हाउस, बम्बई-1 ।
  4. सक्षम प्राधिकारी, बम्बई मकान मरम्मत एवं पुनर्निर्माण बोर्ड, सोहन कोलीवाडा परिवहन कैम्प सं० 2, सोहन बम्बई-22 ।
  5. उप मुख्य कार्यपालक आफिसर, गन्दी बस्ती सुधार बोर्ड, नई प्रशासन भवन, मेडम कामा मार्ग, बम्बई-1 ।
  6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर सं० (4), ओल्ड कस्टम हाउस फोर्ट, बम्बई-1 ।
7. 7-बम्बई उत्तर पूर्वी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
  1. अवकाश आरक्षण उप-कलक्टर, बम्बई उप-नगर जिला, ओल्ड कस्टम हाउस, फोर्ट बम्बई-1 ।
  2. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, सं० 2, ओल्ड कस्टम हाउस, फोर्ट, बम्बई ।
  3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर सं० (5), महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, गृह निर्माण भवन, बान्द्रा (पूर्व) बम्बई-51 ।
  4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर सं० 1, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, गृह निर्माण भवन, बान्द्रा (पूर्व) बम्बई-51 ।
  5. उप-कलक्टर, (अधिक्रमण), बम्बई उपनगर जिला कुली, टोपी वाला कोलोज भवन; मुलुन्द (पश्चिम), बम्बई, 80 ।
  6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (7) बम्बई नगर निगम, बम्बई-51 ।

1

2

8. 8-बम्बई उत्तर पश्चिम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. उप-कलक्टर, (अधिक्रमण), बम्बई उपनगर जिला, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, गृह निर्माण भवन, बान्द्रा (पूर्व), बम्बई-51. ।
2. श्री बी० डी० शिंदे, उप-निदेशक, सिविल पूर्ति हरचन्द्राय भवन, कारवे मार्ग, बम्बई-2
3. उप-कलक्टर (अपीलीय सं० 2) बम्बई कलक्टोरेट, पुराना कस्टम हाउस, फोर्ट, बम्बई-1
4. सहायक निदेशक, नगर योजना, भूधृति उत्पादन शाखा, ओल्ड कस्टम हाउस, फोर्ट, बम्बई-1
5. श्री एस० आर० सावन्त, अवर सचिव, राजस्व एवं वन विभाग मन्त्रालय, बम्बई ।
6. अपर जिला उप-कलक्टर बम्बई उपनगर जिला, दादा भाई रोड, अन्धेरी बम्बई-58. ।

9. 9-बम्बई उत्तर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. श्री यू० एस० राणादिव, अवर सचिव राजस्व एवं वन विभाग मन्त्रालय, बम्बई-32
2. श्री बी० डी० पाटिल, अवर सचिव, सिविल पूर्ति विभाग, मन्त्रालय, बम्बई-32
3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, सं० 3, ओल्ड कस्टम हाउस, फोर्ट, बम्बई-1.
4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (राजमार्ग), ओल्ड कस्टम हाउस, फोर्ट, बम्बई-1.
5. परियोजना आफिसर, लघु कृषक विकास अधिकरण, (थाना नासिक), थाना ।
6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, लघु सिंचाई कार्य, थाना ।

10. 10-थाना संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. उपखण्ड आफिसर, थाना खण्ड, थाना ।
2. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, दिवा बेसिन रोड/रेलिलिक परियोजना, थाना ।
3. प्रशासक, उल्हास नगर टाउनशिप, उल्हास-नगर ।
4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (1), थाना ।
5. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, मेट्रो केन्द्र (1), थाना ।
6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, मेट्रो केन्द्र (3), थाना ।

1

2

11. 11-वाहनू (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
1. जिला पुनर्वासि आफिसर, थाना ।
  2. उपखण्ड आफिसर, भिवान्डी खण्ड, थाना ।
  3. उपखण्ड आफिसर, दहानू खण्ड, दहानू ।
  4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, थाना ।
  5. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, उल्हासघाटी परियोजना, थाना ।
  6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, बेतरणा हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना, नासिक ।
12. 12-नासिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
1. सहायक कलक्टर, नासिक खण्ड, नासिक ।
  2. अवकाश आरक्षण उप-कलक्टर, नासिक ।
  3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, नासिक ।
  4. सहायक कलक्टर, निफाद खण्ड, नासिक ।
  5. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, सं० 1, नासिक ।
  6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, जयाकवडी परियोजना सं० 3, अहमदनगर ।
13. 13-मालेगांव (अ०ज०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, सं० 2, नासिक ।
  2. उपखण्ड आफिसर, मालेगांव खण्ड, मालेगांव ।
  3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, जिला परिषद्, नासिक ।
  4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, लघु सिंचाई, नासिक ।
  5. जिला पुनर्वासि आफिसर, नासिक ।
  6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, सिंचाई-2, नासिक ।
14. 14-धुलिया संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, यू०जी०पी० करंजवा, नासिक ।
  2. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, सिंचाई सं० 1, नासिक ।
  3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, पनजारा एवं कनोली परियोजना, धुले ।
  4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, एम० आई० परियोजना, धुले ।
  5. उपखण्ड आफिसर, धुलिया खण्ड, धुले ।

1	2
15. 15-नन्दुरबार (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. उपखण्ड आफिसर, नन्दुरबार खण्ड, नन्दुरबार। 2. अवकाश आरक्षण उप-कलक्टर, धुले। 3. जिला आपूर्ति आफिसर, धुले। 4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, धुले।
16. 16-इरन्दोल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, (2), हतनूर परियोजना, जलगांव। 2. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, (1), जलगांव। 3. उपखण्ड आफिसर, अमालनेर खण्ड, अमालनेर। 4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, लघु सिंचाई कार्य, जलगांव। 5. अवकाश आरक्षण उप-कलक्टर, जलगांव। 6. उपखण्ड आफिसर, चालीस गांव खण्ड, जलगांव।
17. 17-जलगांव संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. आवास उप-कलक्टर, जलगांव। 2. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (1), हतनूर परियोजना, जलगांव। 3. जिला आपूर्ति आफिसर, जलगांव। 4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, जलगांव। 5. उपखण्ड आफिसर, जलगांव खण्ड, जलगांव। 6. जिला पुनर्वासि आफिसर, जलगांव।
18. 18-बुलढाना (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. उपखण्ड आफिसर, मलकापुर खण्ड, मलकापुर। 2. आवास उप कलक्टर, बुलढाना। 3. उप-खण्ड आफिसर, बुलढाना खण्ड, बुलढाना। 4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, लघु सिंचाई कार्य, बुलढाना। 5. उपखण्ड आफिसर, मेहकर खण्ड, मेहकर। 6. उपखण्ड आफिसर, जलगांव खण्ड, जलगांव (बुलढाना)।
19. 19-अकोला संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. उपखण्ड आफिसर, खामगांव खण्ड, खामगांव। 2. उपखण्ड आफिसर, अकोट खण्ड, अकोट। 3. उपखण्ड आफिसर, अकोला खण्ड, अकोला। 4. नजुल आफिसर, अकोला। 5. उपखण्ड आफिसर, बालापुर खण्ड, बालापुर। 6. अवकाश आरक्षण उप कलक्टर, अकोला।

I	2
20. 20-वाशिम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, कटिपूर्ण परियोजना तथा मोरना परियोजना (1), अकोला । 2. उपखण्ड आफिसर, वाशिम खण्ड, वाशिम । 3. उपखण्ड आफिसर, मंगरुलपीर खण्ड, मंगरुलपीर । 4. उपखण्ड आफिसर, मुर्तिजापुर खण्ड, मुर्तिजापुर । 5. उपखण्ड आफिसर, पुसाद उपखण्ड, पुसाद । 6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, पुस परियोजना, पुसाद ।
21. 21-अमरावती संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. उपखण्ड आफिसर, दरयापुर खण्ड, दरयापुर । 2. उपखण्ड आफिसर, मेलघट खण्ड, मुकाम धरनी । 3. उपखण्ड आफिसर, आचलपुर खण्ड, आचलपुर । 4. अवकाश आरक्षण उप-कलक्टर, अमरावती । 5. नजूल आफिसर, अमरावती । 6. उपखण्ड आफिसर, अमरावती खण्ड, अमरावती ।
22. 22-रामटेक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. उपखण्ड आफिसर, मोरशी खण्ड, मोरशी । 2. उपखण्ड आफिसर, उमरेर खण्ड, उमरेर । 3. उपखण्ड आफिसर, नागपुर खण्ड, नागपुर । 4. उप-खण्ड आफिसर, कटोल खण्ड, कटोल । 5. उप-खण्ड आफिसर, साओनेर खण्ड, साओनेर । 6. उपखण्ड आफिसर, रामटेक खण्ड, रामटेक ।
23. 23-नागपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर साधारण (1), नागपुर । 2. विशेष भूमि अर्जन, आफिसर, नागपुर इम्प्रूव-मेंट ट्रस्ट, नागपुर । 3. नजूल आफिसर, नागपुर । 4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, जैड० पी० वक्स, नागपुर । 5. सिटी मजिस्ट्रेट, नागपुर । 6. अपर जिला मजिस्ट्रेट (2), नागपुर ।

1

2

24. 24-भंडारा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, (बाघ व इटियादोह) सं० 9, भंडारा ।
2. उप-खण्ड आफिसर, भंडारा खण्ड, भंडारा ।
3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, बाघ व इटिया-दोह IV, गोंडिया ।
4. उप-खण्ड आफिसर, गोंडिया खण्ड, गोंडिया ।
5. विशेष भूमि अर्जन, आफिसर, बाघ व इटियादोह X, गोंडिया ।
6. विशेष भूमि अर्जन, आफिसर, बाघ व इटिया-दोह VI, गोंडिया ।

25. 25-चिमुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, बाघ व इटियादोह-1, भंडारा ।
2. उप-खण्ड आफिसर, साकोली खण्ड, साकोली ।
3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, लघु सिंचाई कार्य, भंडारा ।
4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (साधारण), चन्द्रपुर ।
5. उप-खण्ड आफिसर, ब्रह्मपुरी उपखण्ड, ब्रह्मपुरी ।
6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, (लघु सिंचाई कार्य), चन्द्रपुर ।]

26. 26-चन्द्रपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. उप-खण्ड आफिसर, गाडचिरोली उप-खण्ड, गाडचिरोली ।
2. उप-खण्ड आफिसर, सिरोंचा उपखण्ड, मुकाम अहेरी ।
3. उप-खण्ड आफिसर, राजूरा उप-खण्ड, राजूरा ।
4. उप-खण्ड आफिसर, चन्द्रपुरा उप-खण्ड, चन्द्रपुर ।
5. उप-कलक्टर (अधिक्रमण), राजूरा, मुकाम, चन्द्रपुर ।
6. उप-खण्ड आफिसर, बारोरा उप-खण्ड, बारोरा ।

27. 27-गर्धी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, लघु सिंचाई कार्य, अमरावती ।
2. उप-खण्ड आफिसर, चन्द्रपुर खण्ड, चन्द्रपुर ।

1

2

3. उप-खण्ड आफिसर, भरबी खण्ड, भरबी ।
  4. अवकाश भारक्षण, उप-कलक्टर, वध ।
  5. उपखण्ड आफिसर, वध खण्ड, वध ।
  6. उप-खण्ड आफिसर, हिंगनगट खण्ड, हिंगन-घाट ।
28. 28-यवतमाल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. उप-खण्ड आफिसर, वानी उपखण्ड, वानी ।
  2. विशेष भूमि भर्जन आफिसर, लामवित क्षेत्र, मुकाम यवतमाल ।
  3. उप-खण्ड आफिसर, केलापुर उप-खण्ड, केलापुर ।
  4. उप-खण्ड आफिसर, यवतमाल उप-खण्ड, यवतमाल ।
  5. उप-खण्ड आफिसर, दरवहा उप-खण्ड, दर-वहा ।
  6. पुनर्वासि आफिसर, मुकाम, यवतमाल ।
29. 29-हिंगोली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. विशेष भूमि भर्जन आफिसर, लघु सिंचाई कार्य, नानदेड ।
  2. जिला आपूर्ति आफिसर, नानदेड ।
  3. उप-खण्ड आफिसर, नानदेड खण्ड, नानदेड ।
  4. अपर भूमि भर्जन आफिसर, पूर्ण परियोजना, कालमनूरी ।
  5. पुनर्वासि आफिसर, अपर पेनगंगा, परमेनी ।
  6. उप-खण्ड आफिसर, हिंगोली खण्ड, हिंगोली ।
30. 30-नानदेड संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. आवास उप-कलक्टर, नानदेड ।
  2. विशेष भूमि भर्जन, आफिसर, स्वर्ण परि-योक्ता, नानदेड ।
  3. उप-खण्ड आफिसर, डेमलूर खण्ड, डेमलूर ।
  4. विशेष भूमि भर्जन आफिसर, परकोलेशन टैंक व लघु सिंचाई कार्य, नानदेड ।
  5. उप-कलक्टर, भूमि सुधार, नानदेड ।
  6. विशेष भूमि भर्जन आफिसर, परकोलेशन टैंक व लघु सिंचाई कार्य (1) ओस-मानाबाव ।

1

2

31. 31-परमनी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, लघु सिंचाई कार्य, परमनी ।
  2. अवकाश आरक्षण उप-कलक्टर, कलक्टरेट । परमनी ।
  3. उप-कलक्टर, भूमि सुधार, कलक्टरेट, परमनी ।
  4. विशेष भूमि अर्जन, आफिसर, भवन व सचार, परमनी ।
  5. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, जैकवाडी परियोजना, परमनी ।
  6. उप-खण्ड आफिसर, सीलू ।
32. 32-जलना संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, लाभान्वित क्षेत्र, जैकवाडी परियोजना, औरंगाबाद ।
  2. उप-खण्ड आफिसर, जलना खण्ड, जलना ।
  3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, बी० व० सी०, औरंगाबाद ।
  4. अवकाश आरक्षण उप-कलक्टर, औरंगाबाद, औरंगाबाद ।
  5. विशेष भूमि अर्जन, आफिसर, लघु सिंचाई कार्य, औरंगाबाद ।
  6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर सं० 1, भिर ।
33. 33-औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
1. जिला आपूर्ति आफिसर, औरंगाबाद ।
  2. उपखण्ड आफिसर, वैजापुर खण्ड, वैजापुर ।
  3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, औरंगाबाद ।
  4. पुनर्वासि आफिसर, जैकवाडी परियोजना, औरंगाबाद ।
  5. उप-खण्ड आफिसर, औरंगाबाद खण्ड औरंगाबाद ।
  6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, जैकवाडी परियोजना (नहर), औरंगाबाद ।
34. 34-भिर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर सं० 2, भिर ।
  2. उप-खण्ड आफिसर, भिर खण्ड, भिर ।
  3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, जैकवाडी परियोजना, भिर ।
  4. अवकाश आरक्षण उप-कलक्टर, भिर ।



1

2

5. उप-कलक्टर, भूमि सुधार, भिर ।

6. उप-खण्ड आफिसर, अम्बेजोगाई खण्ड, अम्बेजोगाई ।

35. 35-लाटुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

1. उपखण्ड आफिसर, उदगिर खण्ड, उदगिर ।
2. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, लघु सिचाई कार्य, ओसमानाबाद, मुख्यालय, लाटुर ।
3. उपखण्ड आफिसर, लाटुर खण्ड, लाटुर ।
4. उप-कलक्टर, (भूमि सुधार), ओसमानाबाद ।
5. उपखण्ड आफिसर, उदगीर खण्ड, उदगीर ।
6. उपखण्ड आफिसर, ओसमानाबाद खण्ड, ओसमानाबाद ।

36. 36-ओसमानाबाद (अ० जा०) संसदीय का रिटनिंग आफिसर ।

1. जिला आपूर्ति आफिसर, ओसमानाबाद ।
2. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, मध्य सिचाई परियोजना, ओसमानाबाद ।
3. आवास उप-कलक्टर, ओसमानाबाद ।
4. उपखण्ड आफिसर, ओसमानाबाद खण्ड, ओसमानाबाद ।
5. उपखण्ड आफिसर, शोलापुर खण्ड, शोलापुर ।
6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, भीमा सिचाई परियोजना सं० 1, करमाला ।

37. 37-शोलापुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, शोलापुर ।
2. पुनर्वास आफिसर, उज्जनी परियोजना, शोलापुर ।
3. आवास उप-कलक्टर, शोलापुर ।
4. उप-कलक्टर रोजगार गारंटी योजना कक्ष (लेखापरीक्षा पालन वस्ता) शोलापुर ।
5. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, भीमा सिचाई परियोजना, सं० VII, शोलापुर ।
6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (लघु सिचाई) शोलापुर ।

38. 38-मंघारपुर (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, अज्जनी परियोजना सं० 1 मोहोल ।
2. उपखण्ड आफिसर माधा खण्ड, कुदुवाडी ।

1	2
	3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (3) उज्जनी परियोजना, पंधारपुर । 4. उपखण्ड आफिसर, पंधारपुर खण्ड, पंधारपुर । 5. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (भूमि सीमा) मजशीरात । 6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (साधारण) सांगली ।
39. 39—अहमदनगर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, सं० I, मूल परियोजना (कमाड क्षेत्र) अहमदनगर । 2. उपखण्ड आफिसर, पारनेर खण्ड, अहमदनगर । 3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर सं० II, मूल परियोजना (कमाड एरिया) अहमदनगर । 4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, मूला परियोजना अहमदनगर । 5. उपकलक्टर रोजगार गारटी योजना अहमदनगर । 6. पुनर्वासि आफिसर, जैकवाडी परियोजना सं० I, अहमदनगर ।
40. 40—कोपरगाव संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर जैकवाडी परियोजना (2), अहमदनगर । 2. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, बी० एण्ड सी० खण्ड, अहमदनगर । 3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, लघु सिंकाई अहमदनगर । 4. उपखण्ड आफिसर, राहुरी खण्ड, अहमदनगर । 5. विशेष भूमि अर्जन आफिसर भीमा (उज्जनी डैम) परियोजना अहमदनगर । 6. उपखण्ड आफिसर, संगमनेर खण्ड, संगमनेर ।
41. 41—खेड संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, कुकाडी परियोजना (I), पुणे । 2. उपखण्ड आफिसर, जुन्नार उपखण्ड मुकाम राजगुरुनगर । 3. उपखण्ड आफिसर, कुकाडी परियोजना सं० II, पुणे । 4. उपखण्ड आफिसर, हवेली उपखण्ड, पुणे । 5. अवकाश आरक्षण उपकलक्टर, पुणे । 6. उपकलक्टर, बिक्री कर वसुली, पुणे (आयुक्त का कार्यालय, पुणे)

1

2

42. 42—पूना संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. सहायक आयुक्त (विकास) पुणे खण्ड, पुणे ।
  2. सहायक आयुक्त (पुनर्वास), पुणे खण्ड, पुणे ।
  3. उपखण्ड मजिस्ट्रेट सं० I, पुणे ।
  4. सहायक आयुक्त (साधारण) पुणे खण्ड, पुणे ।
  5. जिला पुनर्वास आफिसर, पुणे ।
  6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, उज्जनी परि-योजना सं० 2, पुणे ।
43. 43—बारामती संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (9), पुणे ।
  2. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, कुकडी परि-योजना सं० III, पुणे ।
  3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, पानसेट लाभान्वित क्षेत्र (I) पुणे ।
  4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, उज्जनी परि-योजना (3), पुणे ।
  5. उपखण्ड आफिसर, बारामती उपखण्ड, बारामती ।
  6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, पानसेट लाभान्वित क्षेत्र II, पुणे ।
44. 44—सतारा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. उपखण्ड आफिसर, फाल्टन खण्ड, फाल्टन ।
  2. विशेष भूमि अर्जन आफिसर सं० IV, कृष्णाधीन परियोजना, सतारा ।
  3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर सं० 3, कृष्णाधीन परियोजना सतारा ।
  4. जिला पुनर्वास आफिसर, सतारा ।
  5. उपखण्ड आफिसर, महाबलेश्वर खण्ड, वाई ।
  6. उपखण्ड आफिसर, सतारा खण्ड सतारा ।
45. 45—कराड संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर सं० II, कृष्णाधीन परियोजना सतारा ।
  2. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, सं० II, अरफल डेम परियोजना लाभान्वित क्षेत्र, सतारा ।

1

2

3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर सं० I, अरफव डेम परियोजना लाभान्वित क्षेत्र, सतारा ।
  4. उप मुख्य कार्यपालक आफिसर (योजना), सतारा ।
  5. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, खुजगाव डेम, सांगली ।
  6. उपखण्ड आफिसर, बालवा उपखण्ड, सांगली ।
46. 46—सांगली मंसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर (लघु सिचाई), सांगली ।
  2. उप मुख्य कार्यपालक आफिसर सांगली जिला परिषद, सांगली ।
  3. पुनर्वासि आफिसर, धर्ना परियोजना, सांगली ।
  4. उपखण्ड आफिसर, मिराज उपखण्ड, मिराज ।
  5. विशेष भूमि अर्जन आफिसर—II (साधारण), सांगली ।
  6. अवकाश आरक्षण उपकलक्टर, सांगली ।
47. 47—इचलकरांजी मंसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. उपखण्ड आफिसर, करबीर उपखण्ड, कोल्हापुर ।
  2. जिला आपूर्ति आफिसर, कोल्हापुर ।
  3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, सं० IV, कोल्हापुर ।
  4. उपखण्ड आफिसर, शाहुवाडी खण्ड, कोल्हापुर ।
  5. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, लघु सिचाई, कोल्हापुर ।
  6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, तुलसी परियोजना सं० I, कोल्हापुर ।
48. 48—कोल्हापुर मंसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, तुलसी परियोजना सं० II, कोल्हापुर ।
  2. अवकाश आरक्षण उपकलक्टर, कोल्हापुर ।
  3. आवास उपकलक्टर, कोल्हापुर ।

1

2

4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर खुजणंव परियोजना, कोल्हापुर ।
5. उपखण्ड आफिसर, गंधिगलाज खण्ड, गंधिगलाज ।
6. विशेष भूमि अर्जन आफिसर, दूधगणा परियोजना, कोल्हापुर ।

निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं० 434/महा०/73(1), तारीख 23 अगस्त, 1973 एतद्वारा रह की जाती है ।

**टिप्पणी**—किसी ऐसे उपखण्ड के बारे में जो उस समय किसी सहायक कलक्टर के अधीन है, 'उपखण्ड आफिसर' के प्रति निर्देश का ऐसे समझा जाए कि वह उस सहायक कलक्टर के प्रति निर्देश है ।"

[सं० 434/महा० 77(2) ]

आदेश से,

बी० ज्ञानगुप्तमण्यन, सचिव ।

*New Delhi, the 29th January 1977*

**S. O. 95 (E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/MR/73(2), dated 14 January, 1975, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Manipur, the Deputy Commissioner, Manipur Central (Imphal), to be the Returning Officer for 1 Inner Manipur and 2 Outer Manipur (ST) Parliamentary Constituencies in the State of Manipur.

[No. 434/MR/77(1)]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1977

**का० आ० 95 (अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 उपबन्धों के अनुसरण में आरक्षण अधिसूचना सं० 434/मणि०/73(2), तारीख 14 जनवरी, 1975 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग मणिपुर राज्य सरकार के परामर्श से, उपायुक्त, मणिपुर केन्द्रीय (इम्फाल) को मणिपुर राज्य के 1. आन्तरिक मणिपुर और 2. बाह्य मणिपुर (अ० ज० आ०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदबिहित करता है ।

[सं० 434/मणि०/77(1) ]

**S. O. 96 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its Notification No. 434/MR/73(3), dated 14 January, 1975, the Election Commission hereby appoints each of the Officers of Government, as specified in column 2 of the Table below, as Assistant Returning Officers of the Parliamentary Constituency in the State of Manipur specified in column 1 of the said table against such officer, in the performance of the functions of such Returning Officer :

TABLE

Returning Officer of the Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
1. Returning Officer of 1-Inner Manipur Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Manipur Central (Imphal). 2. Sub-Divisional Officer, Imphal-East. 3. Sub-Divisional Officer, Imphal-West. 4. Sub-Divisional Officer, Bishenpur. 5. Sub-Divisional Officer, Thoubal.
2. Returning Officer of 2-Outer Manipur S.T. Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Manipur Central (Imphal). 2. Deputy Commissioner, Manipur East, (Ukhrul). 3. Deputy Commissioner, Manipur South (Churachandpur). 4. Deputy Commissioner, Manipur North (Senapati). 5. Deputy Commissioner, Manipur West (Tamenglong). 6. Deputy Commissioner, Tengneupal (Chandel). 7. Sub-Divisional Officer, Jiribam. 8. Sub-Divisional Officer, Thoubal.

[No. 434/MR/77(2)]

**क्र० प्र० 96(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अपनी अधिसूचना सं० 434/मणि०/73(3), तारीख 14 जनवरी, 1975 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग निम्न-लिखित सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक सरकारी आफिसर को, ऐसे आफिसर के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में यथा विनिर्दिष्ट मणिपुर राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटनिंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए, सहायक रिटनिंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है :—

## सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	सहायक रिटनिंग आफिसर
1	2
1. 1-आन्तरिक मणिपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, मणिपुर केन्द्रीय (इम्फाल)। 2. उप-खण्ड आफिसर, इम्फाल पूव। 3. उप-खण्ड आफिसर, इम्फाल पश्चिम। 4. उप-खण्ड आफिसर, बिसेनपुर। 5. उप-खण्ड आफिसर, थोउबाल।

1

2

2. 2-बाह्य मणिपुर (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।

1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, मणिपुर केन्द्रीय (इम्फाल)।

2. उपायुक्त, मणिपुर-पूर्व (उखरुल)।

3. उपायुक्त, मणिपुर-दक्षिण (चुराचन्दपुर)।

4. उपायुक्त, मणिपुर-उत्तर (सेनापति)।

5. उपायुक्त, मणिपुर-पश्चिम (तमेंगलोंग)।

6. उपायुक्त, तेंगनउपाल (चन्देल)।

7. उपखण्ड आफिसर, (जिरिबाम)।

8. उपखण्ड आफिसर, थोउबाल।

[सं० 434/मणि०/77(2)]

**S. O. 97(E)**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commissioner's notification No. 434/MEG/75, dated 12 September, 1975, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Meghalaya, the officer of Government specified in column 2 of the Table below as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Meghalaya specified in column 1 of the said Table against such officer of Government :—

TABLE

Sl. No. and Name of the Parliamentary Constituency	Returning Officer
1	2
1. Shillong . . . . .	Deputy Commissioner, East Khasi Hills, Shillong.
2. Tura . . . . .	Deputy Commissioner, West Garo Hills, Tura

[No. 434/MEG/77]

**का० प्र० 97(प्र).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा अपनी तारीख 12 सितम्बर, 1975 की अधिसूचना सं० 434/मेघा०/75, को अधिक्रान्त करते हुए निर्वाचन आयोग मेघालय सरकार के परामर्श से नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर को, उस सरकारी आफिसर के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट मेघालय राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटनिंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है :—

### सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं० और नाम	रिटनिंग आफिसर
1	2
1. शिलांग	उपायुक्त, पूर्वी खासी हिल्स, शिलांग।
2. तुरा	उपायुक्त, पश्चिमी गारो हिल्स, तुरा।

[सं० 434/मेघा०/77]

**S. O. 98(B).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's notification No. 434/MEG/75(1), dated 12 September, 1975, the Election Commission hereby appoints each of the Officers of Government of Meghalaya as specified in column 2 of the Table below, to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Meghalaya specified in column 1 of the said Table against such officer or officers of Government, in the performance of the functions of such Returning Officer :—

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
1. Returning Officer of 1-Shillong Parliamentary Constituency.	1. Additional Deputy Commissioner, East Khasi Hills, Shillong 2. Deputy Commissioner, Jaintia Hills, Jowai. 3. Deputy Commissioner, West Khasi Hills, Nongstoin. 4. Sub-Divisional Officer Ribhoi Sub-Division, Nongpoh. 5. Sub-Divisional Officer, Mairang Sub-Division, Mairang.
2. Returning Officer of 2-Tura Parliamentary Constituency.	1. Additional Deputy Commissioner, West Garo Hills, Tura. 2. Deputy Commissioner, East Garo Hills Williamnagar. 3. Sub-Divisional Officer, Baghmara Sub-Division, Baghmara.

[No. 434 MEG/77(1)]

**का० प्रा० 98(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/मेघा०/75(1), तारीख 12 सितम्बर, 1975 को अधिकांश करने हुए निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मेघालय सरकार के प्रत्येक आफिसर को, ऐसे सरकारी आफिसर या आफिसरों के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट मेघालय राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए नियुक्त करता है :—

## सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
1. 1-शिलांग संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. अपर उपायुक्त, पूर्वी खासी हिल्स, शिलांग। 2. उपायुक्त, जैलिया हिल्स, जोवाई। 3. उपायुक्त, पश्चिमी खासी हिल्स नोंगास्टोइन। 4. उपखण्ड आफिसर, रिभोइ उपखण्ड, नोंगापोह। 5. उपखण्ड आफिसर, मैरांग उपखण्ड, मैरांग।



1

2

2. 2-तुरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिट-  
निंग आफिसर।

1. अपर उपायुक्त, पश्चिमी गारो हिल्स, तुरा।
2. उपायुक्त पूर्वी गारो हिल्स, विलियम नगर।
3. उपखण्ड आफिसर, बाघमारा उपखण्ड,  
बाघमारा।

[सं० 434/मेघा०/77(1)]

*New Delhi the 24th, January 1977*

**S. O. 99(E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Nagaland, the Commissioner, Nagaland, Kohima to be the Returning Officer for the Nagaland Parliamentary Constituency.

[No. 434/NL/77]

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1977

**का० आ० 99(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण, निर्वाचन आयोग नागालैण्ड सरकार के परामर्श से, आयुक्त, नागालैण्ड, कोहिमा को नागालैण्ड संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है।

[सं० 434/नागालैण्ड/77]

**S. O. 100 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints the following Officers of Government to assist the Returning Officer of the Nagaland Parliamentary Constituency in the State of Nagaland in the performance of his functions —

1. Deputy Commissioner, Kohima.
2. Deputy Commissioner, Mekokchung.
3. Deputy Commissioner, Tuen sang.
4. Deputy Commissioner, Mon.
5. Deputy Commissioner, Wekha.
6. Deputy Commissioner, Phek,
7. Deputy Commissioner, Zunheboto.
8. Additional Deputy Commissioner, Dimepur.
9. Additional Deputy Commissioner, Peren.
10. Additional Deputy Commissioner, Kiphire.
11. Additional Deputy Commissioner, attached to the Office of the Commissioner, Nagaland, Kohima.

[No. 434/NL/77(1)]

**का० आ० 100(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग नागालैण्ड

सरकार के निम्नलिखित आफिसरों को, उस राज्य के नागालैण्ड संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करता है :—

1. उपायुक्त, कोहिमा ।]
2. उपायुक्त मोकोकचुंग ।
3. उपायुक्त ट्यून्सांग ।
4. उपायुक्त, मोन ।
5. उपायुक्त, वोखा ।
6. उपायुक्त, फेक ।
7. उपायुक्त, जुन्हेबोटो ।
8. अपर उपायुक्त, दीमापुर ।
9. अपर उपायुक्त, पेरेन ।
10. अपर उपायुक्त, किफिरै ।
11. आयुक्त, नागालैण्ड, कोहिमा के कार्यालय से सम्बन्ध अपर उपायुक्त ।

[स० 434/नागालैण्ड/77(1)]

*New Delhi, the 29th January 1977*

**S.O. 101 (E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/OR/75, dated 23 March, 1975, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Orissa, the Officer of the Government specified in column (2) of the Table below as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Orissa as contained in Part A of Schedule XVII to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order 1976, and as specified in column (1) of the said Table against such Officer of Government—

TABLE

Sl. No. and Name of the Constituency	Returning Officer
1	2
1 Mayurbhanj (ST) . . . . .	Collector, Mayurbhanj.
2 Balasore . . . . .	Collector, Balasore.
3 Bhadrak (SC) . . . . .	Collector, Balasore.
4 Jaipur (SC) . . . . .	Collector, Cuttack.
5 Kendrapara . . . . .	Collector, Cuttack.
6 Cuttack . . . . .	Collector, Cuttack.
7 Jagatsinghpur . . . . .	Collector, Cuttack.
8 Puri . . . . .	Collector, Puri.
9 Bhubaneswar . . . . .	Collector, Puri.

1	2
10	Aska . . . . . Collector, Ganjam.
11	Berhampur . . . . . Collector, Ganjam.
12	Korapur (ST) . . . . . Collector, Korapur.
13	Nowrangpur (ST) . . . . . Collector, Koraput.
14	Kalahandi . . . . . Collector, Kalahandi.
15	Phulbani (SC) . . . . . Collector, Phulbani.
16	Bolangir . . . . . Collector, Bolangir.
17	Sambalpur . . . . . Collector, Sambalpur.
18	Deogarh . . . . . Collector, Sambalpur.
19	Dhenkanal . . . . . Collector, Dhenkanal.
20	Sundargarh (ST) . . . . . Collector, Sundargarh.
21	Keonjhar (ST) . . . . . Collector, Keonjhar.

[No. 434/OR/77]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1977

क्रा० आ० 101(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/उड़ीसा/75, तारीख 22 मार्च, 1975 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग उड़ीसा सरकार के परामर्श से, नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर को, ऐसे सरकारी आफिसर के सामने उड़ीसा राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, जैसा कि वह संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 17 के भाग क में श्रन्तविष्ट है और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट है, के लिए रिटनिंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है :—

## सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	रिटनिंग आफिसर
1	2
1. मयूरभंज (अ०ज०जा०) . . .	कलक्टर, मयूरभंज ।
2. बालासोर . . .	कलक्टर, बालासोर ।
3. भाद्रक (अ०जा०) . . .	कलक्टर, बालासोर ।
4. जाजपुर (अ०जा०) . . .	कलक्टर, कटक ।
5. केन्द्रपारा . . .	कलक्टर, कटक ।

1	2
6. कटक . . . . .	कलक्टर, कटक ।
7. जगतसिंहपुर . . . . .	कलक्टर, कटक ।
8. पुरी . . . . .	कलक्टर, पुरी ।
9. भुवनेश्वर . . . . .	कलक्टर, पुरी ।
10. भ्रासका . . . . .	कलक्टर, गंजम ।
11. बहरामपुर . . . . .	कलक्टर, गंजम ।
12. कोरापुट (अ०ज०जा०) . . . . .	कलक्टर, कोरापुट ।
13. नोरगपुर (अ०ज०जा०) . . . . .	कलक्टर, कोरापुट ।
14. कालाहण्डी . . . . .	कलक्टर, कालाहण्डी ।
15. फूलबनी (अ०जा०) . . . . .	कलक्टर, फूलबनी ।
16. बोलंगीर . . . . .	कलक्टर, बोलंगीर ।
17. सम्बलपुर . . . . .	कलक्टर, सम्बलपुर ।
18. देवगढ़ . . . . .	कलक्टर, सम्बलपुर ।
19. धेन्कानल . . . . .	कलक्टर, धेन्कानल ।
20. सुन्दरगढ़ (अ०ज०जा०) . . . . .	कलक्टर, सुन्दरगढ़ ।
21. कयोन्कर (अ०ज०जा०) . . . . .	कलक्टर, कयोन्कर ।

[सं० 434/उड़ीसा/77]

**S. O. 102 (E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/OR/75(1), dated 22 March, 1975, the Election Commission hereby appoints the Officer or Officers of the Government as specified in column(2) of the Table below to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Orissa as contained in Part A of Schedule XVII to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and as specified in column (1) of the said Table against such Officer or Officers of Government in the performance of the functions of such Returning Officer :—

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer or Officers
1	2
1. Returning Officer of 1-Mayurbhanj (ST) Parliamentary Constituency.	1. Additional District Magistrate, Mayurbhanj. 2. Sub-Divisional Officer, Panchpir. 3. Sub-Divisional Officer, Bamanghaty. 4. Sub-Divisional Officer, Sadar, Baripada. 5. Sub-Divisional Officer, Kaptipada.

I

2

- |   |  |
|---|--|
| 2. Returning Officer of 2-Balasore Parliamentary Constituency.          | 1. Additional District Magistrate, Balasore.<br>2. Sub-Divisional Officer, Sadar, Baripada.<br>3. Sub-Divisional Officer, Kaptipada.<br>4. Sub-Divisional Officer, Sadar, Balasore.  |
| 3. Returning Officer of 3-Bhadrak (SC) Parliamentary Constituency.      | 1. Additional District Magistrate, Balasore.<br>2. Sub-Divisional Officer, Sadar, Balasore.<br>3. Sub-Divisional Officer, Nilgiri.<br>4. Sub-Divisional Officer, Bhadrak.  |
| 4. Returning Officer of 4-Jaipur (SC) Parliamentary Constituency.       | 1. Additional District Magistrate, Cuttack.<br>2. Sub-Divisional Officer, Jaipur.<br>3. Sub-Divisional Officer, Kendrapara.  |
| 5. Returning Officer of 5-Kendrapara Parliamentary Constituency.        | 1. Additional District Magistrate, Cuttack.<br>2. District Development Officer, Cuttack.<br>3. Sub-Divisional Officer, Kendrapara.<br>4. Sub-Divisional Officer, Sadar, Cuttack.<br>5. Sub-Divisional Officer, Jagatsinghpur.  |
| 6. Returning Officer of 6-Cuttack Parliamentary Constituency.           | 1. Additional District Magistrate, Cuttack.<br>2. District Development Officer, Cuttack.<br>3. Sub-Divisional Officer, Sadar, Cuttack.<br>4. Sub-Divisional Officer, Banki.<br>5. Sub-Divisional Officer, Athgarh.   |
| 7. Returning Officer of 7-Jagatsinghpur Parliamentary Constituency.     | 1. Additional District Magistrate, Cuttack.<br>2. Additional District Magistrate, Puri.<br>3. District Development Officer, Cuttack.<br>4. Sub-Divisional Officer, Jagatsinghpur.<br>5. Sub-Divisional Officer, Sadar, Cuttack.<br>6. Sub-Divisional Officer, Sadar, Puri. |
| 8. Returning Officer of 8-Puri Parliamentary Constituency.              | 1. Additional District Magistrate, Puri.<br>2. Sub-Divisional Officer, Sadar Puri.<br>3. Sub-Divisional Officer, Bhubaneswar.<br>4. Sub-Divisional Officer, Khurda.<br>5. Sub-Divisional Officer, Nayagarh.  |
| 9. Returning Officer of 9-Bhubaneswar Parliamentary Constituency.       | 1. Additional District Magistrate, Puri.<br>2. Sub-Divisional Officer, Bhubaneswar.<br>3. Sub-Divisional Officer, Khurda.<br>4. Sub-Divisional Officer, Nayagarh.  |
| 10. Returning Officer of 10-Aska Parliamentary Constituency.            | 1. Additional District Magistrate, Ganjam.<br>2. Sub-Divisional Officer, Bhanjanagar.<br>3. Sub-Divisional Officer, Chatrapur.   |
| 11. Returning Officer of 11-Berhampur Parliamentary Constituency.       | 1. Additional District Magistrate, Ganjam.<br>2. Sub-Divisional Officer, Chatrapur.<br>3. Sub-Divisional Officer, Berhampur.<br>4. Sub-Divisional Officer, Parlakhemundi.  |
| 12. Returning Officer of 12-Koraput (ST) Parliamentary Constituency.    | 1. Additional District Magistrate, Koraput.<br>2. Sub-Divisional Officer, Gunupur.<br>3. Sub-Divisional Officer, Rayagada.<br>4. Sub-Divisional Officer, Koraput.<br>5. Sub-Divisional Officer, Jeypore.   |
| 13. Returning Officer of 13-Nowrangpur (ST) Parliamentary Constituency. | 1. Additional District Magistrate, Koraput.<br>2. Sub-Divisional Officer, Malkangiri.<br>3. Sub-Divisional Officer, Jeypore.<br>4. Sub-Divisional Officer, Nowrangpur.   |

1

2

- |   |   |
|---|---|
| 14. Returning Officer of 14-Kalahandi Parliamentary Constituency.       | 1. Additional District Magistrate, Kalahandi.<br>2. Sub-Divisional Officer, Nawapara.<br>3. Sub-Divisional Officer, Dharamgarh.<br>4. Sub-Divisional Officer, Sadar, Bhawanipatna.  |
| 15. Returning Officer of 15-Phulbani (SC) Parliamentary Constituency.   | 1. Additional District Magistrate, Phulbani.<br>2. Sub-Divisional Officer, Bhanjanagar.<br>3. Sub-Divisional Officer, Balliguda.<br>4. Sub-Divisional Officer, Phulbani.<br>5. Sub-Divisional Officer, Boudh.<br>6. Sub-Divisional Officer, Sonepur.  |
| 16. Returning Officer of 16-Belangir Parliamentary Constituency.        | 1. Additional District Magistrate, Belangir.<br>2. Sub-Divisional Officer, Nawapara.<br>3. Sub-Divisional Officer, Titilagarh.<br>4. Sub-Divisional Officer, Patnagarh.<br>5. Sub-Divisional Officer, Belangir.   |
| 17. Returning Officer of 17-Sambalpur Parliamentary Constituency.       | 1. Additional District Magistrate, Sambalpur.<br>2. Sub-Divisional Officer, Padmapur.<br>3. Sub-Divisional Officer, Baragarh.<br>4. Sub-Divisional Officer, Sadar, Sambalpur.<br>5. Sub-Divisional Officer, Rairakhol.  |
| 18. Returning Officer of 18-Deogarh Parliamentary Constituency.         | 1. Additional District Magistrate, Sambalpur.<br>2. Additional District Magistrate, Dhenkanal.<br>3. Sub-Divisional Officer, Pallahara.<br>4. Sub-Divisional Officer, Talcher.<br>5. Sub-Divisional Officer, Sadar, Sambalpur.<br>6. Sub-Divisional Officer, Kuchinda.<br>7. Sub-Divisional Officer, Deogarh. |
| 19. Returning Officer of 19-Dhenkanal Parliamentary Constituency.       | 1. Additional District Magistrate, Dhenkanal.<br>2. Sub-Divisional Officer, Sonepur.<br>3. Sub-Divisional Officer, Athamallik.<br>4. Sub-Divisional Officer, Angul.<br>5. Sub-Divisional Officer, Hindol.<br>6. Sub-Divisional Officer, Dhenkanal.<br>7. Sub-Divisional Officer, Kamakhyanagar.               |
| 20. Returning Officer of 20-Sundargarh (ST) Parliamentary Constituency. | 1. Additional District Magistrate, Sundargarh.<br>2. Additional District Magistrate, Rourkela.<br>3. Sub-Divisional Officer, Sadar, Sundargarh.<br>4. Sub-Divisional Officer, Panposh.<br>5. Sub-Divisional Officer, Bonai.   |
| 21. Returning Officer of 21-Keonjhar (ST) Parliamentary Constituency.   | 1. Additional District Magistrate, Keonjhar.<br>2. Sub-Divisional Officer, Panchplri.<br>3. Sub-Divisional Officer, Champua.<br>4. Sub-Divisional Officer, Keonjhar.<br>5. Sub-Divisional Officer, Anandapur.   |

No. 434/OR/77 (1)]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

क्र० आ० 102 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा अपनी अधिसूचना सं० 434 'उड़ीसा/75(1)', तारीख 22 मार्च, 1975 को अधिकान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर या आफिसरों को, ऐसे सरकारी आफिसर या आफिसरों के सामने उड़ीसा राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, जैसा कि वह संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 17 के भाग क में अन्तर्निहित है और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट है, के रिटनिंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटनिंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है :—

## सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	सहायक रिटनिंग आफिसर
1	2
1. 1.—मयूरभंज (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर]	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, मयूरभंज । 2. उपखण्ड आफिसर, पंचपीर । 3. उपखण्ड आफिसर, बामनघाटी । 4. उपखण्ड आफिसर, सवर, बाड़ीपाड़ा । 5. उपखण्ड आफिसर, कपटीपाड़ा ।
2. 2.—बालासोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालासोर । 2. उपखण्ड आफिसर, मंदर, बाड़ीपाड़ा । 3. उपखण्ड आफिसर, कपटीपाड़ा । 4. उपखण्ड आफिसर, सवर, बालासोर ।
3. 3.—भाद्रक (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर]	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालासोर । 2. उपखण्ड आफिसर, सदर, बालासोर । 3. उपखण्ड आफिसर, नीलगिरि । 4. उपखण्ड आफिसर, भाद्रक ।
4. 4.—जाजपुर (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, कटक । 2. उपखण्ड आफिसर, जाजपुर । 3. उपखण्ड आफिसर, केन्द्रपारा ।]
5. 5.—केन्द्रपारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, कटक । 2. जिला विकास आफिसर, कटक । 3. उप-खण्ड आफिसर, केन्द्रपारा ।] 4. उप-खण्ड आफिसर, सवर, कटक ।] 5. उप-खण्ड आफिसर, जगतसिंहपुर ।'

1	2
6. 6.—कटक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, कटक । 2. जिला विकास आफिसर, कटक । 3. उपखण्ड आफिसर, सदर, कटक । 4. उप खण्ड आफिसर, बंकी । 5. उप-खण्ड आफिसर, भयगढ़ ।
7. 7.—अगतसिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, कटक । 2. अपर जिला मजिस्ट्रेट, पुरी । 3. जिला विकास आफिसर, कटक । 4. उप-खण्ड आफिसर, अगतसिंहपुर । 5. उप-खण्ड आफिसर, सदर, कटक । 6. उप-खण्ड आफिसर, सदर, पुरी ।
8. 8.—पुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, पुरी । 2. उप-खण्ड आफिसर, सदर, पुरी । 3. उप-खण्ड आफिसर, भुवनेश्वर । 4. उप-खण्ड आफिसर, खुर्दा । 5. उप-खण्ड आफिसर, नयागढ़ ।
9. 9.—भुवनेश्वर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, पुरी । 2. उप-खण्ड आफिसर, भुवनेश्वर । 3. उप-खण्ड आफिसर, खुर्दा । 4. उप-खण्ड आफिसर, नयागढ़ ।
10. 10.—भ्रासक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, गंजम । 2. उप-खण्ड आफिसर, भंजानगर । 3. उप-खण्ड आफिसर, चन्नपुर ।
11. 11.—बरहामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, गंजम । 2. उप-खण्ड आफिसर, चन्नपुर । 3. उप-खण्ड आफिसर, बरहामपुर । 4. उप-खण्ड आफिसर, परलाखेमण्डी ।
12. 12.—कोरापुट (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, कोरापुट । 2. उप-खण्ड आफिसर, गुमुपुर । 3. उप-खण्ड आफिसर, रायगाडा । 4. उप-खण्ड आफिसर, कोरापुट । 5. उप-खण्ड आफिसर, जयेपौर ।
13. 13.—नौरंगपुर (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, कोरापुट । 2. उप-खण्ड आफिसर, मलकानगिरि । 3. उप-खण्ड आफिसर, जयेपौर । 4. उप-खण्ड आफिसर, नौरंगपुर ।



1

2

- |  |  |
|--|--|
| 14. 14-कालाहण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।      | 1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, कालाहण्डी ।<br>2. उप-खण्ड आफिसर, नवापरा ।<br>3. उप-खण्ड आफिसर, धर्मगढ़ ।<br>4. उप-खण्ड आफिसर, सदर, भवानीपटना ।   |
| 15. 15-फूलवती (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर। | 1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, फूलवती ।<br>2. उप-खण्ड आफिसर, भंजानगर ।<br>3. उप-खण्ड आफिसर, बल्लीगुडा ।<br>4. उप-खण्ड आफिसर, फूलवती ।<br>5. उप-खण्ड आफिसर, बीघ ।<br>6. उप-खण्ड आफिसर, सोनेपुर ।   |
| 16. 16-बोलंगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।        | 1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, बोलंगीर ।<br>2. उप-खण्ड आफिसर, नवापारा ।<br>3. उप-खण्ड आफिसर, तितिलागढ़ ।<br>4. उप-खण्ड आफिसर, पटनागढ़ ।<br>5. उप-खण्ड आफिसर, बोलंगीर ।  |
| 17. 17-सम्बलपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।       | 1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, सम्बलपुर ।<br>2. उप-खण्ड आफिसर, पदमपुर ।<br>3. उप-खण्ड आफिसर, बारागढ़ ।<br>4. उप-खण्ड आफिसर, सदर, सम्बलपुर ।<br>5. उप-खण्ड आफिसर, रेराखोल ।  |
| 18. 18-देवगढ़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।         | 1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, सम्बलपुर ।<br>2. अपर जिला मजिस्ट्रेट, धेन्कानल ।<br>3. उप-खण्ड आफिसर, परलाहारा ।<br>4. उप-खण्ड आफिसर, तालचेर ।<br>5. उप-खण्ड आफिसर, सदर, सम्बलपुर ।<br>6. उप-खण्ड आफिसर, कुचिणदा ।<br>7. उप-खण्ड आफिसर, देवगढ़ । |
| 19. 19-धेन्कानल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।       | 1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, धेन्कानल ।<br>2. उप-खण्ड आफिसर, सोनेपुर ।<br>3. उप-खण्ड आफिसर, अठमलिक ।<br>4. उप-खण्ड आफिसर, अगुल ।<br>5. उप-खण्ड आफिसर, हिण्डोल ।<br>6. उप-खण्ड आफिसर, धेन्कानल ।<br>7. उप-खण्ड आफिसर, कामाख्या नगर ।           |

1

2

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 20  | 20-सुन्दरगढ़ (अ० ज० जा०) ससदीय<br>निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर | 1. अमर जिला मजिस्ट्रेट, सुन्दरगढ़ ।<br>2 अमर जिला मजिस्ट्रेट, राउरकेला ।<br>3. उप-खण्ड आफिसर, सधर, सुन्दरगढ़ ।<br>4. उप-खण्ड आफिसर, पनपीरा ।<br>5 उप-खण्ड आफिसर, बोनाई । |
| 21. | 21-क्योन्सर (अ० ज० जा०) ससदीय<br>निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर  | 1. अमर जिला मजिस्ट्रेट, क्योन्सर ।<br>2 उप-खण्ड आफिसर, पचपीरा ।<br>3. उप-खण्ड आफिसर, चम्पुआ ।<br>4. उप-खण्ड आफिसर, क्योन्सर ।<br>5. उप-खण्ड आफिसर, आनन्दपुर ।            |

[मं० 434/उड़ीसा/77(1)]

आदेश से,

ए० एन० मैन, सचिव ।

*New Delhi, the 29th January, 1977*

**S. O. 103 (E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/PB/75(1) dated 9 December, 1975, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Punjab, the Officer of Government specified in column 2 of the Table below as the Returning Officer of the parliamentary constituency in the State of Punjab, as contained in Part A of Schedule XVIII to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and specified in column 1 of the said Table against such officer of Government—

TABLE

Serial No. and name of the parliamentary constituency.	Returning Officer.
--	--------------------

1	2
1. Gurdaspur . . . . .	Deputy Commissioner, Gurdaspur
2. Amritsar . . . . .	Deputy Commissioner, Amritsar
3. Tarn Taran . . . . .	Deputy Commissioner, Amritsar
4. Jullundur . . . . .	Deputy Commissioner, Jullundur
5. Phillaur (SC) . . . . .	Deputy Commissioner, Jullundur
6. Hoshiarpur . . . . .	Deputy Commissioner, Hoshiarpur
7. Ropar (SC) . . . . .	Deputy Commissioner, Ropar
8. Patiala . . . . .	Deputy Commissioner, Patiala
9. Ludhiana . . . . .	Deputy Commissioner, Ludhiana
10. Sangrur . . . . .	Deputy Commissioner, Sangrur
11. Bhatinda (SC) . . . . .	Deputy Commissioner, Bhatinda
12. Faridkot . . . . .	Deputy Commissioner, Faridkot
13. Ferozepur . . . . .	Deputy Commissioner, Ferozepur

The Election Commission's Notification No. 434 / PB/69 dated 7 November, 1970 is hereby cancelled.

[No. 434/PB/77(1)]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1977

का० प्रा० 103 (घ) —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/जाब/75(1) तांख 9 दिसम्बर, 1975 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग पंजाब सरकार के परामर्श में, नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट मरकाजी आफ्रिसर को, पंजाब राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, जैसा कि वे संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची XVIII के भाग क में अन्तर्विष्ट है और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में सरकार के ऐसे आफ्रिसर के सामने विनिर्दिष्ट है, के लिये रिटनिंग आफ्रिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है —

## सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या तथा नाम	रिटनिंग आफ्रिसर
1	2
1. गुरदामपुर	उपायुक्त, गुरदामपुर ।
2. अमृतसर	उपायुक्त, अमृतसर ।
3. तरनतारन	उपायुक्त, अमृतसर ।
4. जालन्धर	उपायुक्त, जालन्धर ।
5. फ़िन्लीर (अ० जा०)	उपायुक्त, जालन्धर ।
6. होशियारपुर	उपायुक्त, होशियारपुर ।
7. रोपड़ (अ० जा०)	उपायुक्त, रोपड़ ।
8. पटियाला	उपायुक्त, पटियाला ।
9. लुधियाना	उपायुक्त, लुधियाना ।
10. सगूर	उपायुक्त, सगूर ।
11. भटिण्डा (अ० जा०)	उपायुक्त, भटिण्डा ।
12. फ़रीदकोट	उपायुक्त, फ़रीदकोट ।
13. फ़िरोज़पुर	उपायुक्त, फ़िरोज़पुर ।

आयोग को अधिसूचना सं० 434/पंजाब/69, तारीख 7 नवम्बर, 1970 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

[स० 434/पंजाब/77(1)].

**S. O. 104(H).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/PB/75(2) dated 9 December, 1975, the Election Commission hereby appoints each of the officers of Government as specified in column 2 of the Table below as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the parliamentary constituency in the State of Punjab as contained in Part A of Schedule XVIII to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, and specified in column 1 of the said Table against such Officer or Officers of Government in the performance of the functions of such Returning Officer:—

TABLE

Returning Officer of parliamentary constituency	Assistant Returning Officer
1	2
1. Returning Officer of 1-Gurdaspur Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Officer, Batala. 2. Sub-Divisional Officer, Gurdaspur. 3. General Assistant, Gurdaspur. 4. District Transport Officer, Gurdaspur. 5. Sub-Divisional Officer, Pathankot. 6. Sub-Divisional Officer, Dasuya. 7. Project Officer, Gurdaspur.
2. Returning Officer of 2-Amritsar Parliamentary Constituency.	1. District Transport Officer, Amritsar. 2. Executive Magistrate (I), Amritsar. 3. General Assistant, Amritsar. 4. Sub-Divisional Officer, Ajnala. 5. Sub-Divisional Officer, Batala. 6. District Officer, Removal of Grievances, Gurdaspur. 7. Additional Deputy Commissioner Amritsar.
3. Returning Officer of 3-Tarn Taran Parliamentary Constituency	1. Sub-Divisional Officer, Amritsar. 2. Sub-divisional Officer, Ajanta. 3. Sub-Divisional Officer, Tarn Taran. 4. Executive Magistrate, Tarn Taran. 5. Sub-Divisional Officer, Fatti. 6. Additional Deputy Commissioner, Amritsar.
4. Returning Officer of 4-Jullundur Parliamentary Constituency.	1. District Officer, Removal of Grievances, Jullundur. 2. Sub-Divisional Officer, Jullundur. 3. Executive Magistrate, Jullundur. 4. Sub-Divisional Officer, Nakodar. 5. Sub-Divisional Officer, Kapurthala. 6. Sub-Divisional Officer, Sultanpur.
5. Returning Officer of 5-Phillaur (SC) Parliamentary Constituency.	1. General Assistant, Jullundur. 2. Executive Magistrate, Jullundur. 3. Sub-Divisional Officer, Phillaur. 4. Sub-Divisional Officer, Nawanshahr. 5. Sub-Divisional Officer, Kapurthala. 6. Sub-Divisional Officer, Phagwara. 7. Sub-Divisional Officer, Hoshiarpur. 8. District Officer, Removal of Grievances, Gurdaspur.
6. Returning Officer of 6-Hoshiarpur Parliamentary Constituency	1. Sub-Divisional Officer, Hoshiarpur. 2. Sub-Divisional Officer, Garhshankar. 3. Sub-Divisional Officer, Dasuya. 4. Sub-Divisional Officer, Anandpur Sahib. 5. District Transport Officer, Hoshiarpur. 6. District Officer, Removal of Grievances, Hoshiarpur.

7. Returning Officer of 7-Ropar(SC) Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Officer, Rapar. 2. Sub-Divisional Officer, Kharar. 3. Sub-Divisional Officer, Samrala. 4. Sub-Divisional Officer, Nabha. 5. Sub-Divisional Officer, Fatchgarh Sahib at Bassi. 6. Executive Magistrate, Sangrur.
8. Returning Officer of 8-Patiala Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Officer, Rajpura. 2. General Assistant(I), Patiala. 3. Sub-Divisional Officer, Patiala. 4. Sub-Divisional Officer, Samana. 5. Sub-Divisional Officer, Sunam. 6. Executive Magistrate Ist Class, Patiala.
9. Returning Officer of 9-Ludhiana Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Officer, Jagraon. 2. Sub-Divisional Officer, Ludhiana. 3. District Officer, Removal of Grievances, Ludhiana. 4. Deputy Director, Urban Local Bodies, Ludhiana. 5. Executive Magistrate, Ludhiana.
10. Returning Officer of 10-Sangrur Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Officer, Malerkotla. 2. Sub-Divisional Officer, Barnala. 3. Sub-Divisional Officer, Sangrur. 4. Sub-Divisional Officer, Jagraon. 5. Project Officer, Faridkot. 6. Executive Magistrate, Sangrur.
11. Returning Officer of 11-Bhatinda (SC) Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Officer, Bhatinda. 2. General Assistant, Bhatinda. 3. District Transport Officer, Bhatinda. 4. Sub-Divisional Officer, Rampura Phul. 5. Sub-Divisional Officer, Manse.
12. Returning Officer of 12-Faridkot Parliamentary Constituency.	1. General Assistant, Faridkot. 2. Sub-Divisional Officer, Moga. 3. Sub-Divisional Officer, Faridkot. 4. Sub-Divisional Officer, Muktsar. 5. Executive Magistrate, Faridkot. 6. District Transport Officer, Faridkot.
13. Returning Officer of 13-Ferozepur Parliamentary Constituency.	1. General Assistant, Ferozepur. 2. Executive Magistrate, Fazilka. 3. Sub-Divisional Officer, Fazilka. 4. Sub-Divisional Officer, Ferozepur. 5. Sub-Divisional Officer, Zira. 6. District Officer, Removal of Grievances, Ferozepur.

[No. 434/PB/77(2)]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

का० धा० 104 (ख).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/पंजाब/75 (2) तारीख 9 दिसम्बर, 1975 को अधिकांश करते हुए, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा-विनिर्दिष्ट प्रत्येक सरकारी आफिसर को, ऐसे सरकारी आफिसर

के सामने, पंजाब राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र जैसे कि वे संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची XVIII के भाग क में अन्तर्निष्ठ, तथा उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट है के रिटनिंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटनिंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है :—

### सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	सहायक रिटनिंग आफिसर
1	2
1.1—गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. उपखण्ड आफिसर, बटाला । 2. उपखण्ड आफिसर, गुरदासपुर । 3. सामान्य सहायक, गुरदासपुर । 4. जिला परिवहन आफिसर, गुरदासपुर । 5. उपखण्ड आफिसर, पठानकोट । 6. उपखण्ड आफिसर, दसूया । 7. परियोजना, आफिसर, गुरदासपुर ।
2.2—अमृतसर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. जिला परिवहन आफिसर, अमृतसर । 2. कार्यपालक मजिस्ट्रेट (1), अमृतसर । 3. सामान्य सहायक, अमृतसर । 4. उपखण्ड आफिसर, अजनाला । 5. उपखण्ड आफिसर, बटाला । 6. जिला आफिसर, शिकायत निराकरण, गुरदासपुर । 7. अपर उपायुक्त, अमृतसर ।
3.3—तरन-तारन संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. उपखण्ड आफिसर, अमृतसर । 2. उपखण्ड आफिसर, अजनाला । 3. उपखण्ड आफिसर, तरन-तारन । 4. कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तरन-तारन । 5. उपखण्ड आफिसर, पट्टी । 6. अपर उपायुक्त, अमृतसर ।
4.4—जालन्धर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. जिला आफिसर, शिकायत निराकरण, जालन्धर । 2. उपखण्ड आफिसर, जालन्धर । 3. कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जालन्धर । 4. उपखण्ड आफिसर, नाकोदर । 5. उपखण्ड आफिसर, कपूरथला । 6. उपखण्ड आफिसर, सुलतानपुर ।

1

2

5.5—फिल्लोर (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. सामान्य सहायक, जालन्धर ।
2. कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जालन्धर ।
3. उपखण्ड आफिसर, फिल्लोर ।
4. उपखण्ड आफिसर, नवांशहर ।
5. उपखण्ड आफिसर, कपूरथला ।
6. उपखण्ड आफिसर, फगवाड़ा ।
7. उपखण्ड आफिसर, होशियारपुर ।
8. जिला आफिसर, शिकायत निराकरण, गुरदासपुर ।

6.6—होशियारपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. उपखण्ड आफिसर, होशियारपुर ।
2. उपखण्ड आफिसर, गढ़शंकर ।
3. उपखण्ड आफिसर, दसूया ।
4. उपखण्ड आफिसर, भानन्वपुर साहिब ।
5. जिला परिवहन आफिसर, होशियारपुर ।
6. जिला आफिसर, शिकायत निराकरण, होशियारपुर ।

7.7—रोपड़ (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. उपखण्ड, आफिसर, रोपड़ ।
2. उपखण्ड आफिसर, खरार ।
3. उपखण्ड आफिसर, समराला ।
4. उपखण्ड आफिसर, नाभा ।
5. उपखण्ड आफिसर, फतेहगढ़ साहिब, बस्ती ।
6. कार्यपालक मजिस्ट्रेट, संगरूर ।

8.8—पटियाला संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. उपखण्ड आफिसर, राजपुरा ।
2. सामान्य सहायक (1), पटियाला ।
3. उपखण्ड आफिसर, पटियाला ।
4. उपखण्ड आफिसर, समाना ।
5. उपखण्ड आफिसर, सुनाम ।
6. कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पटियाला ।

9.9—लुधियाना संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।

1. उपखण्ड आफिसर, जगरांव ।
2. उपखण्ड आफिसर, लुधियाना ।
3. जिला आफिसर, शिकायत निराकरण, लुधियाना ।
4. उप-निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, लुधियाना ।
5. कार्यपालक मजिस्ट्रेट, लुधियाना ।

1

2

10.10—सगरूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. उपखण्ड आफिसर, मलेरकोटसा । 2. उपखण्ड आफिसर, बरनाला । 3. उपखण्ड आफिसर, सगरूर । 4. उपखण्ड आफिसर, जगराव । 5. परियोजना आफिसर, फरीदकोट । 6. कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सगरूर ।
11.11—भटिण्डा (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. उपखण्ड आफिसर, भटिण्डा । 2. सामान्य सहायक, भटिण्डा । 3. जिला परिवहन आफिसर, भटिण्डा । 4. उप-खण्ड आफिसर, रामपुरा फूल । 5. उपखण्ड आफिसर, मानसा ।
12.12—फरीदकोट संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. सामान्य सहायक, फरीदकोट । 2. उपखण्ड आफिसर, भोगा । 3. उपखण्ड आफिसर, फरीदकोट । 4. उपखण्ड आफिसर, मुक्तसर । 5. कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फरीदकोट । 6. जिला परिवहन आफिसर, फरीदकोट ।
13.13—फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. सामान्य सहायक, फिरोजपुर । 2. कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फाजिल्का । 3. उपखण्ड आफिसर, फाजिल्का । 4. उपखण्ड आफिसर, फिरोजपुर । 5. उपखण्ड आफिसर, जीरा । 6. जिला आफिसर, शिकायती निराकरण, फिरोजपुर ।

[सं० 434/पंजाब/77(2)]

आदेश से,

बी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

New Delhi, the 29 January, 1977

**S.O. 105(E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of its notification No. 424/RJ/75(I) dated 22 September, 1975 the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Rajasthan, the officer of the Government specified in column 2 of the Table below, as the Returning Officer of the Parliamentary Constituencies in the State of Rajasthan, as contained in Part A of Schedule XIX of the Delimitation of Parliamentary



and Assembly Constituencies Order, 1976, and as specified in column 1 of the said Table against such officer of the Government:—

TABLE

Serial No. and Name of the Constituency	Returning Officer
1	2
1. Ganganagar (SC)	District Magistrate, Ganganagar.
2. Bikaner	District Magistrate, Bikaner.
3. Churu	District Magistrate Churu.
4. Jhunjhunu	District Magistrate, Jhunjhunu.
5. Sikar	District Magistrate, Sikar.
6. Jaipur	District Magistrate, Jaipur.
7. Dausa	District Magistrate, Jaipur.
8. Alwar	District Magistrate, Alwar.
9. Bharatpur	District Magistrate, Bharatpur.
10. Bayana (SC)	District Magistrate, Bharatpur.
11. Sawai Madhopur(ST)	District Magistrate, Sewai Madhopur.
12. Ajmer	District Magistrate, Ajmer.
13. Tonk(SC)	District Magistrate, Tonk.
14. Kota	District Magistrate, Kota.
15. Jhalawar	District Magistrate, Jhalawar.
16. Banswara (ST)	District Magistrate, Banswara.
17. Salumber(ST)	District Magistrate, Udaipur.
18. Udaipur	District Magistrate, Udaipur.
19. Chittorgarh	District Magistrate, Chittorgarh.
20. Bhilwara	District Magistrate, Bhilwara.
21. Pali	District Magistrate, Pali.
22. Jalore (SC)	District Magistrate, Jalore.
23. Barmer	District Magistrate, Barmer.
24. Jodhpur	District Magistrate, Jodhpur.
25. Nagaur	District Magistrate, Nagaur.

[No. 434/R J/77(I)]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1977

का. प्र. 103 (प्र).—चोट प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के प्रचुरण में तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/राज०/75(1) तारीख 22 नवम्बर, 1975 को अधिक्रान्त करने हुए, निर्वाचन आयोग, राजस्थान सरकार के परामर्श से नीचे की मारगी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर को ऐसे सरकारी आफिसर के समाने, राजस्थान राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जेसा कि वे संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची XIX के भाग 'क' में अनिविष्ट हैं और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, के लिए टिटिंग आफिसर के रूप में पदामिहित करता है :—

## सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	टिटिंग आफिसर
1. गंगानगर (प्र० जा०)	जिना मजिस्ट्रेट, गंगानगर।
2. बीकानेर	जिना मजिस्ट्रेट, बीकानेर।

1

2

3. चुरू	जिला मजिस्ट्रेट, चुरू ।
4. झुनझुनू	जिला मजिस्ट्रेट, झुनझुनू ।
5. सीकर	जिला मजिस्ट्रेट, सीकर ।
6. जयपुर	जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ।
7. दौसा	जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ।
8. अलवर	जिला मजिस्ट्रेट, अलवर ।
9. भरतपुर	पंजाब मजिस्ट्रेट, भरतपुर ।
10. बयाना (अ० जा०)	जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर ।
11. सवाई माधोपुर (अ० ज० जा०)	जिला मजिस्ट्रेट, सवाई, माधोपुर
12. अजमेर	जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ।
13. टोंक (अ० जा०)	जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ।
14. कोटा	जिला मजिस्ट्रेट, कोटा ।
15. झालवाड़ा	जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड़ा
16. बांसवाड़ा (अ० जा० जा०)	जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा ।
17. सलुम्बर (अ० ज० जा०)	जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर ।
18. उदयपुर	जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर ।
19. चित्तौड़गढ़	जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ ।
20. झालवाड़ा	जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड़ा ।
21. पाली	जिला मजिस्ट्रेट, पाली ।
22. जालोर (अ० जा०),	जिला मजिस्ट्रेट, जालोर ।
23. बाड़मेर	जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर ।
24. जोधपुर	जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर ।
25. नागौर	जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ।

**S.O. 106 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/RJ/75(2), dated 22 September, 1975 the Election Commission hereby appoints the officers of the Government of Rajasthan as specified in column 2 of the Table below to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituencies in the State of Rajasthan, as contained in Part A of the Schedule XIX of the Delimitation of Parliamentary & Assembly Constituencies Order, 1976 and as specified in column 1 of the said Table against such officers of Government in the performance of the functions of such Returning Officer:—

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer.
1	2
1. Returning Officer of 1-Ganganagar (SC) Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Magistrate, Nohar. 2. Sub-Divisional Magistrate, Hanumangarh. 3. Assistant Collector & Executive Magistrate, Hanumangarh. 4. Sub-Divisional Magistrate, Ganganagar. 5. Sub-Divisional Magistrate, Karanpur.
2. Returning Officer of 2-Bikaner Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Magistrate, Raisinghnagar. 2. Assistant Collector & Executive Magistrate, Hanumangarh. 3. Sub-Divisional Magistrate, Bikaner North. 4. City Magistrate, Bikaner. 5. Sub-Divisional Magistrate, Bikaner South. 6. Sub-Divisional Magistrate, Nagaur.
3. Returning Officer of 3. Churu Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Magistrate, Ratangarh. 2. Deputy District Development Officer, Churu. 3. Sub-Divisional Magistrate, Churu. 4. Sub-Divisional Magistrate, Rajgarh. 5. Sub-Divisional Magistrate, Deedwana.
4. Returning Officer of 4-Jhunjhunu Parliamentary Constituency.	1. Assistant Collector & Executive Magistrate, Jhunjhunu. 2. Sub-Divisional Magistrate, Khetri. 3. Sub-Divisional Magistrate, Nawalgarh. 4. Sub-Divisional Magistrate, Jhunjhunu. 5. Sub-Divisional Magistrate, Fatehpur.
5. Returning Officer of 5. Sikar Parliamentary Constituency.	1. Sub-Divisional Magistrate, Fatehpur. 2. Sub-Divisional Magistrate, Sikar. 3. Assistant Collector & Executive Magistrate, Sikar. 4. Additional District Development Officer, Sikar. 5. Sub-Divisional Magistrate, Neem-ka-Thana. 6. Sub-Divisional Magistrate, Amber.
6. Returning Officer of 6. Jaipur Parliamentary Constituency.	1. Assistant Collector & Executive Magistrate, No. 1, Jaipur. 2. City Magistrate, Jaipur. 3. Assistant Collector & Executive Magistrate, No. 3, Jaipur. 4. Sub-Divisional Magistrate, Jaipur. 5. Assistant Collector & Executive Magistrate, No. 2, Jaipur.

I

2

- |  |   |
|--|---|
| 7. Returning Officer of 7. Dausa Parliamentary Constituency.                 | 1. Sub-Divisional Magistrate, Amber.<br>2. Sub-Divisional Magistrate, Dausa.<br>3. Assistant Collector & Executive Magistrate, Bandikui.<br>4. Assistant Collector & Executive Magistrate, No. 1, Jaipur.<br>5. Sub-Divisional Magistrate, Kotputli.  |
| 8. Returning Officer of 8. Alwar Parliamentary Constituency.                 | 1. Sub-Divisional Magistrate, Behror.<br>2. Sub-Divisional Magistrate, Tizara (H.Q. Kishangarhbas).<br>3. Assistant Collector & Executive Magistrate, Alwar.<br>4. Sub-Divisional Magistrate, Alwar.<br>5. Sub-Divisional Magistrate, Rajgarh (H.Q. Alwar).   |
| 9. Returning Officer of 9. Bharatpur Parliamentary Constituency.             | 1. Sub-Divisional Magistrate, Alwar.<br>2. Assistant Collector & Executive Magistrate, Rajgarh, (H.Q. Alwar).<br><br>3. Sub-Divisional Magistrate, Deeg.<br>4. Sub-Divisional Magistrate, Bharatpur.<br>5. City Magistrate, Bharatpur.  |
| 10. Returning Officer of 10. Bayana (SC) Parliamentary Constituency.         | 1. Sub-Divisional Magistrate, Bayana.<br>2. Sub-Divisional Magistrate, Bharatpur.<br>3. Assistant Collector & Executive Magistrate, Bharatpur.<br>4. Additional District Magistrate, Dholpur.<br>5. Assistant Collector & Executive Magistrate, Dholpur.<br>6. Additional District Development Officer, Sawai Madhopur. |
| 11. Returning Officer of 11. Sawai-Madhopur (ST) Parliamentary Constituency. | 1. Sub-Divisional Magistrate, Karauli.<br>2. Sub-Divisional Magistrate, Sawai Madhopur.<br>3. Sub-Divisional Magistrate, Gangapur.<br>4. Sub-Divisional Magistrate, Hindaun.  |
| 12. Returning Officer of 12. Ajmer Parliamentary Constituency.               | 1. Sub-Divisional Magistrate, Kishangarh.<br>2. City Magistrate, Ajmer.<br>3. Sub-Divisional Magistrate, Ajmer.<br>4. Sub-Divisional Magistrate, Beawar.<br>5. Sub-Divisional Magistrate, Kekri.  |
| 13. Returning Officer of 13. Tonk (SC) Parliamentary Constituency.           | 1. Sub-Divisional Magistrate, Phulera (H.Q. Sambhar).<br>2. Sub-Divisional Magistrate, Tonk.<br>3. Assistant Collector & Executive Magistrate, Tonk.<br>4. Sub-Divisional Magistrate, Malpura.<br>5. Sub-Divisional Magistrate, Kekri.  |
| 14. Returning Officer of 14. Kota Parliamentary Constituency.                | 1. Sub-Divisional Magistrate, Nainwa.<br>2. Sub-Divisional Magistrate, Bundl.<br>3. City Magistrate, Kota.<br>4. Sub-Divisional Magistrate, Kota.<br>5. Sub-Divisional Magistrate, Baran.   |
| 15. Returning Officer of 15. Jhalawar Parliamentary Constituency.            | 1. Sub-Divisional Magistrate, Baran.<br>2. Sub-Divisional Magistrate, Chhabra.<br>3. Sub-Divisional Magistrate, Aklera.   |

1

2

- 
- |  |  |
|--|--|
|  | 4. Assistant Collector & Executive Magistrate, Jhalawar. |
|  | 5. Sub-Divisional Magistrate, Jhalawar.                  |
| 16. Returning Officer of 16. Banswara (ST) Parliamentary Constituency. | 1. Sub-Divisional Magistrate, Kushalgarh.                |
|  | 2. Deputy District Development Officer, Banswara.        |
|  | 3. Sub-Divisional Magistrate, Banswara.                  |
|  | 4. Deputy District Development Officer, Dungarpur.       |
|  | 5. Sub-Divisional Magistrate, Dungarpur.                 |
| 17. Returning Officer of 17. Salumber (ST) Parliamentary Constituency. | 1. Sub-Divisional Magistrate, Pratapgarh.                |
|  | 2. Deputy District Development Officer, Dungarpur.       |
|  | 3. Sub-Divisional Magistrate, Vallabhnagar.              |
|  | 4. Sub-Divisional Magistrate, Salumber.                  |
|  | 5. Additional District Development Officer, Udalpur.     |
|  | 6. Sub-Divisional Magistrate, Phalasia (H.Q. Jhadol).    |
| 18. Returning Officer of 18. Udaipur Parliamentary Constituency.       | 1. Sub-Divisional Magistrate, Vallabhnagar.              |
|  | 2. Additional District Development Officer, Udaipur.     |
|  | 3. Sub-Divisional Magistrate, Rajsamand.                 |
|  | 4. Sub-Divisional Magistrate, Udaipur.                   |
|  | 5. City Magistrate, Udaipur.                             |
|  | 6. Sub-Divisional Magistrate, Bhim.                      |
| 19. Returning Officer of 19. Chittorgarh Parliamentary Constituency.   | 1. City Magistrate, Kota.                                |
|  | 2. Sub-Divisional Magistrate, Ramganjmandi.              |
|  | 3. Sub-Divisional Magistrate, Begum.                     |
|  | 4. Sub-Divisional Magistrate, Kapasan.                   |
|  | 5. Sub-Divisional Magistrate, Chittorgarh.               |
|  | 6. Sub-Divisional Magistrate, Nimbahera.                 |
| 20. Returning Officer of 20. Bhilwara Parliamentary Constituency.      | 1. Sub-Divisional Magistrate, Bhilwara.                  |
|  | 2. City Magistrate, Bhilwara.                            |
|  | 3. Sub-Divisional Magistrate, Mandalgarh.                |
|  | 4. Sub-Divisional Magistrate, Shahpura.                  |
|  | 5. Sub-Divisional Magistrate, Gulabpura.                 |
| 21. Returning Officer of 21. Pali Parliamentary Constituency.          | 1. Sub-Divisional Magistrate, Jaitaran.                  |
|  | 2. Sub-Divisional Magistrate, Sojat.                     |
|  | 3. Sub-Divisional Magistrate, Bali.                      |
|  | 4. Sub-Divisional Magistrate, Pali.                      |
|  | 5. Deputy District Development Officer, Pali.            |
| 22. Returning Officer of 22. Jalore (SC) Parliamentary Constituency.   | 1. Sub-Divisional Magistrate, Sirohi.                    |
|  | 2. Sub-Divisional Magistrate, Mt. Abu.                   |
|  | 3. Sub-Divisional Magistrate, Bhunmal.                   |
|  | 4. Deputy district Development Officer, Jalore.          |
|  | 5. Sub-Divisional Magistrate, Jalore.                    |
| 23. Returning Officer of 23. Barmer Parliamentary Constituency.        | 1. Sub-Divisional Magistrate, Balotra.                   |
|  | 2. Sub-Divisional Magistrate, Barmer.                    |
|  | 3. Deputy District Development Officer, Barmer.          |
|  | 4. Sub-Divisional Magistrate, Jaisalmer.                 |
|  | 5. District Supply Officer, Jodhpur.                     |
-

I

2

24. Returning Officer of 24. Jodhpur Parliamentary Constituency.

1. City Magistrate, Jodhpur.
2. Sub-Divisional Magistrate, Jodhpur.
3. Deputy District Development Officer, Jodhpur.
4. Sub-Divisional Magistrate, Phalodi.

25. Returning Officer of 25. Nagaur Parliamentary Constituency.

1. Sub-Divisional Magistrate, Nagaur.
2. Sub-Divisional Magistrate, Deedwana.
3. Deputy District Development Officer, Nagaur.
4. Sub-Divisional Magistrate, Parbatsar.
5. Sub-Divisional Magistrate, Merta.
6. Assistant Collector & Executive Magistrate, Nagaur.

[No. 434/RJ/77 (2)]

**का० आ० 106 (अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/राज०/75(2), तारीख 22 सितम्बर, 1975 को अधिकारित करते हुये, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के आफिसरों को, उनके सामने राजस्थान राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जैसे कि वे संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची XIX के भाग 'क' में अन्तर्निष्ठ हैं, और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट हैं कि रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए, सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है।

### सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर

सहायक रिटर्निंग आफिसर

1

2

1. गंगानगर (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।

1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर।
2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।
3. सहायक कलेक्टर तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।
4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, गंगानगर।
5. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, करनपुर।

2. बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।

1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, रायसिंह नगर।
2. सहायक कलेक्टर तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।
3. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर उत्तर।
4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर।
5. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर दक्षिण।
6. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर।

1	2
3. 3-बुरु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, रतनगढ़ । 2. उप-जिला विकास आफिसर, बुरु । 3. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, बुरु । 4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ़ । 5. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, डीडवाना ।
4. 4-भुनभुन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. सहायक कलक्टर तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट; भुनभुन । 2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, खेतड़ी । 3. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ । 4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, भुनभुन । 5. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, फतेहपुर ।
5. 5-सीकर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, फतेहपुर । 2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, सीकर । 3. सहायक कलक्टर तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट; सीकर । 4. अतिरिक्त जिला विकास आफिसर, सीकर । 5. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, नीम का थाना । 6. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर ।
6. 6-जयपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. सहायक कलक्टर तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट संख्या 1, जयपुर । 2. सिटी मजिस्ट्रेट, जयपुर । 3. सहायक कलक्टर तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट सं० 3, जयपुर । 4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर । 5. सहायक कलक्टर तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट सं० 2, जयपुर ।
7. 7-दीसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर । 2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, दीसा । 3. सहायक कलक्टर तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बावीकुई । 4. सहायक कलक्टर तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट सं० 1, जयपुर । 5. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट कोटपुतली ।

1

2

8. 8-अलवर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, बहरोड ।
  2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, तिजारा (मुख्यालय किशनगढ़ बीर) ।
  3. सहायक कलक्टर तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अलवर ।
  4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर ।
  5. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ़, (मुख्यालय अलवर) ।
9. 9-भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर ।
  2. सहायक कलक्टर तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ (मुख्यालय अलवर) ।
  3. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, डीग ।
  4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, भरतपुर ।
  5. सिटी मजिस्ट्रेट, भरतपुर ।
10. 10-बयाना (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, बयाना ।
  2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, भरतपुर ।
  3. सहायक कलक्टर तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भरतपुर ।
  4. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर ।
  5. सहायक कलक्टर तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, धौलपुर ।
  6. अतिरिक्त जिला विकास आफिसर, सवाई माधोपुर ।
11. 11-सवाई माधोपुर (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, करौली ।
  2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर ।
  3. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, गंगापुर ।
  4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, हिंखोली ।
12. 12-अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ ।
  2. सिटी मजिस्ट्रेट, अजमेर ।
  3. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, अजमेर ।
  4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर ।
  5. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, केकड़ी ।
13. 13-टोंक (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, फुलैरा (मुख्यालय सांभर) ।
  2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक ।



1

2

- |   |  |
|---|--|
|   | 3. सहायक कलक्टर तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, टोक ।      |
|   | 4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, मालपुरा ।                     |
|   | 5. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, केकड़ी ।                      |
| 14. 14—कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।                  | 1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, नैनवा ।                       |
|   | 2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, बुंदी ।                       |
|   | 3. सिटी मजिस्ट्रेट, कोटा ।                           |
|   | 4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा ।                        |
|   | 5. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, बारां ।                       |
| 15. 15—झालावाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।              | 1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, बारा ।                        |
|   | 2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, छाबड़ा ।                      |
|   | 3. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, अकलेरा ।                      |
|   | 4. सहायक कलक्टर तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ । |
|   | 5. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, झालावाड़ ।                    |
| 16. 16—बांसवाड़ा (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर । | 1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़ ।                     |
|   | 2. उप-जिला विकास आफिसर, बांसवाड़ा ।                  |
|   | 3. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा ।                   |
|   | 4. उप-जिला विकास आफिसर, झुंजरपुर ।                   |
|   | 5. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, झुंजरपुर ।                    |
| 17. 17—सलुम्बर (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।   | 1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ ।                   |
|   | 2. उप-जिला विकास आफिसर, झुंजरपुर ।                   |
|   | 3. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, बल्लभनगर ।                    |
|   | 4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, सलुम्बर ।                     |
|   | 5. अतिरिक्त जिला विकास आफिसर, उदयपुर ।               |
|   | 6. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, फ्लासिया (मुख्यालय झाडोल) ।   |
| 18. 18—उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।                | 1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, बल्लभनगर ।                    |
|   | 2. अतिरिक्त जिला विकास आफिसर, उदयपुर ।               |
|   | 3. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमद ।                      |
|   | 4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, उदयपुर ।                      |
|   | 5. सिटी मजिस्ट्रेट, उदयपुर ।                         |
|   | 6. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, मीम ।                         |
| 19. 19—चित्तौड़गढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।           | 1. सिटी मजिस्ट्रेट, कोटा ।                           |
|   | 2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमंडी ।                  |
|   | 3. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, वेगू ।                        |

1

2

- |  |   |
|--|---|
|  | 4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन ।                    |
|  | 5. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ ।              |
|  | 6. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, निम्बाहेड़ा ।              |
| 20. 20—भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।       | 1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ।                 |
|  | 2. सिटी मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ।                    |
|  | 3. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, मांडलगढ़ ।                 |
|  | 4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा ।                  |
|  | 5. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा ।                |
| 21. 21—पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।           | 1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण ।                   |
|  | 2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत ।                     |
|  | 3. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, बाली ।                     |
|  | 4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, पाली ।                     |
|  | 5. उप-जिला विकास आफिसर, पाली ।                    |
| 22. 22—जालौर (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर । | 1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही ।                   |
|  | 2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, माउंट आबू ।                |
|  | 3. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, मीनमाल ।                   |
|  | 4. उप-जिला विकास आफिसर, जालौर ।                   |
|  | 5. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, जालौर ।                    |
| 23. 23—बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।        | 1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा ।                  |
|  | 2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर ।                  |
|  | 3. उप-जिला विकास आफिसर, बाड़मेर ।                 |
|  | 4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, जैसलमेर ।                  |
|  | 5. जिला प्रदाय आफिसर, जोधपुर ।                    |
| 24. 24—जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।         | 1. सिटी मजिस्ट्रेट, जोधपुर ।                      |
|  | 2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर ।                   |
|  | 3. उप-जिला विकास आफिसर, जोधपुर ।                  |
|  | 4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, पलोदी ।                    |
| 25. 25—नगौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।           | 1. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, नगौर ।                     |
|  | 2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, डीडवाना ।                  |
|  | 3. उप-जिला विकास आफिसर, नागौर ।                   |
|  | 4. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, परबतसर ।                   |
|  | 5. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, मेड़ता ।                   |
|  | 6. सहायक कलक्टर तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नागौर । |

**S. O 107 (E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of Sikkim, hereby designates the District Magistrate and District Collector, East District, Gangtok, to be the Returning Officer for the Parliamentary Constituency for Sikkim.

[No. 434/SKM/77(1)]

**का० आ० 107(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, सिक्किम सरकार के परामर्श से, जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला कलक्टर, पूर्वी जिला, गंगटोक को सिक्किम के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है।

[सं० 434/सिक्किम/77(1)]

**S. O 108 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of Sikkim, hereby appoints the following officers of Government to assist the Returning Officer for the Parliamentary Constituency for Sikkim in the performance of his functions :

1. District Magistrate and District Collector, North District, Margan.
2. District Magistrate and District Collector, South District, Namchi.
3. District Magistrate and District Collector, West District, Geyzing
4. Deputy District Officer and Planning Officer, East District, Gangtok.

[No 434/SKM/77(2)]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

**का० आ० 108(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, सिक्किम सरकार के परामर्श से, सरकार के निम्नलिखित आफिसरों को, सिक्किम के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए नियुक्त करता है :—

1. जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला कलक्टर, उत्तरी जिला, मंगन।
2. जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला कलक्टर, दक्षिणी जिला, नामची।
3. जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला कलक्टर, पश्चिमी जिला, गेयजिंग।
4. उप-जिला अधिकारी और योजना अधिकारी, पूर्वी जिला, गंगटोक।

[सं० 434 सिक्किम/77(2)]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव।

*New Delhi, the 1st February 1977*

**S. O. 109 (E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 424/TN 75(I) dated 6 March, 1975, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Tamil Nadu, the officer of Government specified in column 2 of the Table below as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Tamil Nadu as contained in Part

A of Schedule XX of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and specified in column 1 of the said Table against such officer of Government :—

TABLE

Sl	No. and name of the Parliamentary Constituency	Returning Officer
1	2	
1	Madras North . . . . .	Collector of Madras.
2	Madras Central . . . . .	Commissioner, Corporation of Madras.
3	Madras South . . . . .	Deputy Commissioner for Disciplinary Proceedings, Madras.
4	Sriperumbudur (SC) . . . . .	District Revenue Officer, Chingalapattu at Kancheepuram.
5	Chingalapattu . . . . .	Collector of Chingalapattu at Kancheepuram.
6	Arkonam . . . . .	Collector of North Arcot at Vellore.
7	Vellore . . . . .	Special Officer Selection Grade and First Circle Municipalities in North Arcot District
8	Tiruppattur . . . . .	District Revenue Officer, Vellore.
9	Wandiwash . . . . .	Collector of North Arcot, Vellore.
10	Tindivanam . . . . .	District Revenue Officer, Cuddalore.
11	Cuddalore . . . . .	Collector of South Arcot, Cuddalore.
12	Chidambaram (SC) . . . . .	Commercial Tax Officer, South Arcot, Cuddalore.
13	Dharamapuri . . . . .	District Development Officer, Dharamapuri.
14	Krishnagiri . . . . .	Collector of Dharamapuri.
15	Rasipuram (SC) . . . . .	District Revenue Officer, Salem.
16	Salem . . . . .	Special Officer, Salem Municipality.
17	Tiruchengode . . . . .	Collector of Salem.
18	Nilgiris . . . . .	Collector of the Nilgiris.
19	Gobichettipalayam . . . . .	District Revenue Officer, Coimbatore.
20	Coimbatore . . . . .	Collector of Coimbatore.
21	Pollachi (SC) . . . . .	Settlement Officer, Coimbatore.
22	Palani . . . . .	Collector of Madurai.
23	Dindigul . . . . .	Additional Collector, Madurai.
24	Madurai . . . . .	Deputy Commissioner for Disciplinary Proceedings, Madurai.
25	Periakulam . . . . .	Settlement Officer, Madurai.
26	Karur . . . . .	District Revenue Officer (Rehabilitation), Tiruchirapalli.

1	2
27 Tiruchirapalli . . . . .	Collector of Tiruchirapalli.
28 Perambalur (SC) . . . . .	District Revenue Officer, Tiruchirapalli.
29 Mayuram . . . . .	District Revenue Officer, Thanjavur.
30 Nagapattinam (SC) : . . . .	Authorised Officer (Land Reforma), Thanjavur.
31 Thanjavur : : : : .	Collector of Thanjavur.
32 Pudukottai . . . . .	Collector of Pudukottai.
33 Sivaganga . . . . .	District Revenue Officer, Ramanathapuram at Madurai.
34 Ramanathapuram . . . . .	District Revenue Officer (Rehabilitation), Ramanathapuram at Madurai.
35 Sivakasi . . . . .	Collector of Ramanathapuram at Madurai.
36 Tirunelveli . : . . .	Collector of Tirunelveli.
37 Tenkasi (SC) . . . : : .	District Revenue Officer, Tirunelveli.
38 Tiruchendur . . . . .	District Revenue Officer (Rehabilitation), Tirunelveli.
39 Nagercoil . . . . .	Collector of Kanniyakumari, Nagercoil.

[No. 434/TN/77(I)]

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1977

का० आ० 109(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा अपनी अधिसूचना सं० 434 तमिल० '75 (1), तारीख 6 मार्च, 1975 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग तमिलनाडु सरकार के परामर्श से नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर को, ऐसे सरकारी आफिसर के सामने तमिलनाडु राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, जैसे कि वे संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 20 के भाग—'क' में अन्तर्बिष्ट हैं और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट किए गए हैं, के लिए रिटनिंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है :—

## सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं० और नाम	रिटनिंग आफिसर
1	2
1. मद्रास उत्तर	कलक्टर, मद्रास ।
2. मद्रास केन्द्रीय	उपायुक्त, मद्रास नगर निगम ।
3. मद्रास दक्षिण	अनुशासनिक कार्यवाहियों का उपायुक्त, मद्रास ।

4. श्रीपेरुम्बुदुर (अ०जा०)	जिला राजस्व आफिसर, चिगलपट्टूर, कां चिपुरम
5. चिगलपट्टूर	कलक्टर, चिगलपट्टूर, कांचिपुरम ।
6. आर्कानम	कलक्टर, नार्थ आर्काट, वेल्लोर ।
7. वेल्लोर	विशेष आफिसर, उत्तर आर्काट जिले में चयन ग्रेड और प्रथम श्रेणी नगरपालिकाएं ।
8. तिरुपट्टूर	जिला राजस्व आफिसर, वेल्लोर ।
9. वन्डिवाश	कलक्टर, उत्तर आर्काट, वेल्लोर ।
10. टिन्डिवमाम	जिला राजस्व आफिसर, साउथ आर्काट, कुड्डालोर ।
11. कुड्डालोर	कलक्टर, साउथ आर्काट, कुड्डालोर ।
12. चिदम्बरम (अ०जा०)	वाणिज्यिक कर आफिसर, साउथ आर्काट, कुड्डालोर ।
13. धर्मपुरी	जिला विकास आफिसर, धर्मपुरी
14. कृष्णागिरि	कलक्टर, धर्मपुरी ।
15. रसिपुरम (अ०जा०)	जिला राजस्व आफिसर, सलेम ।
16. सलेम	विशेष आफिसर, सलेम नगरपालिका ।
17. तिरुवेंगोड	कलक्टर, सलेम ।
18. नीलगिरिस	कलक्टर, नीलगिरिस ।
19. गोबिचेट्टिपालयम	जिला राजस्व आफिसर, कोयम्बटूर ।
20. कोयम्बटूर	कलक्टर, कोयम्बटूर ।
21. पोल्लाची (अ०जा०)	सेटिलमेंट आफिसर, कोयम्बटूर ।
22. पलानी	कलक्टर, मदुराई ।
23. डिन्डिगुल	अपर कलक्टर, मदुराई ।
24. मदुराई	अनुशासनिक कार्यवाहियों के लिए उपायुक्त, मदुराई ।
25. पेरियाकुलम	सेटिलमेंट आफिसर, मदुराई ।
26. करूर	जिला राजस्व आफिसर (गुनबांस), तिरुचिरापल्ली ।
27. तिरुचिरापल्ली	कलक्टर, तिरुचिरापल्ली ।
28. पेरम्बलूर (अ०जा०)	जिला राजस्व आफिसर, तिरुचिरापल्ली ।
29. मयूरम	जिला राजस्व आफिसर, थंजावूर ।

1

2

30. नागपट्टीनम (अ०जा०)	प्राधिकृत (भूमि सुधार) आफिसर, थंजावूर।
31. थंजावूर	कलक्टर, थंजावूर।
32. पुडुक्कोट्टाई	कलक्टर, पुडुक्कोट्टाई।
33. शिवगंगा	जिला राजस्व आफिसर रामनाथपुरम, मदुराई।
34. रामनाथपुरम	जिला राजस्व आफिसर (पुनर्वास) रामनाथपुरम, मदुराई।
35. शिवकासी	कलक्टर, रामनाथपुरम, मदुराई।
36. तिरुनेलवेली	कलक्टर, तिरुनेलवेली।
37. टेनकासी (अ०जा०)	जिला राजस्व आफिसर, तिरुनेलवेली।
38. तिरुच्चन्नडुर	जिला राजस्व आफिसर (पुनर्वास), तिरुनेलवेली।
39. नागरकोइल	कलक्टर, कन्याकुमारी, नागरकोइल।

[सं 434/न०. 1 / 77(1)]

**S.O. 110(B).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of its notification No. 434/TN/74(2), dated 6 March, 1975, the Election Commission hereby appoints each of the Officers of Government as specified in column 2 of the Table below as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the parliamentary constituency in the State of Tamil Nadu as contained in Part A of Schedule XX to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and specified in column 1 of the said Table against such Officer or Officers of Government in the performance of the function of such Returning Officer —

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency.	Assistant Returning Officers
1	2
1. Returning Officer of 1-Madras North Parliamentary Constituency.	1. Additional Personal Assistant to the Collector of Madras 2. Special Officer, Inspection Cell, Madras Collectorate. 3. Assistant Commissioner (North). 4. Special Deputy Collector, Burma Repatriates, Madras Collectorate. 5. Assistant Settlement Officer, Chengalpattu. 6. Special Deputy Collector, Burma Repatriates, Saidapet.
2. Returning Officer of 2-Madras Central Parliamentary Constituency.	1. Assistant Commissioner, Urban Land Tax Tondiarpet. 2. Personal Assistant (General) to the Collector of Madras. 3. Assistant Commissioner (South). 4. Assistant Commissioner, Urban Land Tax, George Town. 5. District Harijan Welfare Officer, Madras. 6. Assistant Commissioner, Urban Land Tax, Triplicane.

I

2

- |  |  |
|--|--|
| <p>3. Returning Officer of 3-Madras South Parliamentary Constituency.</p> <p>4. Returning Officer of 4-Sriperumbudur (SC) Parliamentary Constituency.</p> <p>5. Returning Officer of 5-Chengalpattu Parliamentary Constituency.</p> <p>6. Returning Officer of 6-Arkonam Parliamentary Constituency.</p> <p>7. Returning Officer of 7-Vellore Parliamentary Constituency.</p> <p>8. Returning Officer of 8-Tirupattur Parliamentary Constituency.</p> <p>9. Returning Officer of 9-Wandiwash Parliamentary Constituency.</p> | <p>1. Assistant Commissioner, Urban Land Tax, Theagaraya Nagar.</p> <p>2. District Backward Classes Welfare Officer, Madras.</p> <p>3. Assistant Commissioner, Urban Land Tax, Egmore.</p> <p>4. Assistant Commissioner, Urban Land Tax, Saidapet.</p> <p>5. Personal Assistant (General) to the Collector of Chengalpattu.</p> <p>6. Revenue Divisional Officer, Saidapet.</p> <p>1. Special Deputy Collector, Transit Camp, Gummidipoondi.</p> <p>2. Additional Personal Assistant to the Collector of Chengalpattu.</p> <p>3. Personal Assistant (Land Acquisition) to the Collector of Chengalpattu.</p> <p>4. Assistant Commissioner, Urban Land Tax (Belt area North),</p> <p>5. Revenue Divisional Officer, Tiruvallur.</p> <p>6. District Supply Officer, Chengalpattu.</p> <p>1. Assistant Commissioner, Urban Land Tax (Belt Area-South).</p> <p>2. Revenue Divisional Officer, Chengalpattu.</p> <p>3. District Harijan Welfare Officer, Kancheepuram.</p> <p>4. Authorised Officer, Land Reforms, Chengalpattu.</p> <p>5. Special Assistant to the Collector, 20 Point Programme.</p> <p>6. Revenue Divisional Officer, Kancheepuram.</p> <p>1. District Backward Classes Welfare Officer, Kancheepuram.</p> <p>2. Revenue Divisional Officer, Ranipet.</p> <p>3. Divisional Development Officer, Ranipet.</p> <p>4. Special Assistant to the Collector of North Arcot for 20 Point Programme.</p> <p>5. Special Officer, Inspection Cell, North Arcot.</p> <p>6. Revenue Divisional Officer, Cheyyar.</p> <p>1. Personal Assistant (General) to the Collector of North Arcot.</p> <p>2. Municipal Commissioner, Gudiyatham.</p> <p>3. District Supply Officer, North Arcot.</p> <p>4. District Harijan Welfare Officer.</p> <p>5. Municipal Commissioner, Vellore.</p> <p>6. Divisional Development Officer, Cheyyar.</p> <p>1. Additional Personal Assistant to the Collector of North Arcot.</p> <p>2. Revenue Divisional Officer, Tiruvattur.</p> <p>3. District Harijan Welfare Officer.</p> <p>4. Revenue Divisional Officer, Tiruvannamalai.</p> <p>5. Divisional Development Officer, Tiruvannamalai.</p> <p>1. Municipal Commissioner, Tiruvannamalai.</p> <p>2. Personal Assistant (Panchayat Development (North) to the Collector of North Arcot.</p> |
|--|--|



1

2

- 
- |  |   |
|--|---|
| <p>10. Returning Officer of 10-Tindivanam Parliamentary Constituency.</p> <p>11. Returning Officer of 11-Cuddalore Parliamentary Constituency.</p> <p>12. Returning Officer of 12-Chidambaram (SC) Parliamentary Constituency.</p> <p>13. Returning Officer of 13. Dharmapuri Parliamentary Constituency.</p> <p>14. Returning Officer of 14-Krishnagiri Parliamentary Constituency.</p> | <p>3. Revenue Divisional Officer, Cheyyar.</p> <p>4. District Backward Classes Welfare Officer, Vellore.</p> <p>5. Revenue Divisional Officer, Tindivanam.</p> <p>6. Divisional Development Officer, Tindivanam.</p> <p>1. Personal Assistant (General) to the Collector of South Arcot.</p> <p>2. Special Officer Inspection Cell, South Arcot.</p> <p>3. District Backward Classes Welfare Officer, Cuddalore.</p> <p>4. Divisional Development Officer, Tirukoilur.</p> <p>5. Revenue Divisional Officer, Tirukoilur.</p> <p>6. Special Assistant Settlement Officer, Villupuram.</p> <p>1. District Harijan Welfare Officer, Cuddalore.</p> <p>2. Authorised Officer (Land Reforms), Cuddalore.</p> <p>3. Personal Assistant (Panchayat Development) (North) to the Collector of South Arcot.</p> <p>4. Additional Personal Assistant to the Collector of South Arcot.</p> <p>5. Personal Assistant (Panchayat Development) (South) to the Collector of South Arcot.</p> <p>6. Special Deputy Collector, Kalvarayan Hills, Mottampatti.</p> <p>1. Special Assistant to the Collector for 20 Point Programme, Cuddalore.</p> <p>2. District Supply Officer, Cuddalore.</p> <p>3. Divisional Development Officer, Chidambaram.</p> <p>4. Revenue Divisional Officer, Chidambaram.</p> <p>5. Special Deputy Collector (Land Acquisition), Neyveli.</p> <p>6. Divisional Development Officer, Vridhachalam.</p> <p>1. District Supply Officer, Dharmapuri.</p> <p>2. Personal Assistant (Panchayat Development) to the Collector of Dharmapuri.</p> <p>3. Revenue Divisional Officer, Dharmapuri.</p> <p>4. Divisional Development Officer, Dharmapuri.</p> <p>5. Revenue Divisional Officer, Mettur.</p> <p>6. Special Deputy Collector (Land Acquisition), Salem Steel Plant, Salem.</p> <p>1. Revenue Divisional Officer, Hosur.</p> <p>2. Special Assistant to the Collector for 20 Point Programme.</p> <p>3. Divisional Development Officer, Hosur.</p> <p>4. District Harijan Welfare Officer, Dharmapuri.</p> <p>5. District Backward Classes Welfare Officer, Dharmapuri.</p> <p>6. Personal Assistant (General) to the Collector of Dharmapuri.</p> |
|--|---|
-

I

2

- 
- |  |   |
|--|---|
| <p>15. Returning Officer of 15-Rashtreeya NC Parliamentary Constituency</p>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Revenue Divisional Officer, Vaidhachalam.</li> <li>2. Revenue Divisional Officer Salem.</li> <li>3 Assistant Commissioner, Urban Land Tax, Salem West</li> <li>4. Additional Personal Assistant to the Collector of Salem</li> <li>5 Assistant Commissioner, Urban Land Tax, Salem East.</li> <li>6 Revenue Divisional Officer, Namakkal.</li> </ol>   |
| <p>16. Returning Officer of 15-Salem Parliamentary Constituency</p>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personal Assistant (Panchayat Development) (North) to the Collector of Salem</li> <li>2. Personal Assistant (General) to the Collector of Salem.</li> <li>3. Commissioner, Salem Municipality.</li> <li>4. District Supply Officer, Salem.</li> <li>5. District Harijan Welfare Officer, Salem</li> <li>6 District Backward Classes Welfare Officer, Salem.</li> </ol>                            |
| <p>17. Returning Officer of 17-Tiruchengode Parliamentary Constituency</p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Special Assistant to the Collector for 20 Point Programme, Salem</li> <li>2 Revenue Divisional Officer, Sankari</li> <li>3. Divisional Development Officer, Sankari.</li> <li>4. Personal Assistant (Panchayat Development) (South) to the Collector of Salem.</li> <li>5. Revenue Divisional Officer, Erode.</li> <li>6. Additional Personal Assistant to the Collector of Coimbatore</li> </ol> |
| <p>18 Returning Officer of 18-Nilgiris Parliamentary Constituency</p>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revenue Divisional Officer, Coimbatore</li> <li>2 Assistant Commissioner, Urban Land Tax Coimbatore, East.</li> <li>3. District Harijan Welfare Officer, Coimbatore</li> <li>4. Personal Assistant (General) to the Collector of Nilgiris.</li> <li>5. District Backward Classes Welfare Officer, Ootacamund.</li> <li>6. Revenue Divisional Officer, Gudalur</li> </ol>                          |
| <p>19 Returning Officer of 9-Gobichettipalayam Parliamentary Constituency.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. District Supply Officer, Coimbatore.</li> <li>2. Divisional Development Officer, Erode.</li> <li>3. Personal Assistant (Panchayat Development) (East) to the Collector of Coimbatore.</li> <li>4. Divisional Development Officer, Gobichettipalayam.</li> <li>5. Revenue Divisional Officer, Gobichettipalayam,</li> <li>6. Assistant Commissioner, Urban Land Tax, East Coimbatore.</li> </ol>   |
| <p>20. Returning Officer of 20-Coimbatore Parliamentary Constituency.</p>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Authorised Officer (Land Reforms), Coimbatore.</li> <li>2. Commissioner, Coimbatore Municipality.</li> <li>3. City Distribution Officer, Coimbatore.</li> <li>4. Divisional Development Officer, Coimbatore.</li> <li>5. District Backward Classes Welfare Officer, Coimbatore.</li> <li>6. Assistant Commissioner, Agriculture Income Tax, Coimbatore.</li> </ol>                                |
-

I

2

- 
- |   |   |
|---|---|
| <p>21. Returning Officer of 21-Pollachi (SC) Parliamentary Constituency</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Special Deputy Collector (Localisation) Patambikulam-Aliyar Project, Pollachi.</li> <li>2. Special Deputy Collector (Land Acquisition), Pollachi.</li> <li>3. Revenue Divisional Officer, Pollachi.</li> <li>4. Special Officer, Inspection Cell, Coimbatore.</li> <li>5. Personal Assistant (General) to the Collector of Coimbatore.</li> <li>6. Divisional Development Officer, Pollachi.</li> </ol>                     |
| <p>22. Returning Officer of 22-Palanu Parliamentary Constituency.</p>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personal Assistant (Panchayat Development) (West) to the Collector of Coimbatore</li> <li>2. Special Assistant to the Collector for 20 Point Programme, Coimbatore.</li> <li>3. Special Officer, Inspection Cell, Madurai</li> <li>4. Revenue Divisional Officer, Dindigul.</li> <li>5. Special Deputy Collector, Kallar Reclamation, Collector's Office Madurai.</li> <li>6. Special Officer, Bhoodan, Madurai.</li> </ol> |
| <p>23. Returning Officer of 23-Dindigul Parliamentary Constituency.</p>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Personal Assistant to the Collector of Madurai.</li> <li>2. Revenue Divisional Officer, Usilampatti.</li> <li>3. Personal Assistant (Survey) to the Collector of Madurai.</li> <li>4. District Backward Classes Welfare Officer, Madurai.</li> <li>5. Authorised Officer (Land Reforms), Dindigul.</li> <li>6. Special Deputy Collector (Rehabilitation). Collector's Office, Madurai.</li> </ol>                |
| <p>24. Returning Officer of 24-Madurai Parliamentary Constituency.</p>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assistant Commissioner, Urban Land Tax, Madurai West.</li> <li>2. Revenue Divisional Officer, Madurai.</li> <li>3. Commissioner, Madurai Corporation.</li> <li>4. Assistant Commissioner, Urban Land Tax, Madurai East.</li> <li>5. Personal Assistant (Panchayat Development) (Madurai East) to the Collector of Madurai</li> <li>6. Authorised Officer (Land Reforms) Madurai.</li> </ol>                                 |
| <p>25. Returning Officer of 25-Periakulam Parliamentary Constituency.</p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personal Assistant (General) to the Collector of Madurai.</li> <li>2. District Harijan Welfare Officer, Madurai.</li> <li>3. Revenue Divisional Officer, Periakulam.</li> <li>4. District Supply Officer, Madurai.</li> <li>5. Personal Assistant (Panchayat Development) (Madurai West) to the Collector of Madurai</li> <li>6. Assistant Commissioner, Urban Land Tax Madurai South.</li> </ol>                           |
| <p>26. Returning Officer of 26-Karur Parliamentary Constituency.</p>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revenue Divisional Officer, Karur.</li> <li>2. Divisional Development Officer, Karur.</li> <li>3. Additional Personal Assistant to the Collector of Tiruchirapalli.</li> <li>4. District Supply Officer, Tiruchirapalli.</li> <li>5. Personal Assistant (General) to the Collector of Tiruchirapalli.</li> <li>6. District Harijan Welfare Officer, Tiruchirapalli.</li> </ol>  |
| <p>27. Returning Officer of 27-Tiruchirapalli Parliamentary Constituency.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revenue Divisional Officer, Musiri.</li> <li>2. Personal Assistant (Panchayat Development) (North) to the Collector of Tiruchirapalli.</li> </ol>   |
-

1

2

- |   |  |
|---|--|
| <p>28. Returning Officer of 28-Perambalur (SC) Parliamentary Constituency.</p> <p>29. Returning Officer of 29-Mayuram Parliamentary Constituency.</p> <p>30. Returning Officer of 30-Nagapattinam (SC) Parliamentary Constituency.</p> <p>31. Returning Officer of 31-Thanjavur Parliamentary constituency.</p> <p>32. Returning Officer of 32-Pudukkottai parliamentary constituency.</p> <p>33. Returning Officer of 33-Sivaganga parliamentary constituency.</p> | <p>3. Divisional Development Officer, Tiruchirappalli.</p> <p>4. Commissioner, Tiruchirappalli Municipality.</p> <p>5. Revenue Divisional Officer, Tiruchirappalli.</p> <p>6. Personal Assistant (Panchayat Development) (South) to the Collector of Tiruchirappalli.</p> <p>1. Divisional Development Officer, Musiri.</p> <p>2. District Backward Classes Welfare Officer, Tiruchirappalli.</p> <p>3. Divisional Development Officer, Ariyalur.</p> <p>4. Revenue Divisional Officer, Ariyalur.</p> <p>5. Special Deputy Collector (Rehabilitation), Tiruchirappalli.</p> <p>6. Authorised officer (Land Reforms), Tiruchirappalli.</p> <p>1. Personal Assistant (Panchayat Development) (East) to the Collector of Thanjavur.</p> <p>2. Authorised Officer (Land Reforms) Mayuram.</p> <p>3. Revenue Divisional Officer, Mayuram.</p> <p>4. District Backward Classes Welfare Officer, Thanjavur.</p> <p>5. Revenue Divisional Officer, Kumbakonam.</p> <p>6. Special Assistant to Collector for 20 Point Programme, Thanjavur.</p> <p>1. Personal Assistant (General) to the Collector of Thanjavur.</p> <p>2. District Supply Officer, Thanjavur.</p> <p>3. Revenue Divisional Officer, Nagapattinam.</p> <p>4. District Harijan Welfare Officer, Thanjavur.</p> <p>5. Special Deputy Collector, Inspection Cell, Collector's Office, Thanjavur.</p> <p>6. Revenue Divisional Officer, Mannargudi.</p> <p>1. Assistant Commissioner, Agricultural Income Tax, Thanjavur.</p> <p>2. Personal Assistant (Panchayat Development) (West) to the Collector of Thanjavur.</p> <p>3. Commissioner, Thanjavur Municipality.</p> <p>4. Revenue Divisional Officer, Thanjavur.</p> <p>5. Additional Personal Assistant to the Collector of Thanjavur.</p> <p>6. Authorised Officer (Land Reforms), Thanjavur.</p> <p>1. Revenue Divisional Officer, Pudukkottai.</p> <p>2. Special Deputy Collector, Inspection Cell, Thanjavur.</p> <p>3. District Harijan Welfare Officer, Pudukkottai.</p> <p>4. Revenue Divisional Officer, Pudukkottai.</p> <p>5. District Backward Classes Welfare Officer, Pudukkottai.</p> <p>6. Revenue Divisional Officer, Arantangi.</p> <p>1. Personal Assistant (General) to the Collector of Pudukkottai.</p> <p>2. Revenue Divisional Officer, Devakottai.</p> <p>3. Personal Assistant (Panchayat Development) (East) to the Collector of Ramanathapuram.</p> <p>4. Additional Personal Assistant to the Collector of Ramanathapuram.</p> <p>5. Revenue Divisional Officer, Sivaganga.</p> <p>6. Divisional Development officer Devakottai.</p> |
|---|--|

I

2

- 
- |   |   |
|---|---|
| <p>34. Returning Officer of 34-Ramanathapuram Parliamentary constituency. . . . .</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. District Backward Classes Welfare Officer, Ramanathapuram.</li> <li>2. Personal Assistant (Panchayat Development) (West) to the Collector of Ramanathapuram.</li> <li>3. Special Deputy Collector (Rehabilitation), Mandapam Transit Camp, Mandapam.</li> <li>4. Special Assistant to the Collector for 20 Point Programme.</li> <li>5. Revenue Divisional Officer, Ramanathapuram.</li> <li>6. District Harijan Welfare Officer, Ramanathapuram at Madurai.</li> </ol> |
| <p>35. Returning Officer of 35-Sivakasi Parliamentary constituency. . . . .</p>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Special Officer, Inspection Cell, Ramanathapuram at Madurai.</li> <li>2. Special Deputy Collector (Modernisation of Vaigai Channel Scheme), Ramanathapuram at Madurai.</li> <li>3. Revenue Divisional Officer Sivakasi.</li> <li>4. Personal Assistant (General) to the Collector of Ramanathapuram.</li> <li>5. District Supply Officer, Ramanathapuram at Madurai.</li> <li>6. Personal Assistant (General) to the Collector of Tirunelveli.</li> </ol>               |
| <p>36. Returning Officer of 36-Tirunelveli Parliamentary constituency. . . . .</p>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Personal Assistant to the Collector of Tirunelveli.</li> <li>2. District Supply Officer, Tirunelveli.</li> <li>3. Commissioner, Tirunelveli Municipality, Tirunelveli.</li> <li>4. District Harijan Welfare Officer, Tirunelveli.</li> <li>5. Assistant Commissioner, Agricultural Income Tax, Tirunelveli.</li> <li>6. Commissioner Tuticorin Municipality, Tuticorin.</li> </ol>   |
| <p>37. Returning Officer of 37-Tenkasi (SC) Parliamentary constituency. . . . .</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revenue Divisional Officer, Koilpatti.</li> <li>2. District Backward Classes Welfare Officer, Tirunelveli.</li> <li>3. Revenue Divisional Officer, Tirunelveli.</li> <li>4. Special Officer, Inspection Cell, Tirunelveli.</li> <li>5. Personal Assistant (Panchayat Development) (North) to the Collector of Tirunelveli.</li> <li>6. Authorised Officer (Land Reforms), Tirunelveli.</li> </ol>   |
| <p>38. Returning Officer of 38-Tiruchendur Parliamentary constituency. . . . .</p>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revenue Divisional Officer, Cheranmahadevi.</li> <li>2. Special Deputy Collector, Urban Land Ceiling, Tirunelveli.</li> <li>3. Personal Assistant (Panchayat Development) (South) to the Collector of Tirunelveli.</li> <li>4. Special Assistant to the Collector for 20 Point Programme.</li> <li>5. Revenue Divisional Officer, Tuticorin.</li> <li>6. District Backward Classes Welfare Officer Nagercoil.</li> </ol>  |
| <p>39. Returning Officer of 39. Nagercoil Parliamentary constituency. . . . .</p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personal Assistant (General) to the Collector of Kanyakumari.</li> <li>2. District Harijan Welfare Officer, Kanyakumari District.</li> <li>3. Revenue Divisional Officer, Palmarathapuram.</li> </ol>   |
-

I

2

4. District Supply Officer, Nagercoil.
5. Personal Assistant (Panchayat Development) to the Collector of Kanyakumari.
6. Special Assistant to the Collector of Kanyakumari for 20 Point Programme

[No. 434/TN/77(2)]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

का० प्रा० 110(अ) --लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी अधिसूचना सं० 434/त० ना० /75(2), तारीख 6 मार्च, 1975 को अधकान्त करते ए, निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट न्येक सरकारी आफिस को, ऐसे सरकारी आफिसर या आफिसों के सामने तमिलनाडु राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जैसा कि वे संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिधिमान आदेश, 1976 की अनुसूची 20 के भाग—क में अन्तर्लिखित है और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के लिए रिटनिंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटनिंग आफिसर के रूप में एतद्वारा नियुक्त करता है --

### सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।

सहायक रिटनिंग आफिसर

- |   |  |
|---|--|
| 1. 1-मद्रास उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कलक्टर के अपर निजी सहायक, मद्रास</li> <li>2. विशेष आफिसर, निरीक्षण कक्ष, मद्रास कलक्टोरेट।</li> <li>3. सहायक आयुक्त (उत्तर)</li> <li>4. विशेष उप-कलक्टर, वर्मा स्वदेशावर्तन, मद्रास कलक्टोरेट।</li> <li>5. सहायक सेटिलमेंट आफिसर, चेंगलपट्ट</li> <li>6. विशेष उप-कलक्टर, वर्मा स्वदेशावर्तन, सेदापेट।</li> </ol> |
| 2. 2-मद्रास केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर। | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सहायक आयुक्त, शहरी भूमि कर, मीडियर-पेट।</li> <li>2. कलक्टर का निजी सहायक (साधारण), मद्रास।</li> <li>3. सहायक आयुक्त (वसिण)।</li> </ol>   |

1

2

4. सहायक आयुक्त, शहरी भूमिकर, जोर्जे टाऊन ।
  5. जिला हरिजन कल्याण आफिसर, मन्नास ।
  6. सहायक आयुक्त, शहरी भूमि कर, ट्रिपलकेन ।
- 
3. 3-सब्रास दक्षिण संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
  1. सहायक आयुक्त, शहरी भूमि कर, थेमात्राया नगर ।
  2. जिला कल्याण आफिसर, पिछडे वर्ग, मन्नास ।
  3. सहायक आयुक्त, शहरी भूमि कर, एग्मोरे ।
  4. सहायक आयुक्त, शहरी भूमिकर, सैदापेट ।
  5. कलक्टर का निजी सहायक (साधारण), चेंगलपट्टु ।
  6. राजस्व खण्ड आफिसर, सैदापेट ।
- 
4. 4-प्रोपेसबुडुर (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
  1. विशेष उप कलक्टर, अस्वादी शिविर, गुमीडीपूडी ।
  2. कलक्टर का अपर निजी सहायक, चेंगलपट्टु ।
  3. कलक्टर का निजी सहायक (भूमि अर्जन), चेंगलपट्टु ।
  4. सहायक आयुक्त, शहरी भूमि कर (पट्टा क्षेत्र उत्तर) ।
  5. राजस्व खण्ड आफिसर, तिक्वल्लुर ।
  6. जिला आपूर्ति आफिसर, चेंगलपट्टु ।
- 
5. 5-चिंगलपट्टु संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
  1. सहायक आयुक्त, शहरी भूमि कर (पट्टा क्षेत्र-उत्तर) ।
  2. राजस्व खण्ड आफिसर, चेंगलपट्टु ।
  3. जिला हरिजन कल्याण आफिसर, कांचिपुरम ।
  4. प्राधिकृत आफिसर, भूमि सुधार, चेंगलपट्टु ।
  5. कलक्टर का विशेष सहायक, 20 सूत्री कार्यक्रम ।
  6. राजस्व खण्ड आफिसर, कांचिपुरम ।
- 
6. 6-प्रकोतम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
  1. जिला कल्याण आफिसर, पिछड़े वर्ग, कांचिपुरम ।
  2. राजस्व खण्ड आफिसर, रानीपेट ।
  3. खण्ड विकास आफिसर रानीपेट ।
  4. 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए कलक्टर, नार्थ अर्काट का विशेष सहायक ।

1

2

5. विशेष आफिसर, निरीक्षण कक्ष, नार्थ अर्काट ।  
6. राजस्व खण्ड आफिसर, चेन्नय ।
7. बेल्लोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
1. कलक्टर, नार्थ अर्काट, का निजी सहायक (साधारण) ।  
2. नगरपालिका आयुक्त, गूडीयाथम ।  
3. जिला आपूर्ति आफिसर, नार्थ अर्काट ।  
4. जिला हरिजन कल्याण आफिसर ।  
5. नगरपालिका आयुक्त, बेल्लोर ।  
6. खण्ड विकास आफिसर, चेन्नय ।
8. 8-तिरुपट्टूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
1. कलक्टर, नार्थ अर्काट का अपर निजी सहायक ।  
2. राजस्व खण्ड आफिसर, तिरुपट्टूर ।  
3. जिला हरिजन कल्याण आफिसर ।  
4. राजस्व खण्ड आफिसर, तिरुवन्नाम्मलाई ।  
5. खण्ड विकास आफिसर, तिरुवन्नाम्मलाई ॥
9. 9-वन्दिवाश संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
1. नगर पालिका आयुक्त, तिरुवन्नाम्मलाई  
2. कलक्टर, नार्थ अर्काट का निजी सहायक (पंचायत विकास ) (उत्तर) ।  
3. राजस्व खण्ड आफिसर, चेन्नय ।  
4. जिला कल्याण आफिसर, पिछड़े वर्ग, बेल्लोर ।  
5. राजस्व खण्ड आफिसर, टिन्डीवानम ।  
6. खण्ड विकास आफिसर, टिन्डीवानम ।
10. 10-टिन्डीवानम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
1. कलक्टर, साउथ अर्काट का निजी सहायक (साधारण) ।  
2. विशेष आफिसर, निरीक्षण कक्ष, साउथ अर्काट ।  
3. जिला कल्याण आफिसर, पिछड़े वर्ग, गुडालोर ।  
4. खण्ड विकास आफिसर, तिरुकोइलूर ।  
5. राजस्व खण्ड आफिसर, तिरुकोइलूर ।  
6. सटिलमेट आफिसर, विल्लुपुरम का विशेष सहायक ।
11. 11-कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।
1. जिला हरिजन कल्याण आफिसर, कुड्डालोर ।  
2. प्राधिकृत आफिसर, (भूमि सुधार), कुड्डालोर ।  
3. कलक्टर, साउथ अर्काट का निजी सहायक, (पंचायत विकास ) (उत्तर) ।  
4. कलक्टर, साउथ अर्काट का अपर निजी सहायक



1	2
	<p>5. कलकट्टर, साउथ ब्रक्रीट का निजी सहायक (पंचायत विकास) (दक्षिण) ।</p> <p>6. विशेष उप-कलकट्टर, कल्वारायन हिल्स, मोट्टामपट्टी ।</p>
12. 12-विदम्बरम (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	<p>1. 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए कलकट्टर, कुड्डालोर का विशेष सहायक ।</p> <p>2. जिला आपूर्ति आफिसर, कुड्डालोर ।</p> <p>3. खण्ड विकास आफिसर, विदम्बरम ।</p> <p>4. राजस्व खण्ड आफिसर, विदम्बरम ।</p> <p>5. विशेष उप-कलकट्टर, (भूमि अर्जन), नेवेली ।</p> <p>6. खण्ड विकास आफिसर, वृद्धाचालम ।</p>
13. 13-धर्मपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	<p>1. जिला आपूर्ति आफिसर, धर्मपुरी ।</p> <p>2. कलकट्टर, धर्मपुरी का निजी सहायक (पंचायत विकास) ।</p> <p>3. राजस्व खण्ड आफिसर, धर्मपुरी ।</p> <p>4. खण्ड विकास आफिसर, धर्मपुरी ।</p> <p>5. राजस्व खण्ड आफिसर, मेट्टुर ।</p> <p>6. विशेष उप-कलकट्टर, (भूमि अर्जन), सलेम स्टील प्लांट, सलेम ।</p>
14. 14-कुण्णिगिरी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	<p>1. राजस्व खण्ड आफिसर, होसुर ।</p> <p>2. 20सूत्री कार्यक्रम के लिए कलकट्टर का विशेष सहायक ।</p> <p>3. खण्ड विकास आफिसर, होसुर ।</p> <p>4. जिला हरिजन कल्याण आफिसर, धर्मपुरी ।</p> <p>5. जिला कल्याण आफिसर, पिछड़े वर्ग, धर्मपुरी ।</p> <p>6. कलकट्टर, धर्मपुरी का निजी सहायक (साधारण) ।</p>
15. 15-रसिपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	<p>1. राजस्व खण्ड आफिसर, वृद्धाचालम ।</p> <p>2. राजस्व खण्ड आफिसर, सलेम ।</p> <p>3. सहायक आयुक्त, शहरी भूमि कर, सलेम पश्चिम ।</p> <p>4. कलकट्टर, सलेम का अपर निजी सहायक ।</p> <p>5. सहायक आयुक्त, शहरी भूमि कर, सलेम पूर्व ।</p> <p>6. राजस्व खण्ड आफिसर, नामक्कल ।</p>

1

2

16. 16—सलेम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. कलक्टर, सलेम का निजी सहायक (पंचायत विकास) (उत्तर) ।
  2. कलक्टर, सलेम का निजी सहायक (साधारण) ।
  3. आयुक्त, सलेम नगरपालिका ।
  4. जिला आपूर्ति आफिसर, सलेम ।
  5. जिला हरिजन कल्याण आफिसर, सलेम ।
  6. जिला कल्याण आफिसर, पिछड़े वर्ग, सलेम ।
17. 17—तिरुचेंगोडे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए कलक्टर, सलेम का विशेष सहायक ।
  2. राजस्व, खण्ड आफिसर, सनकारी ।
  3. खण्ड विकास आफिसर, सनकारी ।
  4. कलक्टर सलेम का निजी सहायक (पंचायत विकास) (वर्षा) ।
  5. राजस्व खण्ड आफिसर, इरोड ।
  6. कलक्टर, कोयम्बटूर का अधरनिजी सहायक ।
18. 18—नील गिरिस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. राजस्व खण्ड आफिसर, कोयम्बटूर ।
  2. सहायक आयुक्त, शहरी भूमिकर, कोयम्बटूर पूर्व ।
  3. जिला हरिजन कल्याण आफिसर, कोयम्बटूर ।
  4. कलक्टर, नीलगिरिस का निजी सहायक (साधारण) ।
  5. जिला कल्याण आफिसर, पिछड़े वर्ग, ओटकमण्ड ।
  6. राजस्व खण्ड आफिसर, गुडालुर ।
19. 19—गोबिन्देष्टिपालयम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. जिला आपूर्ति आफिसर, कोयम्बटूर ।
  2. खण्ड विकास आफिसर, इरोड ।
  3. कलक्टर, कोयम्बटूर का निजी सहायक (पंचायत विकास) (पूर्व) ।
  4. खण्ड विकास आफिसर, गोबिन्देष्टिपालयम ।
  5. राजस्व खण्ड आफिसर, गोबिन्देष्टिपालयम ।
  6. सहायक आयुक्त, शहरी भूमि कर, कोयम्बटूर ।
20. 20—कोयम्बटूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. प्राधिकृत आफिसर (भूमि सुधार), कोयम्बटूर ।
  2. आयुक्त, कोयम्बटूर नगरपालिका ।
  3. सिटी डिस्ट्रीब्यूशन आफिसर, कोयम्बटूर ।

1

2

- 
- |  |   |
|--|---|
|  | 4 खण्ड विकास आफिसर, कोयम्बटूर ।   |
|  | 5. जिला कल्याण आफिसर, पिछडा वर्ग, कोयम्बटूर ।                               |
|  | 6. सहायक आयुक्त, कृषि आयुक्त, कोयम्बटूर ।                                   |
| 21. 21—पोल्हाची (ग्र०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर । | 1 विशेष उप-कलक्टर (स्थानीकरण) पार-म्बीकुलम-अलीयर परियोजना, पोल्हाची ।       |
|  | 2. विशेष उप-कलक्टर (भूमि अर्जन), पोल्हाची ।                                 |
|  | 3. राजस्व खण्ड आफिसर, पोल्हाची ।  |
|  | 4. विशेष आफिसर, निरीक्षण कक्ष, कोयम्बटूर ।                                  |
|  | 5. कलक्टर, कोयम्बटूर का निजी सहायक (साधारण) ।                               |
|  | 6. खण्ड विकास आफिसर, पोल्हाची ।   |
| 22. 22—पलानी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।              | 1. कलक्टर, कोयम्बटूर का निजी सहायक (पचायत विकास) (पश्चिम) ।                 |
|  | 2. 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए कलक्टर, कोयम्बटूर का विशेष सहायक ।            |
|  | 3. विशेष आफिसर, निरीक्षण कक्ष, मदुराई ।                                     |
|  | 4. राजस्व खण्ड आफिसर, डिन्डिगुल ।   |
|  | 5. विशेष उप कलक्टर, काल्वर भूमि कृषि योग्यकरण, कलक्टर का कार्यालय, मदुराई । |
|  | 6. विशेष आफिसर, भूदान, मदुराई ।   |
| 23. 23—डिन्डिगुल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।          | 1. कलक्टर, मदुराई का अपर निजी सहायक ।                                       |
|  | 2. राजस्व खण्ड आफिसर, उसिलमपट्टो ।  |
|  | 3. कलक्टर, मदुराई का निजी सहायक (सर्वेक्षण) ।                               |
|  | 4. जिला कल्याण आफिसर, पिछडे वर्ग, मदुराई ।                                  |
|  | 5. प्राधिकृत आफिसर (भूमि सुधार), डिन्डिगुल ।                                |
|  | 6. विशेष उप-कलक्टर (पुनर्वास), कलक्टर का कार्यालय, मदुराई ।                 |
| 24. 24—मदुराई संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।             | 1. सहायक आयुक्त, शहरी भूमि कर, मदुराई पश्चिम ।                              |
|  | 2. राजस्व खण्ड आफिसर, मदुराई ।  |
-

1	2
	3 आयुक्त, मदुराई नगर निगम । 4 सहायक आयुक्त, शहरी भूमि कर, मदुराई पूर्व । 5 कलक्टर, मदुराई का निजी सहायक (पचायत विकास), (मदुराई पूर्व) । 6 प्राधिकृत आफिसर (भूमि सुधार), मदुराई ।
25. 25—पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का स्टिफिंग आफिसर ।	1. कलक्टर, मदुराई का निजी सहायक (साधारण) । 2. जिला हरिजन कल्याण आफिसर, मदुराई । 3. राजस्व खण्ड आफिसर, मदुराई । 4. जिला आपूर्ति आफिसर, मदुराई । 5. कलक्टर, मदुराई का निजी सहायक (पचायत विकास) (मदुराई पश्चिम) । 6. सहायक आयुक्त, शहरी भूमि कर, मदुराई दक्षिण ।
26. 26—करूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का स्टिफिंग आफिसर ।	1. राजस्व खण्ड आफिसर, करूर । 2. खण्ड विकास आफिसर, करूर । 3. कलक्टर, तिरुचिरापल्ली का अपर निजी सहायक । 4. जिला आपूर्ति आफिसर, तिरुचिरापल्ली । 5. कलक्टर, तिरुचिरापल्ली का निजी सहायक (साधारण) । 6. जिला हरिजन कल्याण आफिसर, तिरुचिरापल्ली ।
27. 27—तिरुचिरापल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का स्टिफिंग आफिसर ।	1. राजस्व खण्ड आफिसर, मुसिरी । 2. कलक्टर, तिरुचिरापल्ली का निजी सहायक (पचायत विकास), (उत्तर) । 3. खण्ड विकास आफिसर, तिरुचिरापल्ली । 4. आयुक्त, तिरुचिरापल्ली नगरपालिका । 5. राजस्व खण्ड आफिसर, तिरुचिरापल्ली । 6. कलक्टर, तिरुचिरापल्ली का निजी खण्ड आफिसर (पचायत विकास); (दक्षिण) ।
28. 28—पेराम्बलूर (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का स्टिफिंग आफिसर ।	1. खण्ड विकास आफिसर, मुसिरी । 2. जिला कल्याण आफिसर, पिछड़े वर्ग, तिरुचिरापल्ली ।

1	2
	3. खण्ड विकास आफिसर, अरियालुर । 4. राजस्व खण्ड आफिसर, अरियालुर । 5. विशेष उप-कलक्टर (पुनर्वास), तिरु-चिरापल्ली । 6. प्राधिकृत आफिसर (भूमि सुधार), तिरु-चिरापल्ली ।
29 29—मयूरम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. कलक्टर, थन्जावुर का निजी सहायक (पंचायत विकास), (पूर्व) । 2. प्राधिकृत आफिसर (भूमि सुधार), मयूरम । 3. राजस्व खण्ड आफिसर, मयूरम । 4. जिला कल्याण आफिसर, पिछड़े वर्ग, थन्जावुर । 5. राजस्व खण्ड आफिसर, कुम्बाकोनम । 6. 20—सूची कार्यक्रम के लिए कलक्टर, थन्जावुर का विशेष सहायक ।
30 30—नागापट्टीनम (अ० ज०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. कलक्टर, थन्जावुर का निजी सहायक (साधारण) । 2. जिला आपूर्ति आफिसर, थन्जावुर । 3. राजस्व खण्ड आफिसर, नागापट्टीनम । 4. जिला हरिजन कल्याण आफिसर, थन्जावुर । 5. विशेष उप-कलक्टर, निरीक्षण कक्ष, कलक्टर का कार्यालय थन्जावुर । 6. राजस्व खण्ड आफिसर, मन्नारगुडी ।
31. 31—थन्जावुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. सहायक आयुक्त, कृषि आयुक्त, थन्जावुर । 2. कलक्टर, थन्जावुर के निजी सहायक (पंचायत) विकास (पश्चिमी) । 3. आयुक्त, थन्जावुर नगरपालिका । 4. राजस्व खण्ड आफिसर, थन्जावुर । 5. कलक्टर, थन्जावुर का अपर निजी सहायक । 6. प्राधिकृत आफिसर (भूमि सुधार), थन्जावुर ।
32 32—पुडुक्कोट्टाई संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	1. राजस्व खण्ड आफिसर, पुडुक्कोट्टाई । 2. विशेष उप कलक्टर, निरीक्षण कक्ष, थन्जावुर । 3. जिला हरिजन कल्याण आफिसर, पुडुक्कोट्टाई । 4. राजस्व खण्ड आफिसर, पुडुक्कोट्टाई । 5. जिला कल्याण आफिसर, पिछड़े वर्ग, पुडुक्कोट्टाई । 6. राजस्व खण्ड आफिसर, अरन्तानगी ।

1

2

33. 33—शिघगंगा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. कलक्टर, पुडुकोट्टाई का निजी सहायक (साधारण) ।
  2. राजस्व खण्ड आफिसर, देवकोट्टाई ।
  3. कलक्टर, रामनाथपुरम का निजी सहायक (पंचायत विकास), (पूर्व) ।
  4. कलक्टर, रामनाथपुरम का अपर निजी सहायक ।
  5. राजस्व खण्ड आफिसर, शिघगंगा ।
  6. खण्ड विकास आफिसर, देवकोट्टाई ।
34. 34—रामनाथपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. जिला कल्याण आफिसर, पिछडे वर्ग, रामनाथपुरम ।
  2. कलक्टर रामनाथपुरम का निजी सहायक (पंचायत विकास), (पश्चिम) ।
  3. विशेष उप-कलक्टर (पुनर्वास), मन्डापम अस्थायी, शिविर, मन्डापम ।
  4. 20-सूत्री कार्यक्रम के कलक्टर का विशेष सहायक ।
  5. राजस्व खण्ड आफिसर, रामनाथपुरम ।
  6. जिला हरिजन कल्याण आफिसर, रामनाथपुरम, मदुराई ।
35. 35—शिवकासी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. विशेष आफिसर, निरीक्षण कक्ष, रामनाथपुरम, मदुराई ।
  2. विशेष उप कलक्टर (आधुनिकीकरण, बैगाई जलसारणी स्कीम), रामनाथपुरम ।
  3. राजस्व खण्ड आफिसर, शिवकासी ।
  4. कलक्टर, रामनाथपुरम का निजी सहायक (साधारण) ।
  5. जिला आपूर्ति आफिसर, रामनाथपुरम, मदुराई ।
  6. कलक्टर, तिरुनेलवेली का निजी सहायक (साधारण) ।
36. 36—तिरुनेलवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।
1. कलक्टर, तिरुनेलवेली का अपर निजी सहायक ।
  2. जिला आपूर्ति आफिसर, तिरुनेलवेली ।
  3. आयुक्त, तिरुनेलवेली नगरपालिका, तिरुनेलवेली ।

1	2
	<p>4. जिला हरिजन कल्याण आफिसर, तिरु-नेलवेली ।</p> <p>5. सहायक आयुक्त, कृषि आयकर, तिरुनेलवेली ।</p> <p>6. आयुक्त, तृतीकोरीन नगरपालिका, तृती-कोरीन ।</p>
37. 37—टेनकामी (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	<p>1. राजस्व खण्ड आफिसर, कोइलपट्टी ।</p> <p>2. जिला कल्याण आफिसर, पिछड़े वर्ग, तिरुतेलनेली ।</p> <p>3. राजस्व खण्ड आफिसर, तिरुनेलवेली ।</p> <p>4. विशेष आफिसर, निरीक्षण कक्ष, तिरुनेलवेली ।</p> <p>5. कलक्टर, तिरुनेलवेली का निजी सहायक (पंचायत विकास) (उत्तर) ।</p> <p>6. प्राधिकृत आफिसर (भूमि सुधार), तिरु-नेलवेली ।</p>
38. 38—तिरुचेन्दुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	<p>1. राजस्व खण्ड आफिसर, चेरनमहादेवी ।</p> <p>2. विशेष उप-कलक्टर, गहरी भूमि अधिकतम सीमा, तिरुनेलवेली ।</p> <p>3. कलक्टर, तिरुनेलवेली का निजी सहायक (पंचायत विकास), (दक्षिण) ।</p> <p>4. 20-सूत्री कार्यक्रम के कलक्टर का विशेष सहायक ।</p> <p>5. राजस्व खण्ड आफिसर, तृतीकोरीन ।</p> <p>6. जिला कल्याण आफिसर, पिछड़े वर्ग, नागरकोईल ।</p>
39. 39—नागरकोइल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।	<p>1. कलक्टर, कन्याकुमारी का निजी सहायक (साधारण) ।</p> <p>2. जिला हरिजन कल्याण आफिसर, कन्या-कुमारी जिला ।</p> <p>3. राजस्व खण्ड आफिसर, पदमनामपुरम ।</p> <p>4. जिला आपूर्ति आफिसर, नागरकोइल ।</p> <p>5. कलक्टर, कन्याकुमारी का निजी सहायक (पंचायत विकास) ।</p> <p>6. 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए कलक्टर, कन्या-कुमारी का विशेष सहायक ।</p>

[सं० 434/त० भा०/77 (2)]

आदेश से,

बी० नागसुब्रमण्यन सचिव,

*New Delhi, the 28th January 1977*

**S.O. III (E).**—In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of the Commission's notification No. 434/TF/75 (I) dated 24 May, 1976, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Tripura, the Officer of Government specified in column 2 of the Table below as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Tripura specified in column 1 of the said Table against such Officer of Government :—

TABLE

Serial No. and Name of the Constituency.	Parliamentary Returning Officer
1	2
1. Tripura West . . . . .	District Magistrate & Collector, West Tripura, Agartala.
2. Tripura East (ST) . . . . .	District Magistrate & Collector, North Tripura Kailasahar.

[No. 434 T.P. 77 (I)]

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1977

का०आ० 111(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबंधों के अनुसरण में, तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/त्रिपुरा/75(1) 'तारीख 24 मई, 1976 को अधिकांत करते हुए, निर्वाचन आयोग त्रिपुरा सरकार के परामर्श से नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकार के आफिसर को, ऐसे आफिसर के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट त्रिपुरा राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है :—

#### सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं० तथा नाम	रिटर्निंग आफिसर
1	2
1. त्रिपुरा पश्चिम . . . . .	जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर, पश्चिम त्रिपुरा, अगरतला।
2. त्रिपुरा पूर्व (अ० ज० जा०) . . . . .	जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर, उत्तर त्रिपुरा, कैलासहर।

[स० 434/त्रिपुरा/77(1)]

(ए० एन० सैन)

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।



**S.O. 112(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (4 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/TP/75 (2), dated 24 May, 1976 the Election Commission hereby appoints each of the officers of Government of Tripura as specified in column 2 of the Table below to assist the Returning Officer of the Parliamentary constituency in the State of Tripura specified in column 1 of the said Table against such Officer or Officers of Government in the performance of the functions of such Returning Officer :—

TABLE

Returning Officer of Parliamentary constituency	Assistant Returning Officers
1	2
1. Returning Officer of 1-Tripura West Parliamentary constituency.	1. Additional District Magistrate & Collector West Tripura (Cadre Post), Agartala. 2. Sub-Divisional Officer, Sadar, Agartala. 3. Shri S. B. Sarkar, Special Officer Tribal Welfare, Agartala 4. Shri H. P. Shiva, T.C.S., (Leave reserve) attached to Sub-Divisional Officer's Office, Sadar, Agartala. 5. Sub-Divisional Officer, Sonamura 6. Sub-Divisional Officer, Udaipur. 7. Sub-Divisional Officer, Belona.
2. Returning Officer of 2-Tripura East (S I) Parliamentary constituency.	1. Additional District Magistrate North Tripura (Ex-cadre), Kailasahar. 2. Sub-Divisional Officer, Kailasahar. 3. Sub-Divisional Officer, Kamalpur. 4. Sub-Divisional Officer, Dharmanagar. 5. Sub-Divisional Officer, Khowai. 6. Sub-Divisional Officer, Amarapur. 7. Sub-Divisional Officer, Sabroom. 8. Sub-Divisional Officer, Belonia.

[No 434/TP/77 (2)]

का.अ. 112(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अपनी अधिसूचना सं० 434/त्रिपुरा/75(2), तारीख 24 मई, 1976 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट त्रिपुरा सरकार के प्रत्येक आफिसर को ऐसे आफिसर या आफिसरों के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट

त्रिपुरा राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए नियुक्त करता है :—

### सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
1. 1-त्रिपुरा पश्चिम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. अपर जिला मजिस्ट्रेट तथा कलक्टर, पश्चिमी त्रिपुरा (संवर्ग पद), अगरतला। 2. उप-खण्ड आफिसर, सदर, अगरतला। 3. श्री एस० बी० सरकार, विशेष जन-जाति कल्याण आफिसर, अगरतला। 4. श्री एच० पी० शिवा, टी० सी० एस०, (छुट्टी रिजर्व), उप-खण्ड आफिसर के कार्यालय से सम्बद्ध, सदर-अगरतला। 5. उप-खण्ड आफिसर, सोनापुर। 6. उप-खण्ड आफिसर, उदयपुर। 7. उप-खण्ड आफिसर, बेलोनिया।
2. 2-त्रिपुरा पूर्व (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. अपर जिला रिटर्निंग उत्तरी त्रिपुरा (संवर्ग बाह्य), कैलासहर। 2. उप-खण्ड आफिसर, कैलासहर। 3. उप-खण्ड आफिसर, कमालपुर। 4. उप-खण्ड आफिसर, धर्मनगर। 5. उप-खण्ड आफिसर, खोवाई। 6. उप-खण्ड आफिसर, भ्रमरपुर। 7. उप-खण्ड आफिसर, सबरूम। 8. उप-खण्ड आफिसर, बेलोनिया।

[सं० 434/त्रिपुरा/77(2)]

New Delhi the 29th January 1977

**S.O. 113(E)**—In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of its Notification No. 434/UP/HP/76, dated 20 January, 1976, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, the officer of the Government specified in column 2 of the Table below as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh as contained in Part A of schedule XXII to the DELIMITATION OF PARLIAMENTARY AND ASSEMBLY CON-

STIPUENCIES ORDER, 1976 and specified in column 1 of the said Table against such officer of the Government :—

TABLE

Serial No. and Name of the parliamentary constituency	Returning Officer
1	2
1. Tehri Garhwal . . . . .	District Officer, Tehri Garhwal
2. Garhwal . . . . .	District Officer, Garhwal
3. Almora . . . . .	District Officer, Almora
4. Nainital . . . . .	District Officer, Nainital
5. Bijnor (SC) . . . . .	District Officer, Bijnor
6. Amroha . . . . .	District Officer, Moradabad.
7. Moradabad . . . . .	District Officer, Moradabad
8. Rampur . . . . .	District Officer, Rampur
9. Sambhal . . . . .	District Officer, Moradabad
10. Budaun . . . . .	District Officer, Budaun
11. Aonla . . . . .	District Officer, Bareilly.
12. Bareilly . . . . .	District Officer, Bareilly.
13. Pilibhit . . . . .	District Officer, Pilibhit.
14. Shahjahanpur . . . . .	District Officer, Shahjahanpur.
15. Kheri . . . . .	District Officer, Kheri.
16. Shahabad . . . . .	District Officer, Hardoi .
17. Sitapur . . . . .	District Officer, Sitapur.
18. Mirlikh (SC) . . . . .	District Officer, Sitapur.
19. Hardoi (SC) . . . . .	District Officer, Hardoi.
20. Lucknow . . . . .	District Officer, Lucknow.
21. Mohanlalganj (SC) . . . . .	District Officer, Lucknow.
22. Unnao . . . . .	District Officer, Unnao.
23. Rae-Bareilly . . . . .	District Officer, Rae Bareilly.
24. Pratapgarh . . . . .	District Officer, Pratapgarh.
25. Amerli . . . . .	District Officer, Sultanpur.
26. Sultanpur . . . . .	District Officer, Sultanpur.
27. Akbarpur (SC) . . . . .	District Officer, Faizabad.
28. Faizabad . . . . .	District Officer, Faizabad.
29. Barabanki (SC) . . . . .	District Officer, Barabanki..
30. Kaiserganj . . . . .	District Officer, Bahraich.
31. Bahraich . . . . .	District Officer, Bahraich.
32. Balrampur . . . . .	District Officer, Gonda.
33. Gonda . . . . .	District Officer, Gonda.
34. Basti (SC) . . . . .	Additional District Magistrate, Basti
35. Domariaganj . . . . .	District Officer, Basti.
36. Khalilabad . . . . .	District Officer, Basti.
37. Bangaon (SC) . . . . .	District Officer, Gorakhpur.
38. Gorakhpur . . . . .	District Officer, Gorakhpur.
39. Maharajganj . . . . .	District Officer, Gorakhpur.
40. Padrauna . . . . .	District Officer, Deoria.
41. Deoria . . . . .	District Officer, Deoria.
42. Salempur . . . . .	District Officer, Deoria.
43. Ballia . . . . .	District Officer, Ballia
44. Ghosi . . . . .	District Officer, Azamgarh.
45. Azamgarh . . . . .	District Officer, Azamgarh.
46. Lalgaon (SC) . . . . .	District Officer, Azamgarh.
47. Machhlishahr . . . . .	District Officer, Jaunpur
48. Jaunpur . . . . .	District Officer, Jaunpur.
49. Saidpur (SC) . . . . .	District Officer, Ghazipur.
50. Ghazipur . . . . .	District Officer, Ghazipur.
51. Chandauli . . . . .	District Officer, Varanasi.
52. Varanasi . . . . .	Additional District Officer (Administration), Varanasi

1	2
53. Robertganj (SC)	District Officer, Mirzapur.
54. Mirzapur	District Officer, Varanasi.
55. Phulpur	Additional District Officer (Rural Area), Allahabad.
56. Allahabad	District Officer, Allahabad.
57. Chail (SC)	Additional District Magistrate (City), Allahabad
58. Fatehpur	District Officer, Fatehpur.
59. Banda	District Officer, Banda.
60. Hamirpur	District Officer, Hamirpur.
61. Jhansi	District Officer, Jhansi.
62. Jalaun (SC)	District Officer, Jalaun.
63. Ghatampur (SC)	District Officer, Kanpur Dehat.
64. Bilhaur	District Officer, Kanpur Dehat.
65. Kanpur	District Officer, Kanpur Nagar.
66. Etawah	District Officer, Etawah.
67. Kannauj	District Officer, Farrukhabad.
68. Farrukhabad	District Officer, Farrukhabad.
69. Mainpuri	District Officer, Mainpuri.
70. Jalesar	District Officer, Etah.
71. Etah	District Officer, Etah.
72. Firozabad (SC)	District Officer, Agra.
73. Agra	District Officer, Agra.
74. Mathura	District Officer, Mathura
75. Hathras (SC)	District Officer, Aligarh.
76. Aligarh	District Officer, Aligarh.
77. Khurja (SC)	District Officer, Bulandshahr.
78. Bulandshahr	District Officer, Bulandshahr.
79. Hapur	District Officer, Ghaziabad.
80. Meerut	District Officer, Meerut.
81. Bhagpat	District Officer, Meerut.
82. Muzaffarnagar	District Officer, Muzaffarnagar.
83. Kairana	District Officer, Muzaffarnagar.
84. Saharanpur	District Officer, Saharanpur
85. Hardwar (SC)	District Officer, Saharanpur.

[No. 434/UP/HIP/77 ]

‘नई दिल्ली’ 29 जनवरी, 1977

क्र० आ० 113 (अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में और अपनी अधिसूचना सं० 434/उ० प्र०-लो० सं०/76, तारीख 20 जनवरी, 1976 को अधिष्ठातृ करते हुए, निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर को, ऐसे सरकारी आफिसर के सामने उत्तर प्रदेश राज्य के संसदीय

निर्वाचन क्षेत्रों, जैसा कि वे संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 22 के भाग-क में अन्तर्लिखित है और उक्त सारणी में स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में एनद्द्वाराल पदाभिहित करता है :—

## सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं० तथा नाम

रिटर्निंग आफिसर

1	2
1. टेहरी गढ़वाल . . . . .	जिला अधिकारी, टेहरी गढ़वाल
2. गढ़वाल . . . . .	जिला अधिकारी, गढ़वाल
3. अल्मोड़ा . . . . .	जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
4. नैनीताल . . . . .	जिला अधिकारी, नैनीताल
5. बिजनौर (अ० जा०) . . . . .	जिला अधिकारी, बिजनौर
6. अमरोहा . . . . .	जिला अधिकारी, मुरादाबाद
7. मुरादाबाद . . . . .	जिला अधिकारी, मुरादाबाद
8. रामपुर . . . . .	जिला अधिकारी, रामपुर
9. सम्भल . . . . .	जिला अधिकारी, मुरादाबाद
10. बदायूँ . . . . .	जिला अधिकारी, बदायूँ
11. आबला . . . . .	जिला अधिकारी, बरेली
12. बरेली . . . . .	जिला अधिकारी, बरेली
13. पीलीभीत . . . . .	जिला अधिकारी, पीलीभीत
14. शाहजहापुर . . . . .	जिला अधिकारी, शाहजहापुर
15. खीरी . . . . .	जिला अधिकारी, खीरी
16. शाहाबाद . . . . .	जिला अधिकारी, हरदोई
17. सीतापुर . . . . .	जिला अधिकारी, सीतापुर
18. मिश्रिण (अ० जा०) . . . . .	जिला अधिकारी, सीतापुर
19. हरदोई (अ० जा०) . . . . .	जिला अधिकारी, हरदोई
20. लखनऊ . . . . .	जिला अधिकारी, लखनऊ
21. मोहन लाल गंज (अ० जा०) . . . . .	जिला अधिकारी, लखनऊ
22. उन्नाव . . . . .	जिला अधिकारी, उन्नाव
23. राय बरेली . . . . .	जिला अधिकारी, रायबरेली
24. प्रतापगढ़ . . . . .	जिला अधिकारी, प्रतापगढ़
25. अमेठी . . . . .	जिला अधिकारी, सुल्तानपुर
26. सुल्तानपुर . . . . .	जिला अधिकारी, सुल्तानपुर
27. अकबरपुर (अ० जा०) . . . . .	जिला अधिकारी, फैजाबाद
28. फैजाबाद . . . . .	जिला अधिकारी, फैजाबाद
29. बाराबंकी (अ० जा०) . . . . .	जिला अधिकारी, बाराबंकी

1	2
30. कैसरगंज . . . . .	जिला अधिकारी, बहराइच
31. बहराइच . . . . .	जिला अधिकारी, बहराइच
32. बलरामपुर . . . . .	जिला अधिकारी, गोण्डा
33. गोण्डा . . . . .	जिला अधिकारी, गोण्डा
34. बस्ती (अ० जा०) . . . . .	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती
35. झुमरियागंज . . . . .	जिला अधिकारी, बस्ती
36. सलीलाबाद . . . . .	जिला अधिकारी, बस्ती
37. बांसगाव (अ० जा०) . . . . .	जिला अधिकारी, गोरखपुर
38. गोरखपुर . . . . .	जिला अधिकारी, गोरखपुर
39. महाराजगंज . . . . .	जिला अधिकारी, गोरखपुर
40. पडरौना . . . . .	जिला अधिकारी, देवरिया
41. देवरिया . . . . .	जिला अधिकारी, देवरिया
42. सलेमपुर . . . . .	जिला अधिकारी, देवरिया
43. बलिया . . . . .	जिला अधिकारी, बलिया
44. घोसी . . . . .	जिला अधिकारी, आजमगढ़ ]
45. आजमगढ़ . . . . .	जिला अधिकारी, आजमगढ़
46. तालगंज (अ० जा०) . . . . .	जिला अधिकारी, आजमगढ़
47. मछलीशहर . . . . .	जिला अधिकारी, जौनपुर
48. जौनपुर . . . . .	जिला अधिकारी, जौनपुर
49. सैदपुर (अ० जा०) <sup>1</sup> . . . . .	जिला अधिकारी, गाजीपुर
50. गाजीपुर . . . . .	जिला अधिकारी, गाजीपुर
51. चन्दौली . . . . .	जिला अधिकारी, वाराणसी
52. वाराणसी . . . . .	अतिरिक्त जिला अधिकारी (प्रशासन) वाराणसी
53. राबर्टसगंज (अ० जा०) . . . . .	जिला अधिकारी, मिर्जापुर
54. मिर्जापुर . . . . .	जिला अधिकारी, वाराणसी
55. फून्पुर . . . . .	अतिरिक्त जिला अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र) इलाहाबाद
56. इलाहाबाद . . . . .	जिला अधिकारी, इलाहाबाद
57. चायल (अ० जा०) . . . . .	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) इलाहाबाद
58. फतेहपुर . . . . .	जिला अधिकारी, फतेहपुर
59. बांदा . . . . .	जिला अधिकारी, बांदा
60. हमीरपुर . . . . .	जिला अधिकारी, हमीरपुर
61. झांसी . . . . .	जिला अधिकारी, झांसी
62. जालौन (अ० जा०) . . . . .	जिला अधिकारी, जालौन
63. घाटमपुर (अ० जा०) . . . . .	जिला अधिकारी, कानपुर देहात
64. बिल्हौर . . . . .	जिला अधिकारी, कानपुर देहात

1	2
65. कानपुर . . . .	जिला अधिकारी, कानपुर नगर
66. इटावा . . . .	जिला अधिकारी, इटावा
67. कनौज . . . .	जिला अधिकारी, फर्रुखाबाद
68. फर्रुखाबाद . . . .	जिला अधिकारी, फर्रुखाबाद
69. मैनपुरी . . . .	जिला अधिकारी, मैनपुरी
70. जलेश्वर . . . .	जिला अधिकारी, एटा
71. एटा . . . .	जिला अधिकारी, एटा
72. फिरोजाबाद (अ० जा०) . . . .	जिला अधिकारी, आगरा
73. आगरा , . . . .	जिला अधिकारी, आगरा
74. मथुरा . . . .	जिला अधिकारी, मथुरा
75. हाथरस (अ० जा०) . . . .	जिला अधिकारी, अलीगढ़
76. अलीगढ़ . . . .	जिला अधिकारी, अलीगढ़
77. बुर्जा (अ० जा०) . . . .	जिला अधिकारी, बलन्दशहर
78. बुलन्दशहर . . . .	जिला अधिकारी, बुलन्दशहर
79. हापुड़ . . . .	जिला अधिकारी, गाजियाबाद
80. मेरठ . . . .	जिला अधिकारी, मेरठ
81. बागपत . . . .	जिला अधिकारी, मेरठ
82. मुजफ्फर नगर . . . .	जिला अधिकारी, मुजफ्फर नगर
83. कैराना . . . .	जिला अधिकारी, मुजफ्फरनगर
84. सहारनपुर . . . .	जिला अधिकारी, सहारनपुर
85. हरद्वार (अ० जा०) . . . .	जिला अधिकारी, सहारनपुर

[सं. 434/उ०प्र०/०००/७७]

**S.O. 144(E).**—In exercise of the powers concerned by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of its Notification No. 434/UP IIPo 76(A) dated 20 January, 1976, the Election Commission hereby appoints the officer or officers of the Government as specified in column 2 of the Table below as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the parliamentary constituency in the state of Uttar Pradesh as contained in part A of schedule XXII of the DELIMITATION of PARLIAMEN-

**TARY AND ASSEMBLY CONSTITUENCIES ORDER, 1976** and specified in column 1 of the said Table against such officer or officers of Government in the performance of the functions of such Returning officer:—

TABLE

Returning officer of the Parliamentary Constituency      Assistant Returning Officer

1	2
1. Returning Officer for 1-Tehri Gerwal parliamentary constituency.	1. Sub-divisional Officer, Tehri and Pratapnagar. 2. Sub-divisional Officer, Kirtinagar 3. City Magistrate Narendranagar. 4. Sub-divisional Magistrate, Bhatwari at Uttar Kashi.
2. Returning Officer for 2-Garhwal parliamentary constituency.	1. Additional District Magistrate (Development), Pauri Garhwal. 2. Sub-divisional Magistrate, Barahsyun, Pauri. 3. Sub-divisional Magistrate, Barahsyun, Pauri.
3. Returning Officer for 3-Almora parliamentary constituency.	1. Additional District Magistrate (Development), Almora 2. City Magistrate, Almora 3. District Finance & Revenue Officer, Pithoragarh.
4. Returning Officer for 4-Nainital parliamentary constituency.	1. Additional District Magistrate (Administration), Nainital 2. Sub-divisional Magistrates, Haldwani.
5. Returning Officer for 5-Bijnor (SC) parliamentary constituency.	1. Additional District Officer (Ceiling), Bijnor 2. Sub-division Officer/Sub-divisional Magistrate, Bijnor.
6. Returning Officer for 6-Amroha parliamentary constituency.	1. Additional District Officer (Administration), Moradabad. 2. Additional District Officer (Administration), City Area Moradabad.
7. Returning Officer for 7-Moradabad parliamentary constituency.	1. Additional District Officer (Administration), Moradabad. 2. Additional District Officer (Administration), City Area Moradabad.
8. Returning Officer for 8-Rampur parliamentary constituency.	1. Additional District Magistrate (Ceiling) Rampur. 2. Sub-divisional Magistrate, Suar.
9. Returning Officer for 9-Sambhal parliamentary constituency.	1. Additional District Officer (Administration), Moradabad. 2. Additional District Officer (Administration), City Area, Moradabad.
10. Returning Officer for 10-Budaun parliamentary constituency.	1. Additional District Magistrate (Ceiling) Budaun 2. Sub-divisional Magistrate, Budaun.
11. Returning Officer for 11-Aonla parliamentary constituency	1. Additional District Magistrate (Development), Bareilly 2. District Revenue Officer, Bareilly.
12. Returning Officer for 12-Bareilly parliamentary constituency.	1. Additional District Magistrate (Development), Bareilly. 2. District Revenue Officer Bareilly.



1

2

- 
- |  |   |
|--|---|
| <p>13. Returning Officer for 13-Pilibhit Parliamentary constituency.</p> <p>14. Returning Officer for 14-Shahjahanpur Parliamentary constituency.</p> <p>15. Returning Officer for 15-Kheri Parliamentary constituency.</p> <p>16. Returning Officer for 16-Shahabad Parliamentary constituency.</p> <p>17. Returning Officer for 17-Sitapur Parliamentary constituency.</p> <p>18. Returning Officer for 18-Misrikh (SC) Parliamentary constituency.</p> <p>19. Returning Officer for 19-Hardoi (SC) Parliamentary constituency.</p> <p>20. Returning Officer for 20-Lucknow Parliamentary constituency.</p> <p>21. Returning Officer for 21-Mohanlalgarh (SC) Parliamentary constituency.</p> <p>22. Returning Officer for 22-Unnao Parliamentary constituency.</p> <p>23. Returning Officer for 23-Rae Bareilly Parliamentary constituency.</p> <p>24. Returning Officer for 24-Pratapgarh Parliamentary constituency.</p> <p>25. Returning Officer for 25-Amethi Parliamentary constituency.</p> <p>26. Returning Officer for 26-Sultanpur Parliamentary constituency.</p> <p>27. Returning Officer for 27-Khairpur (SC) Parliamentary constituency.</p> <p>28. Returning Officer for 28-Faizabad Parliamentary constituency.</p> <p>29. Returning Officer for 29-Barabanki (SC) Parliamentary constituency.</p> <p>30. Returning Officer for 30-Kaimganj Parliamentary constituency.</p> <p>31. Returning Officer for 31-Bahraich Parliamentary constituency.</p> | <p>1. Sub-divisional Officer/Sub-divisional Magistrate, Pilibhit.</p> <p>2. Additional Sub-divisional Magistrate/Additional Sub-divisional Officer Pilibhit.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Ceiling), Shahjahanpur.</p> <p>2. City Magistrate, Shahjahanpur.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Project), Kheri.</p> <p>2. Sub-divisional Magistrate, Lakhimpur.</p> <p>1. Additional District Magistrate, (Ceiling), Hardoi.</p> <p>2. Sub-divisional Magistrate, Hardoi.</p> <p>1. Sub-divisional Magistrate, Biswan.</p> <p>2. Sub-divisional Magistrate, Sitapur.</p> <p>1. Sub-divisional Magistrate, Sidhauri.</p> <p>2. Sub-divisional Magistrate, Misrikh.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Ceiling), Hardoi.</p> <p>2. Sub-divisional Magistrate, Hardoi.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Administration), Lucknow.</p> <p>2. Additional District Magistrate (City), Lucknow.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Administration), Lucknow.</p> <p>2. Additional District Magistrate (City), Lucknow.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Ceiling), Unnao.</p> <p>2. Sub-divisional Officer, Unnao.</p> <p>1. Additional District Officer (Finance &amp; Revenue), Rae Bareilly.</p> <p>2. Additional District Officer (Project), Rae Bareilly.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Ceiling), Pratapgarh.</p> <p>2. Sub-divisional Magistrate, Sadar, Pratapgarh.</p> <p>1. Sub-divisional Officer Amethi.</p> <p>2. Sub-divisional Officer, Misafirkhana.</p> <p>1. Sub-divisional Officer, Amethi.</p> <p>2. Sub-divisional Officer, Musafirkhana.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Ceiling), Faizabad.</p> <p>2. City Magistrate, Faizabad.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Ceiling) Faizabad.</p> <p>2. City Magistrate, Faizabad.</p> <p>1. District Finance &amp; Revenue Officer, Barabanki.</p> <p>2. Sub-divisional Officer Nawaiganj.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Ceiling, Bahraich.</p> <p>2. Sub-divisional Magistrate, Sadar, Bahraich.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Ceiling), Bahraich.</p> |
|--|---|
-

I

2

- 
- |   |  |
|---|--|
| 32. Returning Officer for 32-Balarampur Parliamentary constituency.     | 1. Additional District Magistrate (Ceiling), Gonda.<br>2. Sub-divisional Magistrate, Gonda.  |
| 33. Returning Officer for 33-Gonda Parliamentary constituency.          | 1. Additional District Magistrate (Ceiling), Gonda.<br>2. Sub-divisional Magistrate, Gonda.  |
| 34. Returning Officer for 34-Baati (SC) Parliamentary constituency.     | 1. Sub-divisional Officer Basti.<br>2. Extra Deputy Collector-I, Basti.  |
| 35. Returning Officer for 35-Domariaganj Parliamentary constituency.    | 1. Sub-divisional Officer Basti.<br>2. Extra Deputy Collector-II, Basti.   |
| 36. Returning Officer for 36-Khalilabad Parliamentary constituency.     | 1. Sub-divisional Officer, Basti.<br>2. Extra Deputy Collector-II, Basti.  |
| 37. Returning Officer for 37-Bansagaon (SC) Parliamentary constituency. | 1. Additional District Magistrate (Executive), Gorakhpur.<br>2. City Magistrate, Gorakhpur.  |
| 38. Returning Officer for 38-Gorakhpur Parliamentary constituency.      | 1. Additional District Magistrate (Executive), Gorakhpur.<br>2. City Magistrate, Gorakhpur.  |
| 39. Returning Officer for 39-Maharajanj Parliamentary constituency.     | 1. Additional District Magistrate (Executive), Gorakhpur.<br>2. City Magistrate, Gorakhpur.  |
| 40. Returning Officer for 40-Padrauna Parliamentary constituency.       | 1. Sub-divisional Magistrate, Padrauna.<br>2. Sub-divisional Magistrate, Hata.   |
| 41. Returning Officer for 41-Deoria Parliamentary constituency.         | 1. Sub-divisional Magistrate, Deoria.<br>2. Settlement Officer (Consolidation), Deoria.  |
| 42. Returning Officer for 42-Salempur Parliamentary constituency.       | 1. Sub-divisional Magistrate, Salempur.<br>2. Special Land Acquisition Officer & Deputy Collector, Deoria.                               |
| 43. Returning Officer for 43-Ballia Parliamentary constituency.         | 1. Additional District Officer, Ballia.<br>2. Sub-divisional Officer/Sub-divisional Magistrate, Ballia.                                  |
| 44. Returning Officer for 44-Ghost Parliamentary constituency.          | 1. Shri Tej Bahadur Upadhayay, Deputy Director (Consolidation), Azamgarh.<br>2. Sub-divisional Magistrate, Mohammadabad Gohna, Azamgarh. |
| 45. Returning Officer for 45-Azamgarh Parliamentary constituency.       | 1. Sub-divisional Magistrate Sadar, Azamgarh.<br>2. Shri Tej Bahadur Upadhayay, Deputy Director (Consolidation), Azamgarh.               |
| 46. Returning Officer for 46-Lalganj (SC) parliamentary constituency.   | 1. Sub-divisional Magistrate, Sadar, Azamgarh.<br>2. Shri Tej Bahadur Upadhayay, Deputy Director (Consolidation), Azamgarh.              |
| 47. Returning Officer for 47-Machhlisahr parliamentary constituency.    | 1. Additional District Officer, (Finance & Revenue), Jaunpur.<br>2. Sub-divisional Officer/Sub-divisional Magistrate, Sadar, Jaunpur.    |
| 48. Returning Officer for 48-Jaunpur parliamentary constituency.        | 1. Additional District Officer (Finance & Revenue), Jaunpur.<br>2. Sub-divisional Officer/Sub-divisional Magistrate, Sadar, Jaunpur.     |
| 49. Returning Officer for 49-Saidpur (SC) Parliamentary constituency.   | 1. Shri Ambika Prasad Srivastava, Deputy Collector, Ghazipur.<br>2. Sub-divisional Officer/Sub-divisional Magistrate, Ghazipur.          |
-

I

2

- |  |  |
|--|--|
| <p>50. Returning Officer for 50-Ghazipur parliamentary constituency.</p> <p>51. Returning Officer for 51-Chandauli parliamentary constituency.</p> <p>52. Returning Officer for 52-Varanasi parliamentary constituency.</p> <p>53. Returning Officer for 53-Robertsganj (SC) parliamentary constituency.</p> <p>54. Returning Officer for 54-Mirzapur parliamentary constituency.</p> <p>55. Returning Officer for 55-Phulpur parliamentary constituency.</p> <p>56. Returning Officer for 56-Allahabad parliamentary constituency.</p> <p>57. Returning Officer for 57-Chail (SC) parliamentary constituency.</p> <p>58. Returning Officer for 58-Fatehpur parliamentary constituency.</p> <p>59. Returning Officer for 59-Banda parliamentary constituency.</p> <p>60. Returning Officer for 60-Hamirpur parliamentary constituency.</p> <p>61. Returning Officer for 61-Jhansi parliamentary constituency.</p> <p>62. Returning Officer for 62-Jalaun (SC) parliamentary constituency.</p> <p>63. Returning Officer for 63-Ghatampur (SC) parliamentary constituency.</p> <p>64. Returning Officer for 64-Bilhaur parliamentary constituency.</p> <p>65. Returning Officer for 65-Kanpur parliamentary constituency.</p> <p>66. Returning Officer for 66-Etawah parliamentary constituency.</p> | <p>1. Special Land Acquisition Officer, Ghazipur.</p> <p>2. Sub-divisional Officer Sub-divisional Magistrate, Ghazipur.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Development), Varanasi.</p> <p>2. Sub-divisional Magistrate/Sub-divisional Officer, Varanasi (North).</p> <p>1. Additional District Officer (City), Varanasi.</p> <p>2. Sub-divisional Magistrate/Sub-divisional Officer, Varanasi (North).</p> <p>1. Additional District Officer (Ceiling), Mirzapur.</p> <p>2. Sub-divisional Officer, Sadar, Mirzapur.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Supply), Varanasi.</p> <p>2. Sub-divisional Magistrate/Sub-divisional Officer, Varanasi (North).</p> <p>1. Sri Udairaj Srivastava, Deputy Collector, Allahabad.</p> <p>2. City Magistrate, Allahabad.</p> <p>1. Sri Udairaj Srivastava, Deputy Collector, Allahabad.</p> <p>2. City Magistrate, Allahabad.</p> <p>1. Sri Udairaj Srivastava, Deputy Collector, Allahabad.</p> <p>2. City Magistrate, Allahabad.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Development), Fatehpur.</p> <p>2. Additional District Magistrate (Ceiling), Fatehpur.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Ceiling), Banda.</p> <p>2. Additional Sub-divisional Officer Sub-divisional Magistrate, Banda.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Ceiling), Hamirpur.</p> <p>2. Sub-divisional Magistrate, Sadar, Hamirpur.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Ceiling), Jhansi.</p> <p>2. Additional District Magistrate (Development), Jhansi.</p> <p>3. Shri Ram Baboo Gupta, Deputy Collector, Jhansi.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Ceiling), Jalaun.</p> <p>2. Sub-divisional Magistrate, Orai.</p> <p>3. Sub-divisional Magistrate, Kalpi.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Development), Kanpur Dehat.</p> <p>2. Settlement Officer (Consolidation), Kanpur Dehat.</p> <p>1. Additional District Magistrate (Executive), Kanpur Dehat.</p> <p>2. Sub-divisional Officer, Bilhaur.</p> <p>1. Additional District Magistrate (City), Kanpur Nagar.</p> <p>2. City Magistrate, Kanpur Nagar.</p> <p>1. Additional Collector (Finance &amp; Revenue), Etawah.</p> <p>2. Special Land Acquisition Officer, Etawah.</p> |
|--|--|

I

2

- 
- |   |  |
|---|--|
| 67. Returning Officer for 67-Kannauj parliamentary constituency.        | 1. Additional District Magistrate (Ceiling), Farrukhabad.                    |
| 68. Returning Officer for 68-Farrukhabad parliamentary constituency.    | 2. Sub-divisional Magistrate, Kannauj.                                       |
| 69. Returning Officer for 69-Mainpuri parliamentary constituency.       | 1. Additional District Magistrate (Ceiling), Farrukhabad.                    |
| 70. Returning Officer for 70-Jalesar parliamentary constituency.        | 2. Sub-divisional Magistrate, Farrukhabad                                    |
| 71. Returning Officer for 71-Etah parliamentary constituency.           | 1. Additional District Magistrate (Finance & Revenue), Mainpuri.             |
| 72. Returning Officer for 72-Firozabad (SC) parliamentary constituency. | 2. Sub-divisional Officer, Mainpuri.   |
| 73. Returning Officer for 73-Agra parliamentary constituency            | 1. Additional District Magistrate/District (Finance & Revenue) Officer, Etah |
| 74. Returning Officer for 74-Mathura parliamentary constituency.        | 2. Sub-divisional Officer, Jalesar.  |
| 75. Returning Officer for 75-Hathras (SC) parliamentary constituency.   | 1. Additional District Magistrate/District Finance & Revenue Officer, Etah.  |
| 76. Returning Officer for 76-Aligarh parliamentary constituency.        | 2. Sub-divisional Officer, Etah.   |
| 77. Returning Officer for 77-Khurja (SC) parliamentary constituency.    | 1. Additional District Magistrate (Executive), Firozabad.                    |
| 78. Returning Officer for 78-Bulandshahr parliamentary constituency     | 2. Additional District Magistrate (Executive), Agra.                         |
| 79. Returning Office for 79-Hapur parliamentary constituency.           | 1. Additional District Magistrate (City), Agra.                              |
| 80. Returning Officer for 80-Meerut parliamentary constituency.         | 2. Additional District Magistrate (Executive), Agra.                         |
| 81. Returning Officer for 81-Bhagpat parliamentary constituency.        | 1. Additional District Magistrate (Ceiling), Mathura.                        |
| 82. Returning Officer for 82-Muzaffarnagar parliamentary constituency.  | 2. City Magistrate, Mathura.   |
| 83. Returning Officer for 83-Kairana parliamentary constituency.        | 3. Additional District Magistrate (Project), Mathura.                        |
|   | 1. Additional District Magistrate (Rural), Aligarh                           |
|   | 2. Additional District Magistrate (City), Aligarh.                           |
|   | 1. Additional District Magistrate (Rural), Aligarh                           |
|   | 2. Additional District Magistrate (City), Aligarh.                           |
|   | 1. Additional District Magistrate (Finance & Revenue), Bulandshahr.          |
|   | 2. District Registrar/Stamp & Registration Officer, Bulandshahr.             |
|   | 3. Additional Sub-divisional Officer, Bulandshahr.                           |
|   | 1. Additional District Magistrate (Finance & Revenue), Bulandshahr.          |
|   | 2. District Registrar/Stamp & Registration Officer, Bulandshahr.             |
|   | 3. Additional Sub-divisional Officer, Bulandshahr.                           |
|   | 1. Sub-divisional Officer, Ghazipur.   |
|   | 2. Deputy Collector, Ghazipur.   |
|   | 1. City Magistrate, Meerut.  |
|   | 2. Sub-divisional Magistrate, Meerut.  |
|   | 1. City Magistrate, Meerut.  |
|   | 2. Sub-divisional Magistrate, Meerut.  |
|   | 1. Additional District Magistrate (Finance & Revenue), Muzaffarnagar         |
|   | 2. Sub-divisional Officer, Muzaffarnagar.                                    |
|   | 1. Additional District Magistrate (Finance & Revenue), Muzaffarnagar         |
|   | 2. Sub-divisional Officer, Muzaffarnagar.                                    |
-

1	2
84. Returning Officer for 84-Saharanpur parliamentary constituency.	1. Additional District Magistrate (Executive), Saharanpur. 2. Sub-divisional Magistrate, Saharanpur.
85. Returning Officer for 85-Hardwar (SC) parliamentary constituency.	1. Additional District Magistrate (Development, Saharanpur). 2. City Magistrate, Saharanpur.

[No. 434/UP/HP/77(1)]

**क्र० आ० 114 (अ).—**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/उ० प्र०—लो० सं०/76(क), तारीख 20 जनवरी, 1976 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर या आफिसरों को, ऐसे सरकारी आफिसर के सामने उत्तर प्रदेश राज्य के समदीय निर्वाचन-क्षेत्रों, जैसा कि वे समदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिमित प्रदेश, 1976 का अनुसूची 2 के भाग-क में अन्तर्-विष्ट हैं और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के लिए रिटर्निंग आफिसर की उमके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए, सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप में नियुक्त करता है।—

### सारणी

समदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
1. 1—टेहरी गढ़वाल समदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. परगनाधिकारी, टेहरी एवं प्रतापनगर। 2. परगनाधिकारी, कं वि. नगर। 3. नगर मजिस्ट्रेट, नरेन्द्र नगर।
2. 2—गढ़वाल समदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	4. परगना मजिस्ट्रेट, भटवारी एवं, उत्तरकाशी। 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास) पीछी गढ़वाल। 2. परगना मजिस्ट्रेट, बारहभूँ पीछी।
3. 3—अल्मोड़ा समदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास), अल्मोड़ा। 2. नगर मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा। 3. जिला वित्त एवं राजस्व अधिकारी, पिथौरा-गढ़।

1

2

- |  |  |
|--|--|
| 4. 4-नैनीताल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।       | 1. अन्रिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) नैनीताल।<br>2. परगना मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी।                        |
| 5. 5-बिजनौर (आंजा) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर। | 1. अन्रिक्त जिला अधिकारी (सीलिंग), बिजनौर।<br>2. परगनाधिकारी एवं परगना मजिस्ट्रेट, बिजनौर।               |
| 6. 6-मुरादाबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।     | 1. अन्रिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद।<br>2. अन्रिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन), नगर क्षेत्र, मुरादाबाद। |
| 7. 7-मुरादाबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।     | 1. अन्रिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद।<br>2. अन्रिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) नगर क्षेत्र, मुरादाबाद। |
| 8. 8-रामपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर         | 1. अन्रिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग), रामपुर।<br>2. परगना मजिस्ट्रेट, स्वार।                             |
| 9. 9-सम्भल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर          | 1. अन्रिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद।<br>2. अन्रिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) नगर क्षेत्र, मुरादाबाद।  |
| 10. 10-बदायूं संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर       | 1. अन्रिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) बदायूं।<br>2. परगना मजिस्ट्रेट, बदायूं।                             |
| 11. 11-आबला संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर         | 1. अन्रिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास) बरेली।<br>2. जिला राजस्व अधिकारी, बरेली।                             |
| 12. 12-बरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर        | 1. अन्रिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास) बरेली।<br>2. जिला राजस्व अधिकारी, बरेली।                             |
| 13. 13-पीलीभीत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर      | 1. परगनाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।<br>2. अन्रिक्त परगनाधिकारी/अन्रिक्त परगना मजिस्ट्रेट, पीलीभीत। |
| 14. 14-शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर   | 1. अन्रिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) शाहजहांपुर।<br>2. सिटी मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।                      |

1

2

- |  |   |
|--|---|
| 15. 15—खीरो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर             | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (परियोजना) खीरो<br>2. परगना मजिस्ट्रेट, लखीमपुर                           |
| 16. 16—शाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर          | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) हरदोई<br>2. परगना मजिस्ट्रेट, हरदोई                              |
| 17. 17—सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर          | 1. परगना मजिस्ट्रेट, बिसवा<br>2. परगना मजिस्ट्रेट, सीतापुर  |
| 18. 18—मिश्रख (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर  | 1. परगना मजिस्ट्रेट, मिश्रीली<br>2. परगना मजिस्ट्रेट, मिश्रख  |
| 19. 19—हरदोई (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर   | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) हरदोई<br>2. परगना मजिस्ट्रेट, हरदोई                              |
| 20. 20—लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर             | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) लखनऊ<br>2. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) लखनऊ                  |
| 21. 21—मोहनलालगंज (अ० जा०) संसदीय क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर       | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) लखनऊ<br>2. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर), लखनऊ                 |
| 22. 22—उन्नाव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर           | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) उन्नाव<br>2. परगनाधिकारी, उन्नाव                                 |
| 23. 23—रायबरेली संसदीय क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर                  | 1. अतिरिक्त जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व), रायबरेली<br>2. अतिरिक्त जिला अधिकारी (परियोजना) रायबरेली |
| 24. 24—प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर        | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) प्रतापगढ़<br>2. परगना मजिस्ट्रेट, सदर प्रतापगढ़                  |
| 25. 25—अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर            | 1. परगनाधिकारी, अमेठी<br>2. परगनाधिकारी, मुनाफिरबाना  |
| 26. 26—मुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर       | 1. परगनाधिकारी, अमेठी<br>2. परगनाधिकारी, मुनाफिरबाना  |
| 27. 27—अकबरपुर (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) फैजाबाद<br>2. सिटी मजिस्ट्रेट फैजाबाद                            |

1

2

- |   |  |
|---|--|
| 28. 28-फैजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर           | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) फैजाबाद<br>2. मिटी मजिस्ट्रेट फैजाबाद         |
| 29. 29-बाराबंकी (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर | 1. जिला वित्त एवं राजस्व अधिकारी, बाराबंकी<br>2. परगनाधिकारी, तवाबगंज              |
| 30. 30-कैमरगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर           | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) बहाराइच<br>2. परगना मजिस्ट्रेट, सदर           |
| 31. 31-बहाराइच, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर          | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) बहाराइच<br>2. पत्ताना मजिस्ट्रेट, सदर बहाराइच |
| 32. 32-बलरामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर          | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) गोण्डा<br>2. परगना मजिस्ट्रेट, गोण्डा         |
| 33. 33-गोण्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर            | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (सीलिंग) गोण्डा<br>2. परगना मजिस्ट्रेट, गोण्डा        |
| 34. 34-बस्ती (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर    | 1. परगनाधिकारी, बस्ती<br>2. एक्स्ट्रा डिप्टी कलेक्टर प्रथम, बस्ती                  |
| 35. 35-डुमरियागंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर        | 1. परगनाधिकारी, बस्ती<br>2. एक्स्ट्रा डिप्टी कलेक्टर द्वितीय, बस्ती                |
| 36. 36-खलीलाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर          | 1. परगनाधिकारी, बस्ती<br>2. एक्स्ट्रा डिप्टी कलेक्टर, द्वितीय, बस्ती               |
| 37. 37-बांसगाव (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर  | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) गोरखपुर<br>2. नगर मजिस्ट्रेट, गोरखपुर        |
| 38. 38-गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर           | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), गोरखपुर<br>2. नगर मजिस्ट्रेट, गोरखपुर       |
| 39. 39-महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर         | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), गोरखपुर<br>2. नगर मजिस्ट्रेट, गोरखपुर       |
| 40. 40-पडरौना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर            | 1. परगना मजिस्ट्रेट, पडरौना<br>2. परगना मजिस्ट्रेट, हाटा                           |
| 41. 41-देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर           | 1. परगना मजिस्ट्रेट, देवरिया<br>2. बन्दोबस्त अधिकारी, (चकबन्दी), देवरिया           |



1

2

- |   |   |
|---|---|
| <p>42. 42—सलैमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर</p> <p>43. 43—बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर</p> <p>44. 44—धौसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर</p> <p>45. 45—आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर</p> <p>46. 46—लालगंज (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर</p> <p>47. 47—मछलीशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर</p> <p>48. 48—जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर</p> <p>49. 49—सैबपुर (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर</p> <p>50. 50—गाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर</p> <p>51. 51—चन्दौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर</p> <p>52. 52—वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर</p> | <p>1. परगना मजिस्ट्रेट, सलैमपुर</p> <p>2. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी तथा डिप्टी कलेक्टर, देवरिया</p> <p>1. अतिरिक्त जिला अधिकारी, बलिया</p> <p>2. परगनाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट, बलिया</p> <p>1. श्री तेजबहादुर उपाध्याय उप संचालक (चकबन्दी), आजमगढ़</p> <p>2. परगना मजिस्ट्रेट, मोहम्मदाबाद मोहना, आजमगढ़</p> <p>1. परगना मजिस्ट्रेट, सदर आजमगढ़</p> <p>2. श्री तेज बहादुर उपाध्याय, उपसंचालक (चकबन्दी), आजमगढ़</p> <p>1. परगना मजिस्ट्रेट, सदर आजमगढ़</p> <p>2. श्री तेज बहादुर उपाध्याय, उप संचालक (चकबन्दी), आजमगढ़</p> <p>1. अतिरिक्त जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जौनपुर</p> <p>2. परगनाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट, सदर जौनपुर</p> <p>1. अतिरिक्त जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जौनपुर</p> <p>2. परगनाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट, सदर जौनपुर</p> <p>1. श्री अम्बिका प्रसाद श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर, गाजीपुर</p> <p>2. परगनाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट, गाजीपुर</p> <p>1. विशेष भूमि अधिगृहण अधिकारी, गाजीपुर</p> <p>2. परगनाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट, गाजीपुर</p> <p>1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास), वाराणसी</p> <p>2. परगना मजिस्ट्रेट/परगनाधिकारी, वाराणसी (उत्तरी)</p> <p>1. अतिरिक्त जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी</p> <p>2. परगना मजिस्ट्रेट/परगनाधिकारी, वाराणसी (उत्तरी)</p> |
|---|---|

1

2

- |  |   |
|--|---|
| <p>53. 53—राबर्टसगंज (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर</p> <p>54. 54—मिर्जापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर</p> <p>55. 55—फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर</p> <p>56. 56—इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर</p> <p>57. 57—आधल (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर</p> <p>58. 58—फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर</p> <p>59. 59—बांदा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर</p> <p>60. 60—हमीरपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर</p> <p>61. 61—झांसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर</p> <p>62. 62—जालौन (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर</p> | <p>1. अतिरिक्त जिलाधिकारी (सीलिंग), मिर्जापुर</p> <p>2. परगनाधिकारी, सबर मिर्जापुर</p> <p>1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (पूर्ति), वाराणसी</p> <p>2. परगना मजिस्ट्रेट/परगना अधिकारी, वाराणसी (उत्तरी)</p> <p>1. श्री उदयराज श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर, इलाहाबाद</p> <p>2. नगर मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद</p> <p>1. श्री उदयराज श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर, इलाहाबाद</p> <p>2. नगर मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद</p> <p>1. श्री उदयराज श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर, इलाहाबाद</p> <p>2. नगर मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद</p> <p>1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास) फतेहपुर</p> <p>2. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) फतेहपुर</p> <p>1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) बांदा</p> <p>2. अतिरिक्त परगनाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट, बांदा</p> <p>1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) हमीरपुर</p> <p>2. परगना मजिस्ट्रेट, सबर, हमीरपुर</p> <p>1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) झांसी</p> <p>2. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास), झांसी</p> <p>3. श्री राम बाबू गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर, झांसी</p> <p>1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) जालौन</p> <p>2. परगना मजिस्ट्रेट, उरई</p> <p>3. परगना मजिस्ट्रेट, कालपी</p> |
|--|---|

1	2
63. 63-घाटमपुर (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास) कानपुर देहात । 2. बन्दीबस्त अधिकारी (चकवन्दी) कानपुर देहात ।
64. 64-बिल्हौर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कानपुर देहात । 2. परगनाधिकारी, बिल्हौर ।
65. 65-कानपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) कानपुर नगर । 2. नगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ।
66. 66-इटावा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अतिरिक्त कमिश्नर (वित्त एवं राजस्व), इटावा । 2. विजय भूमि अधिग्रहण अधिकारी, इटावा ।
67. 67-कन्नौज संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) फर्रुखाबाद । 2. परगना मजिस्ट्रेट, कन्नौज ।
68. 68-फर्रुखाबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग), फर्रुखाबाद । 2. परगना जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद ।
69. 69-मैनपुरी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) मैनपुरी । 2. परगनाधिकारी, मैनपुरी ।
70. 70-जलौसर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/ट्रिब्यूनल जिला वित्त एवं राजस्व अधिकारी, एटा । 2. परगनाधिकारी, जलौसर ।
71. 71-एटा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला वित्त एवं राजस्व अधिकारी, एटा । 2. परगनाधिकारी, एटा ।
72. 72-फिरोजाबाद (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), फिरोजाबाद । 2. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट [(प्रशासन), आगरा ।
73. 73-आगरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) आगरा । 2. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आगरा ।
74. 74-मथुरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) मथुरा । 2. नगर मजिस्ट्रेट, मथुरा । 3. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (परियोजना), मथुरा ।

- |   |   |
|---|---|
| 75. 75—हाथरस (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर  | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ग्राम्य) अलीगढ़ ।<br>2. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) अलीगढ़ ।  |
| 76. 76—अलीगढ़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर          | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ग्राम्य) अलीगढ़ ।<br>2. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) अलीगढ़ ।  |
| 77. 77—खुर्जा (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (घित्त एवं राजस्व) बुलन्दशहर ।<br>2. जिला रजिस्ट्रार/स्टैम्पस एवं रजिस्ट्रेशन आफिसर, बुलन्दशहर ।<br>3. अतिरिक्त परगनाधिकारी, बुलन्दशहर ।  |
| 78. 78—बुलन्दशहर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर       | 1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (घित्त एवं राजस्व), बुलन्दशहर ।<br>2. जिला रजिस्ट्रार/स्टैम्पस एवं रजिस्ट्रेशन आफिसर, बुलन्दशहर ।<br>3. अतिरिक्त परगनाधिकारी, बुलन्दशहर । |
| 79. 79—हापुड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर          | 1—परगनाधिकारी, गाजियाबाद ।<br>2—डिप्टी कलेक्टर, गाजियाबाद ।   |
| 80. 80—मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर            | 1—मिटी मजिस्ट्रेट, मेरठ ।<br>2—परगना मजिस्ट्रेट, मेरठ ।   |
| 81. 81—बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर           | 1—मिटी मजिस्ट्रेट, मेरठ ।<br>2—परगना मजिस्ट्रेट, मेरठ ।   |
| 82. 82—मुजफ्फरनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर      | 1—अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (घित्त एवं राजस्व) मुजफ्फरनगर ।<br>2. परगनाधिकारी मुजफ्फरनगर ।   |
| 83. 83—कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर          | 1 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (घित्त एवं राजस्व) मुजफ्फरनगर ।<br>2 पगनाधिकारी मुजफ्फरनगर ।   |
| 84. 84—सहारन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर           | 1 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (अधिश्रास्त्री) सहारनपुर ।   |
| 85 85 हरद्वार (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर | 1—अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास) सहारनपुर ।<br>2—नगर मजिस्ट्रेट, सहारनपुर ।   |

**S.O. 115(B).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of its Notification No. 434/UP/HP/76(1), dated 20 January, 1976, the Election Commission hereby appoints, in respect of every Parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh, as contained in Part A of schedule XXII to the DELIMITATION OF PARLIAMENTARY AND ASSEMBLY CONSTITUENCIES ORDER, 1976, all the Returning Officers and the Assistant Returning Officers for all the assembly constituencies comprised within that Parliamentary Constituency, as officers to assist the Returning Officer of that Parliamentary Constituency in the performance of his duties.

[No. 434/UP/HP/77 (2)]

**क्र० प्र० 115 (अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/उ० प्र०-लोक०म०/76 (1), तारीख 20 जनवरी 1976 को अधिक्रान्त करते हुए निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, जैसा कि वह संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 22 के भाग क में अन्तर्निहित है, के बारे में उस संसदीय-क्षेत्र में समाविष्ट सभी निर्वाचन क्षेत्रों के सभी रिटर्निंग आफिसरों तथा सहायक रिटर्निंग आफिसरों को, उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए नियुक्त करता है।

[सं० 434/उ० प्र०/लो० सं०/77 (2)]

**S.O. 116(B).**—In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/WB/75, dated 7 November 1975, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of West Bengal, the Officer of the Government specified in column (2) of the Table below as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of West Bengal as contained in Part A of Schedule XXIII to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and as specified in column (1) of the said Table against such officer of Government.

TABLE

Serial No. and name of the Constituency	Returning Officer
1	2
1. Cooch Behar (SC) . . . . .	Deputy Commissioner, Cooch Behar.
2. Alipurduars (ST) . . . . .	Deputy Commissioner, Jalpaiguri.
3. Jalpaiguri . . . . .	Deputy Commissioner, Jalpaiguri.
4. Darjeeling . . . . .	Deputy Commissioner, Darjeeling.
5. Raiganj . . . . .	District Magistrate, West Dinajpur.
6. Balurghat (SC) . . . . .	District Magistrate, West Dinajpur.
7. Malda . . . . .	District Magistrate, Malda.
8. Jangipur . . . . .	District Magistrate, Murshidabad, Berhampore.
9. Murshidabad . . . . .	District Magistrate, Murshidabad, Berhampore.
10. Berhampore . . . . .	District Magistrate, Murshidabad, Berhampore.
11. Krishnagar . . . . .	District Magistrate, Nadia, Krishnagar.
12. Nabadwip (SC) . . . . .	District Magistrate, Nadia, Krishnagar.
13. Barasat . . . . .	District Magistrate, 24-Parganas, Alipore.
14. Basirhat . . . . .	District Magistrate, 24-Parganas, Alipore.
15. Joynagar (SC) . . . . .	District Magistrate, 24-Parganas, Alipore.
16. Mathurapur (SC) . . . . .	Subdivisional Magistrate, Diamod Harbour.

I	2
17. Diamond Harbour . . . . .	District Magistrate, 24-Parganas, Alipore.
18. Jadavpur . . . . .	District Magistrate, 24-Parganas, Alipore.
19. Barrackpore . . . . .	District Magistrate, 24-Parganas, Alipore.
20. Dum Dum . . . . .	District Magistrate, 24-Parganas, Alipore.
21. Calcutta North-West. . . . .	Director of Panchayat, West Bengal, Calcutta.
22. Calcutta North-East . . . . .	Collector of Calcutta, Calcutta.
23. Calcutta South . . . . .	Director of Land Records and Surveys, West Bengal, Alipore.
24. Howrah . . . . .	District Magistrate, Howrah.
25. Uluberia . . . . .	Sub-divisional Magistrate, Uluberia.
26. Serampore . . . . .	District Magistrate, Hooghly, Chinsurah.
27. Hooghly . . . . .	District Magistrate, Hooghly, Chinsurah.
28. Arambagh . . . . .	District Magistrate, Hooghly, Chinsurah.
29. Panskura . . . . .	District Magistrate, Midnapore.
30. Tamluk . . . . .	Sub-divisional Magistrate, Tamluk.
31. Contai . . . . .	Sub-divisional Magistrate, Contai.
32. Midnapore. . . . .	District Magistrate, Midnapore.
33. Jhargram (ST) . . . . .	District Magistrate, Midnapore.
34. Purulia . . . . .	Deputy Commissioner, Purulia.
35. Bankura . . . . .	District Magistrate, Bankura.
36. Vishnupur (SC) . . . . .	District Magistrate, Bankura.
37. Durgapur (SC). . . . .	District Magistrate, Burdwan.
38. Asansol . . . . .	District Magistrate, Burdwan.
39. Burdwan . . . . .	District Magistrate, Burdwan.
40. Katwa . . . . .	District Magistrate, Burdwan.
41. Bolpur . . . . .	District Magistrate, Birbhum Suri.
42. Birbhum (SC) . . . . .	District Magistrate, Birbhum, Suri.

[No. 434/WB/77]

क्र० आ० 116 (घ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/प० ब/75 तारीख 7 नवम्बर, 1975 को प्रसिद्ध करके हुए निर्वाचन आयोग पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 2 में यथा बिनि दिष्ट सरकारी आफिसर को पश्चिमी बंगाल राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जैसा कि वह संसदीय तथा सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिभाषित आदेश, 1976 की अनुसूची XXIII के भाग 'क' में अन्विष्ट है और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में सरकार के ऐसे आफिसर के सामने निर्दिष्ट है, के लिए रिटनिंग आफिसर के रूप में पदाम्भित करता है।—

## सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं० तथा नाम	रिटनिंग आफिसर
1	2
1. कूच बिहार (अ० आ०) . . . . .	उपायुक्त, कूच बिहार ।
2. झलीपुरावास (अ० ज० आ०) . . . . .	उपायुक्त, जलपाईगुड़ी ।

1

2

3. जलपाईगुडी . . .	उपायुक्त, जलपाईगुडी ।
4. दार्जिलिंग . . .	उपायुक्त, दार्जिलिंग ।
5. रायगंज . . .	जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिमी दिनाजपुर ।
6. बालूरघाट (अ० जा०) . . .	जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिमी दिनाजपुर ।
7. मालदा . . .	जिला मजिस्ट्रेट, मालदा ।
8. जगीपुर . . .	जिला मजिस्ट्रेट, मुंशिदाबाद, बरहामपुर ।
9. मुंशिदाबाद . . .	जिला मजिस्ट्रेट, मुंशिदाबाद, बरहामपुर ।
10. बरहामपुर . . .	जिला मजिस्ट्रेट, मुंशिदाबाद, बरहामपुर ।
11. कृष्णनगर . . .	जिला मजिस्ट्रेट, नाडिया, कृष्णनगर ।
12. नवद्वीप (अ० जा०) . . .	जिला मजिस्ट्रेट, नाडिया, कृष्णनगर ।
13. बारासत . . .	जिला मजिस्ट्रेट, 24-परगना, अलिपुर ।
14. खसीरहाट . . .	जिला मजिस्ट्रेट, 24-परगना, अलिपुर ।
15. जोयनगर (अ० जा०) . . .	जिला मजिस्ट्रेट, 24-परगना, अलिपुर ।
16. मथुरापुर (अ० जा०) . . .	उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, डायमण्ड हारबर ।
17. डायमण्ड हारबर . . .	जिला मजिस्ट्रेट, 24-परगना, अलिपुर ।
18. जादवपुर . . .	जिला मजिस्ट्रेट, 24-परगना, अलिपुर ।
19. बैरकपोर . . .	जिला मजिस्ट्रेट, 24-परगना, अलिपुर ।
20. डमडम . . .	जिला मजिस्ट्रेट, 24-परगना, अलिपुर ।
21. कलकत्ता उत्तर-पश्चिम . . .	पंचायत निवेशक, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता ।
22. कलकत्ता उत्तर-पूर्व . . .	कलक्टर, कलकत्ता, कलकत्ता ।
23. कलकत्ता दक्षिण . . .	निवेशक, भू-अभिलेख तथा सर्वेक्षण पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता ।
24. हावड़ा . . .	जिला मजिस्ट्रेट, हावड़ा ।
25. उलुबेरिया . . .	उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, उलुबेरिया ।
26. सेरामपोर . . .	जिला मजिस्ट्रेट, हुगली, चिनसुराह ।
27. हुगली . . .	जिला मजिस्ट्रेट, हुगली, चिनसुराह ।
28. आरामबाग . . .	जिला मजिस्ट्रेट, हुगली, चिनसुराह ।
29. पसकुरा . . .	जिला मजिस्ट्रेट, मिदनापुर ।
30. तामसुक . . .	उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, तामसुक ।
31. कोन्टाई . . .	उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, कोन्टाई ।

1

2

32. मिदनापुर . . .	जिला मजिस्ट्रेट, मिदनापुर ।
33. द्वारभ्राम (अ० ज० जा०) . . .	जिला मजिस्ट्रेट, मिदनापुर ।
34. पुरुलिया . . .	उपायुक्त, पुरुलिया ।
35. बंकुरा . . .	जिला मजिस्ट्रेट, बंकुरा ।
36. बिशुपुर (अ० जा०) . . .	जिला मजिस्ट्रेट, बंकुरा ।
37. बुर्गपुर (अ० जा०) . . .	जिला मजिस्ट्रेट, बर्दवान ।
38. आसनसोल . . .	जिला मजिस्ट्रेट, बर्दवान ।
39. बर्दवान . . .	जिला मजिस्ट्रेट, बर्दवान ।
40. कटवा . . .	जिला मजिस्ट्रेट, बर्दवान ।
41. बोलपुर . . .	जिला मजिस्ट्रेट, सूरी बीरभूम
42. बीरभूम (अ० जा०) . . .	जिला मजिस्ट्रेट, सूरी बीरभूम ।

[सं 434/प०ब०/77]

**S.O. 117(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its Notification No. 434/WB/75(1), dated 24 May, 1976, the Election Commission hereby appoints the Officer or Officers of the Government as specified in column (2) of the Table below to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of West Bengal as contained in Part A of Schedule XXIII to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and as specified in column (1) of the said Table against such Officer or Officers of Government in the performance of the functions of such Returning Officer—

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer or Officers
(1)	(2)
1. Returning Officer of 1-Cooch Behar (SC) Parliamentary Constituency.	Additional Deputy Commissioner, Cooch Behar, Senior Deputy Collector, Cooch Behar, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.
2. Returning Officer of 2-Alipurduars (ST) Parliamentary Constituency.	Additional Deputy Commissioner, Jalpaiguri-Senior Deputy Collector, Jalpaiguri, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned, and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.



1	2
3. Returning Officer of 3-Jalpaiguri Parliamentary Constituency.	Additional Deputy Commissioner, Jalpaiguri, Senior Deputy Collector, Jalpaiguri, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.
4. Returning Officer of 4-Darjeeling Parliamentary Constituency.	Additional Deputy Commissioner, Darjeeling, Senior Deputy Collector, Darjeeling, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.
5. Returning Officer of 5-Raiganj Parliamentary Constituency.	Additional District Magistrate, West Dinajpur, Senior Deputy Collector, West Dinajpur, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.
6. Returning Officer of 6-Bijurghat (SC) Parliamentary Constituency	Additional District Magistrate, West Dinajpur, Senior Deputy Collector, West Dinajpur, two other Executive Magistrates, who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.
7. Returning Officer of 7-Malda Parliamentary Constituency	Additional District Magistrates, Malda, Senior Deputy Collector, Malda, Sub-Divisional Magistrate concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrate concerned
8. Returning Officer of 8-Jangipur Parliamentary Constituency.	Additional District Magistrate, Murshidabad Senior Deputy Collector, Murshidabad, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.
9. Returning Officer of 9-Murshidabad Parliamentary Constituency.	Additional District Magistrate, Murshidabad, Senior Deputy Collector, Murshidabad, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned

1	2
70. Returning Officer of 10-Berhampore Parliamentary Constituency.	Additional District Magistrate, Murshidabad, Senior Deputy Collector, Murshidabad, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.
71. Returning Officer of 11-Krishnagar Parliamentary Constituency.	Additional District Magistrate, Nadia, Senior Deputy Collector, Nadia and two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrate concerned and Executive Magistrate who deals with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrate concerned.
72. Returning Officer of 12-Nabadwip (SC) Parliamentary Constituency.	Additional District Magistrate, Nadia, Senior Deputy Collector, Nadia and two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned, and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrate concerned.
73. Returning Officer of 13-Barasat Parliamentary Constituency.	Additional District Magistrate, 24-Parganas, Senior Deputy Collector, 24-Parganas, three other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrate concerned.
74. Returning Officer of 14-Baunhat Parliamentary Constituency.	Additional District Magistrate, 24-Parganas, Senior Deputy Collector, 24-Parganas, three other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.
75. Returning Officer of 15-Joynagar (SC) Parliamentary Constituency.	Additional District Magistrate, 24-Parganas, Senior Deputy Collector, 24-Parganas, three other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.

1	2
16. Returning Officer of 16-Mathurapur (SC) Parliamentary Constituency.	Executive Magistrate who deals with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrate, Diamond Harbour and three other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates subordinate to the Sub-Divisional Magistrate concerned
17. Returning Officer of 17-Diamond Harbour Parliamentary Constituency.	Additional District Magistrate, 24-Parganas Senior Deputy Collector, 24-Parganas, three other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.
18. Returning Officer of 18-Jaipur Parliamentary Constituency.	Additional District Magistrate, 24-Parganas, Senior Deputy Collector, 24-Parganas, three other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned, Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned and Director of Land Records and Surveys, West Bengal.
19. Returning Officer of 19-Barrackpore Parliamentary Constituency.	Additional District Magistrate, 24-Parganas, Senior Deputy Collector, 24-Parganas, three other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrate concerned and Executive Magistrate who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.
20. Returning Officer of 20-Din Din   Parliamentary Constituency.	Additional District Magistrate, 24-Parganas Senior Deputy Collector, 24-Parganas, three other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned and Collector of Calcutta.
21. Returning Officer of 21-Calcutta North-West Parliamentary Constituency.	Joint Director of Panchayats, Assistant Director of Panchayats, Regional Assistant Director of Panchayats, Burdwan Division, Regional Assistant Director of Panchayats, Presidency Division, and First Land Acquisition Collector Calcutta
22. Returning Officer of 22-Calcutta North-East Parliamentary Constituency	Probate Deputy Collector, Calcutta Collectorat Treasury Office, Calcutta Collectorate, Special Officer, Calcutta Collectorate, Special Officer, Amusement Tax, Calcutta Collectorate and Second Land Acquisition Collectorate Calcutta.

- | 1  | 2   |
|--|---|
| 23. Returning Officer of 23-Calcutta South Parliamentary Constituency. | Deputy Director of Surveys, West Bengal, Deputy Director of Land Records, West Bengal, P.A. to the Director of Land Records, and Surveys, West Bengal, Special Officer to the Director of Land Records and Surveys West Bengal, Assistant Director of Surveys West Bengal, Assistant Director of Land Records, West Bengal, Inspector General of Registration, West Bengal and Sadar Sub-Divisional Magistrate 24-Parganas. |
| 24. Returning Officer of 24-Howrah Parliamentary Constituency.         | Additional District Magistrate, Howrah, Senior Deputy Collector, Howrah, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrate concerned and Executive Magistrate who deals with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrate concerned.                       |
| 25. Returning Officer of 25-Uluberia Parliamentary Constituency.       | Executive Magistrate who deals with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrate, Uluberia and two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates Sub-ordinate to the Sub-Divisional Magistrate concerned.   |
| 26. Returning Officer of 26-Serampore Parliamentary Constituency.      | Additional District Magistrate, Hooghly, Senior Deputy Collector, Hooghly, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.                   |
| 27. Returning Officer of 27-Hooghly Parliamentary Constituency.        | Additional District Magistrate, Hooghly, Senior Deputy Collector, Hooghly, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.                   |
| 28. Returning Officer of 28-Arambagh Parliamentary Constituency.       | Additional District Magistrate, Hooghly, Senior Deputy Collector, Hooghly, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.                   |
| 29. Returning Officer of 29-Panskura Parliamentary Constituency        | Additional District Magistrate, Midnapore, Senior Deputy Collector, Midnapore, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates con-   |

I	2
	cerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.
30. Returning Officer of 30-Tamluk Parliamentary Constituency.	Executive Magistrate who deals with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrate, Tamluk, and two other Executive Magistrates who are senior most among the other Executive Magistrates subordinate to the Sub-Divisional Magistrate concerned.
31. Returning Officer of 31-Cental Parliamentary Constituency.	Executive Magistrate who deals with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrate, Cental and two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates subordinate to the Sub-Divisional Magistrate concerned.
32. Returning Officer of 32-Midnapore Parliamentary Constituency.	Additional District Magistrate, Midnapore, Senior Deputy Collector, Midnapore, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.
33. Returning Officer of 33-Jhargram (ST) Parliamentary Constituency.	Additional District Magistrate, Midnapore, Senior Deputy Collector, Midnapore, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.
34. Returning Officer of 34-Purulia, Parliamentary Constituency.	Additional Deputy Commissioner, Purulia, Senior Deputy Collector, Purulia, Sub-Divisional Magistrate concerned and Executive Magistrate who deals with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrate concerned.
35. Returning Officer of 35-Bankura Parliamentary Constituency.	Additional District Magistrate, Bankura, Senior Deputy Collector, Bankura, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.
36. Returning Officer of 36-Vishnupur (SC) Parliamentary Constituency.	Additional District Magistrate, Bankura, Senior Deputy Collector, Bankura, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.

I

2

- |   |  |
|---|--|
| 37. Returning Officer of 37-Durgapur (SC) Parliamentary Constituency. | Additional District Magistrate, Burdwan, Senior Deputy Collector, Burdwan, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned   |
| 38. Returning Officer of 38-Asansol Parliamentary Constituency.       | Additional District Magistrate, Burdwan, Senior Deputy Collector, Burdwan, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.  |
| 39. Returning Officer of 39-Burdwan Parliamentary Constituency.       | Additional District Magistrate, Burdwan, Senior Deputy Collector, Burdwan, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned, and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned. |
| 40. Returning Officer of 40-Karwa Parliamentary Constituency.         | Additional District Magistrate, Burdwan, Senior Deputy Collector, Burdwan, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned   |
| 41. Returning Officer of 41-Belpur Parliamentary Constituency.        | Additional District Magistrate, Birbhum, Senior Deputy Collector, Birbhum, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.  |
| 42. Returning Officer of 42-Birbhum (SC) Parliamentary Constituency.  | Additional District Magistrate, Birbhum, Senior Deputy Collector, Birbhum, two other Executive Magistrates who are Senior most among the other Executive Magistrates at District Head Quarter of the Returning Officer concerned, Sub-Divisional Magistrates concerned and Executive Magistrates who deal with revenue and administrative matters in the absence of Sub-Divisional Magistrates concerned.  |

[No. 434/WB/77(I)]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

का० आ० 117 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा अपनी अधिसूचना सं० 434 प० व०/75 (1) तारीख 24 मई, 1976 को अतिष्ठित करते हुए, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट सरकार के आफिसर या आफिसरों का, सरकार के ऐसे आफिसर या आफिसरों के सामने पश्चिमी बंगाल राज्य के ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र, जैसा कि वह ससदीय तथा सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची XXIII के भाग क में अन्तर्लिखित हैं और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट है, के रिटर्निंग आफिसर को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है।

ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।

सहायक रिटर्निंग आफिसर

1

2

1 1—कूच बिहार (अ० जा०) ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।

अपर उपायुक्त, कूच बिहार, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, कूच बिहार, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।

2 2—अलीपुर द्वारम (अ० ज० जा०) ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।

अपर उपायुक्त, जलपाईगुडी, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, जलपाईगुडी, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटर्निंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय में अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, और वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषयों में कार्यवाही करते हैं।

3 3—जलपाईगुडी ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।

अपर उपायुक्त, जलपाईगुडी, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, जलपाईगुडी, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटर्निंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय में, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट और वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।

1	2
4. 4—दार्जिलिंग संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	अपर उपायुक्त, दार्जिलिंग, ज्येष्ठ उप कलक्टर, दार्जिलिंग सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट और वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।
5. 5—रायगञ्ज संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	अपर जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिमी दिनाजपुर, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, पश्चिमी दिनाजपुर, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों जो सम्पूक्त रिटर्निंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय के अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट और वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।
6. 6—बालूघाट (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	अपर जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिमी दिनाजपुर, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, पश्चिमी दिनाजपुर, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटर्निंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय के अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट और वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।
7. 7—मालदा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	अपर जिला मजिस्ट्रेट, मालदा, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, मालदा सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट और वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।
8. 8—जगीपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	अपर जिला मजिस्ट्रेट, मुर्शिदाबाद, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, मुर्शिदाबाद, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटर्निंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय के अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट और वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।



1

2

9. 9—मुंशिदाबाद ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट, मुंशिदाबाद, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, मुंशिदाबाद, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय के अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं ।

10. 10—बरहामपुर ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट, मुंशिदाबाद, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, मुंशिदाबाद, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय के अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं ।

11. 11—कृष्णनगर ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट, नाडिया, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, नाडिया, तथा वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय के अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं ।

12. 12—नवद्वीप (अ० जा०) ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट, नाडिया, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, नाडिया, तथा वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय के अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं । सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं ।

1

2

13. 13—बारासत संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर। अपर जिला मजिस्ट्रेट, 24-परगना, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, 24-परगना, वे तीन अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय के अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे बरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।
14. 14—बसीरहाट संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर। अपर जिला मजिस्ट्रेट, 24-परगना, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, 24-परगना, वे तीन अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय के अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे बरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।
15. 15—जोयनगर (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर। अपर जिला मजिस्ट्रेट, 24-परगना, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, 24-परगना, वे तीन अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय के अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे बरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उप-खण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उप-खण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।
16. 16—मथुरापुर (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर। वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, डायमण्ड हारबर, की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं, तथा वे तीन अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे बरिष्ठ हैं।

1

2

17. 17—डायमण्ड हारवर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट, 24-परगना, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, 24-परगना, वे तीन अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय के अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ है, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं ।

18. 18—जादवपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट, 24-परगना, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, 24-परगना, वे तीन अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय के अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं तथा निदेशक, भूमि अभिलेख तथा सर्वेक्षण, पश्चिमी बंगाल ।

19. 19—बैरकपोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट, 24-परगना, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, 24-परगना, वे तीन अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय में अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं ।

20. 20—डमडम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट, 24-परगना, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, 24-परगना, वे तीन अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय में अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं,

1

2

सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्य-पालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं; तथा कलकत्ता का कलक्टर ।

21 21—कलकत्ता उत्तर पश्चिम समर्पय निर्वचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

पचायतो के सहायक निदेशक, पचायतो के सहायक निदेशक, पंचायतों के क्षेत्रीय सहायक निदेशक, बर्दवान डिवीजन, पचायतो के क्षेत्रीय सहायक निदेशक, प्रेसीडेसी डिवीजन तथा प्रथम भूमि अर्जन कलक्टर, कलकत्ता ।

22 22—कलकत्ता उत्तर पूर्व समर्पय निर्वचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

प्रोबेट उप-कलक्टर, कलकत्ता कलक्टरी, खजाना अधिकारी, कलकत्ता कलक्टरी, विशेष आफिसर, कलकत्ता कलक्टरी विशेष आफिसर, मनोरजन कर, कलकत्ता कलक्टरी, तथा द्वितीय भूमि अर्जन कलक्टर, कलकत्ता ।

23 23—कलकत्ता दक्षिण समर्पय निर्वचन क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

उप-निदेशक, सर्वेक्षण, पश्चिमी बंगाल, उप-निदेशक भूमि अभिलेख, पश्चिमी बंगाल, निदेशक, भूमि अभिलेख तथा सर्वेक्षण, पश्चिमी बंगाल का वैयक्तिक सहायक, भूमि अभिलेख तथा सर्वेक्षण के निदेशक, पश्चिमी बंगाल का विशेष आफिसर सहायक निदेशक, सर्वेक्षण पश्चिमी बंगाल, सहायक निदेशक, भूमि अभिलेख, पश्चिमी बंगाल, महानिरीक्षक, रजिस्ट्रेशन, पश्चिमी बंगाल तथा सदर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, 24-परगना ।

24 24—हावड़ा संसदीय निर्वचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट, हावड़ा, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, हावड़ा, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय में अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं ।

1

2

25 25—उत्तुवेरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का  
रिटनिंग आफिसर

वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उत्तुवेरिया की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं, तथा वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट के अधो-तन्त्र अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं।

26 26—मोरामपोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र  
का रिटनिंग आफिसर।

अपर जिला मजिस्ट्रेट, हुगली, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, हुगली, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय में अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।

27 27—हुगली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का  
रिटनिंग आफिसर।

अपर जिला मजिस्ट्रेट, हुगली, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, हुगली, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय में अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं। सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।

28 28—आरामबाग संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र  
का रिटनिंग आफिसर

अपर जिला मजिस्ट्रेट, हुगली, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, हुगली, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय में अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।

1

2

29. 29—पंसकुरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर। अपर जिला मजिस्ट्रेट, मिदनापुर, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, मिदनापुर, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय में अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उप-खण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।
30. 30—तामलुक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर। वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तामलुक की अनुपस्थिति से राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं, तथा वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं।
31. 31—कोन्टाई संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर। वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोन्टाई की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं, तथा वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं।
32. 32—मिदनापुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर। अपर जिला मजिस्ट्रेट, मिदनापुर, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, मिदनापुर, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय में अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।
33. 33—क्षारग्राम (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर। अपर जिला मजिस्ट्रेट, मिदनापुर, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, मिदनापुर, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर,

1

2

- के जिला प्रधान कार्यालय में अन्य कार्यालयक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उप-खण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुव-स्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।
34. 34-पुलिया समदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर। अरर उमायुक्त, पुलिया, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, पुलिया, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुवस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।
35. 35-बकुरा समदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर। अरर जिला मजिस्ट्रेट, बकुरा, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, बकुरा, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटर्निंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय में अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उप-खण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुवस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।
36. 36-बिशनपुर (अ० जा०) समदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर। अरर जिला मजिस्ट्रेट, बकुरा, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, बकुरा, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटर्निंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय में अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उप-खण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुवस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।
37. 37-दुर्गापुर (अ० जा०) समदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर। अरर जिला मजिस्ट्रेट, बर्दवान, ज्येष्ठ उप-कलक्टर, बर्दवान, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटर्निंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय में अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उप-खण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे

1

2

कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।

- 38 38—ग्रामतमोल समदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।  
अगर जिला मजिस्ट्रेट, बर्दवान, ज्येष्ठ उप-मजिस्ट्रेट बर्दवान, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय में अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे बरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।
- 39 39—बर्दवान समदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।  
अगर जिला मजिस्ट्रेट, बर्दवान, ज्येष्ठ उप-मजिस्ट्रेट बर्दवान, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय में अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे बरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।
- 40 40—कटवा समदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।  
अगर जिला मजिस्ट्रेट, बर्दवान, ज्येष्ठ उप-मजिस्ट्रेट बर्दवान, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय में अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे बरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्यवाही करते हैं।
- 41 41—बोलपुर समदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर।  
अगर जिला मजिस्ट्रेट, बीरभूमि, ज्येष्ठ उप-मजिस्ट्रेट बीरभूमि, वे दो अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर के जिला प्रधान कार्यालय में अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में सबसे बरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा



1

2

वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्य नहीं करते हैं।

12-वीरभूमि (अ० जा०) सार्वजनिक-चौक क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।

अगर जिला मजिस्ट्रेट, वीरभूमि, उपेक्षित उप-कलक्टर, वीरभूमि, वे दो सम्पूक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त रिटर्निंग आफिसर के जिला प्रशासकीय कार्यालय में अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेटों से सब में वरिष्ठ हैं, सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सम्पूक्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों का अनुपस्थिति में राजस्व तथा प्रशासनिक मामलों के विषय में कार्य नहीं करते हैं।

[म० 434/प व /77(1)]

प्रादेश में,

ए एन सैन, सीनर।

*New Delhi the 29th January 1977*

**S. O 118 (E)**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/A & NI/70, dated 1 January, 1971, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, the Deputy Commissioner, Port Blair to be the Returning Officer for the Andaman and Nicobar Islands Parliamentary Constituency.

[No. 434/A&NI/77.]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1977

**का आ० 118 (अ).**—जो प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धा के अनुसरण में आरक्षण अधिनियम म० 434/प व नि० द्वीप/70, तारीख 1 जनवरी, 1971 को अधिष्ठात करत हुए, निर्वाचित आयात अण्डमान आर निकोबार द्वीप समूह राज्य क्षेत्र सरकार के परामर्श में, उपायुक्त, पोर्ट ब्लेयर, को अण्डमान आर निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त द्वारा पदार्पित किया है।

[सं० 434/अ० नि० द्वीप/77]

**S O 119 (E)**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/A&NI 70, dated 1 January, 1971, the Election Commission hereby appoints the following Officers of Government as Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer of the Andaman and Nicobar Islands Parliamentary Constituency in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, in the performance of his functions:—

1. Assistant Commissioner, Mayabunder.
2. Additional District Magistrate, Port Blair

3. Deputy Commissioner, Car Nicobar.
4. Assistant Commissioner, Nancowry.
5. Assistant Commissioner, Campel Bay.

[No. 434/A&amp;NI/77(1)]

**क्र० प्र० 119(अ).**—लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी अधिसूचना सं० 434/अ० नि० द्वीप/70, तारीख 1 जनवरी, 1971 को अधिक्रान्त करने हुए, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित सरकारी आफिसरों को, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र के अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर, के रूप में पद द्वारा नियुक्त करना है —

1. सहायक आयुक्त, मायाबुनडेर।
2. अपर जिला मजिस्ट्रेट, पोर्ट ब्लेयर।
3. उपायुक्त, कार निकोबार।
4. सहायक आयुक्त, नन निवरी।
5. सहायक आयुक्त, तमोल त्रे।

[स० 434/अ० नि० द्वीप/77(1)]

[New Delhi, the 31st January 1977]

**S.O. 120(E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/ARUNACHAL/75, dated 14 November, 1975, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of the Union Territory of Arunachal Pradesh, the Officer of Government specified in column 2 of the Table below as the Returning Officer for the Parliamentary Constituencies in the Union Territory of Arunachal Pradesh as contained in Part A of Schedule XXIV of Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, and specified in column 1 of the said Table against such Officer of Government—

TABLE

Sl. No. and Name of Parliamentary Constituency	Returning Officer
1	2
1. Arunachal West	Deputy Commissioner, Siang at Along.
2. Arunachal East	Deputy Commissioner, Lohit District at Tezu

[No. 434/ARUN/77]

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1977

**क्र० प्र० 120(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबंधों के अनुसरण में, तथा अपनी अधिसूचना सं० 434 अरुणाचल/75, तारीख 14 नवम्बर, 1975 को अधिक्रान्त करने हुए, निर्वाचन आयोग, अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र सरकार के परामर्श, मे नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट आफिसर को, ऐसे सरकारी आफिसर के सामने, अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों जैसा कि वे संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची XXIV भाग क में अन्तर्बिष्ट है, और

उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट है, के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है :—

### सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या तथा नाम	रिटर्निंग आफिसर
1	2
1. अरुणाचल पश्चिम	उपायुक्त, सियांग, मुकाम अलौग ।
2. अरुणाचल पूर्व	उपायुक्त, जिला लोहित, मुकाम तेजू ।

[सं० 434/अरुणाचल/77]

**S. O. 121 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/ARUNACHAL 75(1), dated 14 November, 1975, the Election Commission, hereby appoints each of the Officers of Government of Arunachal Pradesh as specified in column 2 of the Table below, as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituencies in the Union Territory of Arunachal Pradesh as contained in Part A of Schedule XXIV of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1966, and specified in column 1 of the said Table against such Officer of Government in the performance of the functions of such Returning Officer :—

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
1. Returning Officer of 1-Arunachal West Parliamentary Constituency	1. Deputy Commissioner, Kameng District at Bomdila 2. Deputy Commissioner, Subansiri District at Ziro. 3. Additional Deputy Commissioner, Tawang 4. Additional Deputy Commissioner, Sepp 5. Additional Deputy Commissioner, Daporijo.
2. Returning Officer of 2-Arunachal East Parliamentary Constituency.	1. Deputy Commissioner, Tnap District at Khonsa 2. Additional Deputy Commissioner, Pasighat. 3. Additional Deputy Commissioner, Anini

[No 434/ARUN/77(I)]

**क्र० आ० 121 (अ)।**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा अपनी अधिसूचना सं० 434 अरुणाचल/75(1), तारीख 14 नवम्बर, 1975 को अधिक्रांत करते हुए, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक सरकारी आफिसर को ऐसे आफिसर के सामने, अरुणाचल प्रदेश सघ राज्यक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों,

जैसा कि वे संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची XXIV के भाग क में अर्तविष्ट है, और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, के रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए, सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है :—

### सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
1. 1—अरुणाचल पश्चिम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. उपायुक्त, जिला कामेग, मुकाम ब्रोमडिला । 2. उपायुक्त, जिला सुबनसिरी, मुकाम जोरो । 3. अपर उपायुक्त, तबग । 4. अपर उपायुक्त, सेप्पा । 5. अपर उपायुक्त, दापोरिजो ।
2. 2—अरुणाचल पूर्व संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।	1. उपायुक्त जिला तिराप, मुकाम खोन्सा । 2. अपर उपायुक्त, पासीघाट । 3. अपर उपायुक्त, अनिनी ।

[म० 434/अरुणाचल/77(1)]

*New Delhi, the 29th January, 1977*

**S.O. 122(E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434 CH 6/ dated 29 November, 1966, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of the Union Territory of Chandigarh, the Deputy Commissioner, Chandigarh to be the Returning Officer for the Chandigarh Parliamentary Constituency.

[No 434 CH/77]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1977

क्र० आ० 122(अ) —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43), की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में और अपनी तारीख 29 नवम्बर, 1966 की अधिसूचना सं० 434/चण्डीगढ़ 66 को अधिक्रांत करते हुए, निर्वाचन आयोग चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र सरकार के परामर्श से, उपायुक्त, चण्डीगढ़ को चण्डीगढ़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है ।

[स० 434/चण्डीगढ़ 77]

**S.O. 123(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434 CH 66, dated 29 November, 1966, as amended from time to time, the Election Commission hereby appoints the following Officers of Government as Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer of the Chandigarh Parliamentary Constituency in the Union Territory of Chandigarh in the performance of his functions.—

1. The Executive Magistrate, Union Territory of Chandigarh
2. The Deputy Chief Administrator, Union Territory of Chandigarh.

[No. 434/CH/77(1)]

का० आ० 123 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी अधिसूचना सं० 434/चण्डीगढ़/66 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित सरकारी आफिसरों को, चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के चण्डीगढ़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।—

1. कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र।
2. उप मुख्य प्रशासक, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र।

[सं० 434/चण्डीगढ़/77(1)]

**S.O. 124(E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/DN/66 dated 24 March, 1966, the Election Commission, hereby designates, in consultation with the Government of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, the Secretary to the Administrator, Dadra and Nagar Haveli to be the Returning Officer for the Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency.

[No. 434/DNH/77]

का० अ० 124 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में और अपनी अधिसूचना सं० 434/दादरा/66 तारीख 24 मार्च, 1966 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग दादरा और नागर हवेली संघ राज्य-क्षेत्र की सरकार के परामर्श से, प्रशासक, दादरा और नागर हवेली के सचिव को दादरा और नागर हवेली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है।

[सं० 434/दादरा/77]

**S.O. (125)(E)**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/DN/66, dated 24 March, 1966, the Election Commission hereby appoints the following Officers of Government as Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer of the Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli in the performance of his functions.—

1. Mamlatdar, Dadra and Nagar Haveli.
2. Assistant Secretary to the Administrator, Dadra and Nagar Haveli.

[No. 434/DNH/77(1)]

का० आ० 125 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी अधिसूचना सं० 434/66, दादरा तारीख 24 मार्च, 1966 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग, सरकार के निम्नलिखित आफिसरों को दादरा और नागर हवेली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप में नियुक्त करता है।—

1. मामलतदार, दादरा और नागर हवेली।
2. प्रशासक, दादरा और नागर हवेली के सहायक सचिव।

[सं० 434/दादरा/77(1)]

**S. O. 126 (E).**—In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of its Notification No. 434 DL/75, dated 26 September, 1975, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Delhi Administration, the officer of the Administration specified in column 2 of the Table below as the Returning Officer of the Parliamentary Constituencies in the Union Territory of Delhi, as specified in column 1 of the said Table against such officer of Administration.—

TABLE

Serial No. and Name of the Parliamentary Constituency	Returning Officer
1	2
1. New Delhi . . . . .	Smt Meenakshi Dutta, Ghosla, ADM New Delhi
2. South Delhi . . . . .	Shri V. K. Duggal, ADM (South).
3. Outer Delhi . . . . .	Shri A. C. Kher, ADM (Revenues).
4. East Delhi . . . . .	Shri B. P. Mishra, ADM (East).
5. Chandni Chowk . . . . .	Shri Ashok Pradhan, ADM (Central & Hq.)
6. Delhi Sadar . . . . .	Shri S. L. Arora, ADM (North).
7. Karol Bagh (SC) . . . . .	Shri Ashok Pradhan, ADM (Central & Hq.).

[No. 434/DL/77]

**का प्र 126 (प्र).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/दिल्ली/75, तारीख 26 सितम्बर, 1975 को अधिकांश करते हुए निर्वाचन आयोग दिल्ली प्रशासन के परामर्श से नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट दिल्ली प्रशासन के आफिसर को, ऐसे आफिसर के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है :—

## सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	रिटर्निंग आफिसर
1	2
1. नई दिल्ली	श्रीमती मीनाक्षी दत्त घोष, अपर जिला मजिस्ट्रेट नई दिल्ली ।
2. दक्षिण दिल्ली	श्री बी० के० दुग्गल, अपर जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण)
3. बाह्य दिल्ली	श्री ए० सी० खेर, अपर जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व)
4. पूर्व दिल्ली	श्री बी० पी० मिश्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) ।
5. चांदनी चौक	श्री अशोक प्रधान, अपर जिला मजिस्ट्रेट (केन्द्रीय तथा मुख्यालय) ।
6. दिल्ली सदर	श्री एस० एल० अरोड़ा, अपर जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर) ।
7. कंगौल बाग (अ० जा०)	श्री अशोक प्रधान, अपर जिला मजिस्ट्रेट (केन्द्रीय तथा मुख्यालय) ।

[स० 434/दिल्ली/77]

**S. O /27 (E)**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/DL/75(1), dated 26 September 1975, the Election Commission hereby appoints each of the officers of the Delhi Administration, as specified in column 2 of the Table below, to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the Union Territory of Delhi, as specified in column-1 of the said Table, in the performance of the functions of such Returning Officer :—

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
Returning Officer of 1. New Delhi Parliamentary Constituency.	1. Shri G. K. Marwah, SDM Lajpat Nagar. 2. Shri K.L. Chopra, Executive Magistrate, New Courts Tis Hazari, Delhi. 3. Shri B.S. Anand, Executive Magistrate Tis Hazari, Courts, Delhi.
Returning Officer of 2. South Delhi Parliamentary Constituency.	1. Shri K.S. Wahi, SDM Parliament Street. 2. Shri A.K. Pataindy, SDM Tis Hazari Courts 3. Shri K. N. Banati, Executive Magistrate, Tis Hazari, Courts, Delhi.
Returning Officer of 3. Outer Delhi Parliamentary Constituency.	1. Shri A.S. Awasthi, S.D.M. 68, Ashoka Road, New Delhi. 2. Shri S.K. Malhotra, Executive Magistrate, Tis Hazari Courts, Delhi. 3. Shri M. L. Aggarwal, Executive Magistrate, Tis Hazari Courts, Delhi.
Returning Officer of 4. East Delhi Parliamentary Constituency.	1. Shri Ashok Kumar, SDM Shahdhra, Delhi 32, 2. Shri R. D. Srivastava, Executive Magistrate Tis Hazari Courts, Delhi. 3. Shri Y. D. Banakata, Executive Magistrate New Courts, Tis Hazari, Delhi.
Returning Officer of 5. Chandni Chowk Parliamentary Constituency.	1. Shri B.L. Anand, SDM Tis Hazari, Delhi. 2. Shri SPS Bhatni, SDM Tis Hazari, Courts, 3. Shri S.S. Harit, SDM Tis Hazari Courts, Delhi. 4. Shri N. C. Ray, Executive Magistrate, Tis Hazari, Delhi.
Returning Officer of 6. Delhi Sadar Parliamentary Constituency.	1. Shri N. Diwakar, SDM, Tis Hazari Courts, Delhi. 2. Shri G. Srivastava, SDM, Tis Hazari Courts, Delhi. 3. Shri S.P. Marwah, SDM, Tis Hazari Courts, Delhi.
Returning Officer of 7. Karol Bagh (SC) Parliamentary Constituency.	1. Shri S.C. Poddar, SDM, Tis Hazari, Delhi. 2. Shri C. S. Khairwal, SDM, Tis Hazari Courts, Delhi. 3. Shri Banwari Lal Executive Magistrate, Delhi. 4. Mrs. Lalita Kumari, Sub-Divisional Magistrate, Tis Hazari, Delhi.

क्रा०प्रा० 127(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना सं० 434, दिल्ली/75(1), तारीख 26 सितम्बर, 1975 को अतिष्ठित करने हुए, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट दिल्ली प्रशासन के हरेक आफिसर को, ऐसे आफिसरों के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट दिल्ली सब राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए नियुक्त करता है —

### सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
1. नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. श्री जी० के० मरवाह, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लाजपतनगर। 2. श्री के० एल० चौपड़ा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यू कोर्ट्स, तीस हजारी, दिल्ली। 3. श्री बी० एस० आनन्द, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट्स, दिल्ली।
2. दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. श्री के० एस० वाही, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पालियामेट स्ट्रीट। 2. श्री के० के० पटेन्डी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट्स। 3. श्री के० एन० बनाती, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट्स, दिल्ली।
3. बाह्य दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. श्री ए० एस० अवस्थी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, 68, अशोक मार्ग, नई दिल्ली। 2. श्री एस० के० मलहोत्रा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट्स, दिल्ली। 3. श्री एम० एल० अग्रवाल, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तीस हजारी, कोर्ट्स, दिल्ली।
4. पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	1. श्री अशोक कुमार, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शाहदरा, दिल्ली-32। 2. श्री आर० डी० श्रीवास्तव, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट्स, दिल्ली। 3. श्री वाई० डी० बनकट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यू कोर्ट्स, तीस हजारी, दिल्ली।



1

2

- |  |   |
|--|---|
| <p>5. चांदनी चौक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।</p>      | <p>1. श्री बी० एल० आनन्द, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तीस हजारी, दिल्ली ।</p>              |
|  | <p>2. श्री एस० पी० एस० भात्री, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट्स, दिल्ली ।</p> |
|  | <p>3. श्री एस० एस० हरित, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तीस हजारी, कोर्ट्स, दिल्ली ।</p>      |
|  | <p>4. श्री एन० सी० रे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट्स, दिल्ली ।</p>      |
| <p>6. दिल्ली सदर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का रिटर्निंग आफिसर ।</p>    | <p>1. श्री एन० दिवाकर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट्स दिल्ली ।</p>          |
|  | <p>2. श्री जी० श्रीवास्तव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट्स, दिल्ली ।</p>     |
|  | <p>3. श्री एस० पी० मरवाह, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट्स, दिल्ली ।</p>      |
| <p>7. करोलबाग (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।</p> | <p>1. श्री एस० सी० पोद्दार, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट्स, दिल्ली ।</p>    |
|  | <p>2. श्री सी० ए० खैरवाल, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट्स, दिल्ली ।</p>      |
|  | <p>3. श्री बनवारी लाल, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दिल्ली ।</p>                         |
|  | <p>4. श्रीमती ललिता कुमार, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट्स, दिल्ली ।</p>     |

[ सं० 434/दिल्ली/77(1) ]

**S. O. 128 (E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/GOA/74, dated 1 January, 1975, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Goa, Daman and Diu, the Collector of Goa, Panaji, to be the Returning Officer for the Parliamentary Constituencies in the Union Territory of Goa, Daman and Diu as contained in Part A of Schedule XXVI of Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976.

[No. 434/GOA/77]

**सं०का०नि० 128 (अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबंधों के अनुसरण में और अपनी अधिसूचना सं० 434/गोआ/74 तारीख 1 जनवरी, 1975 को अतिष्ठित करते हुए, निर्वाचन आयोग, गोवा, दमण और दीव सरकार के परामर्श से कलकट, गोवा, पणजी को, गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जैसा कि वे संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिचयमान आदेश, 1976 की अनुसूची 26 के भाग क में अन्तर्बिष्ट है, के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है ।

[ सं० 434/गोवा/77 ]

**S. O 129 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/GOA/74(1), dated 1 January, 1975, the Election Commission hereby appoints each of the Officers of Government as specified in column 2 of the Table below, as Assistant Returning Officers of the Parliamentary Constituencies in the Union Territory of Goa, Daman and Diu as contained in Part A of Schedule XXVI of Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and specified in column 1 of the said Table against such officer, in the performance of the functions of such Returning Officer—

TABLE

Returning Officer of the Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer/Officers
1	2
1. Returning Officer of 1—Panaji Parliamentary Constituency	1. Deputy Collector, North Division, Panaji. 2. Civil Administrator, Diu 3. Mamlatdar-cum-Block Development Officer, Daman.
2. Returning Officer of 2—Mormugao Parliamentary Constituency.	Deputy Collector, South Division, Margao.

[सं० 434/गोवा/77 (1)]

**सां०का०नि० 129 (अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/गोवा/74 (1) तारीख 1 जनवरी, 1975 को अतिष्ठित करते हुए, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक सरकारी आफिसर को ऐसे सरकारी आफिसर के सामने गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों, जैसा कि वे संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 26 के भाग क में अतिष्ठित हैं और उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में यथा विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के लिए रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा नियुक्त करता है ।

### सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र  
का रिटर्निंग आफिसर

सहायक रिटर्निंग आफिसर

- |  |   |
|--|---|
| 1. पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर ।     | 1. उप-कलक्टर, उत्तर डिविजन, पणजी ।<br>2. सिविल प्रशासक, दीव ।<br>3. मामलातदार एवं-खण्ड विकास आफिसर, दमण । |
| 2. मोरमुगाओ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर । | उप-कलक्टर, दक्षिण डिविजन, मारगाओ ।  |

[सं० 434/गोवा/77(1)]

**S. O. 130 (E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/IMA/72, dated 23 November, 1972, the Election Commission, in consultation with the Administration of the Union Territory of Lakshadweep, hereby designates the Settlement Officer of the Union Territory of Lakshadweep as the Returning Officer for the Lakshadweep Parliamentary constituency.

[No. 434/LD/77]

**सं० का० नि० 130 (अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43), की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में और अपनी तारीख 23 नवम्बर, 1972 की अधिसूचना सं० 434/लक्षद्वीप '72 को अधिश्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से, लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्र के सेटलमेंट आफिसर को लक्षद्वीप संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है।

[ सं० 434 'लक्षद्वीप '77 ]

**S. O. 131 (E)**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/IM/66, dated 31 May, 1966, the Election Commission hereby appoints the following Officers of Government as assistant Returning Officers to assist the Returning Officer of the Lakshadweep Parliamentary Constituency in the Union Territory of Lakshadweep in the performance of his functions:—

1. Tahsildar, Androth.
2. Tahsildar, Minicoy.
3. Tahsildar, Kavaratti.
4. Tahsildar, Amin.
5. Tahsildar for Election.

[No. 434/LD/77(1)]

**का० आ० 131 (अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी तारीख 31 मई, 1966 की अधिसूचना सं० 434 लक्षद्वीप, 66 को अधिश्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित सरकारी आफिसरों को, लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्र के लक्षद्वीप संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा नियुक्त करता है —

1. तहसीलदार, आन्द्रोथ ।
2. तहसीलदार, मिनिक्वोय ।
3. तहसीलदार, कवारत्ती ।
4. तहसीलदार, अमिनी ।
5. निर्वाचन के लिए तहसीलदार ।

[सं० 434 'लक्षद्वीप '77(1)]

**S. O. 132 (E)**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/MIZ/75(2), dated 20 June, 1975, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of the Union Territory of Mizoram, the Deputy Commissioner, Aizawl District, Aizawl to be the Returning Officer for the Mizoram Parliamentary Constituency.

[No. 434/MIZ/77]

का० आ० 132 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/मिजो/75(2) तारीख 20 जून, 1975 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग, मिजोरम संघ राज्य-क्षेत्र सरकार के परामर्श से, उपायुक्त, जिला अइजावल, अइजावल, को मिजोरम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है ।

[सं० 434 मिजो/77]

**S. O. 133 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/MIZ/75(3), dated 20 June, 1975, the Election Commission hereby appoints the following Officers of Government as Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer of the Mizoram Parliamentary Constituency in the Union Territory of Mizoram in the performance of his functions:—

1. Deputy Commissioner, Chhimituipui District, Saiha,
2. Deputy Commissioner, Lunglei District, Lunglei.

[No. 434/MIZ/77(1)]

का० आ० 133 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/मिजो/75(3) तारीख 20 जून, 1975 को अधिक्रान्त करते हुये, निर्वाचन आयोग सरकार के निम्नलिखित आफिसरों को मिजोरम संघ राज्य-क्षेत्र में मिजोरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा नियुक्त करता है ।

1. उपायुक्त, छिमतुइपुइ जिला, सैहा ।
2. उपायुक्त, लुगलेइ जिला, लुगलेइ ।

[सं० 434/मिजो/77 (1)]

**S. O. 134 (E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/POND/73, dated 24 November, 1973, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Pondicherry, the Collector-cum-District Magistrate (Independent), Pondicherry to be the Returning Officer for the Parliamentary Constituency in the Union Territory of Pondicherry.

[No. 434/POND/77]

का० आ० 134 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, और अपनी अधिसूचना सं० 434/पांडि/73, तारीख 24 नवम्बर, 1973 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग पांडिचेरी की सरकार के परामर्श से, कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट (इंडिपेंडेंट), पांडिचेरी को पांडिचेरी संघ राज्य-क्षेत्र में पांडिचेरी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है ।

[सं० 434/पांडि/77]

**S. O. 135 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/POND/73(1), dated 24 November, 1973, the Election Commission hereby appoints the following 13 Officers of Government as Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer of the Pondicherry Parliamentary Constituency in the Union Territory of Pondicherry in the performance of his functions:—

1. The Registrar of Co-operative Societies, Pondicherry
2. The Deputy Secretary (Revenue), Pondicherry
3. The Commissioner, Pondicherry Municipality, Pondicherry
4. The Deputy Collector (Excise), Pondicherry.
5. The Deputy Collector (Revenue) & Administrator, Karaikal
6. The Deputy Collector (Revenue) & Administrator, Mahe
7. The Sub-Collector & Administrator, Yanam

No. 434/POND/77(1).

By order,

P. K. MISRA, Secy.

**का आ० 135 (अ)**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए तथा अपनी अधिसूचना सं० 434 पांडि० 73(1), तारीख 24 नवम्बर, 1973 को अतिष्ठित करने हुए, निर्वाचन आयोग, पाण्डिचेरी सद्यः राज्य-क्षेत्र के पाण्डिचेरी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिये सरकार के निम्नलिखित आफिसरों को सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है —

1. सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार, पाण्डिचेरी ।
2. उप-सचिव, (राजस्व), पाण्डिचेरी ।
3. आयुक्त, पाण्डिचेरी नगरपालिका, पाण्डिचेरी ।
4. उप-कलक्टर (उत्पादन शुल्क), पाण्डिचेरी ।
5. उप-कलक्टर (राजस्व) तथा प्रशासक, कराईकल ।
6. उप-कलक्टर (राजस्व), तथा प्रशासक, माहे ।
7. सब-कलक्टर तथा प्रशासक, यानम ।

सं० 434 पांडि० 77, (1)

आदेश से,

प्र० कु० मिश्र, सचिव ।

सहा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

